

CORP & REGD OFFICE : "TRIDENT TOWERS" No. 23, 4th Floor, 100 feet Road, Jayanagar 2nd Block, Bangalore-560011 Phone : 080-26561562 / 1571 /1573 /581 URL : www.naturalcapsules.com Email : info@naturalcapsules.com, CIN No. : L85110KA1993PLC014742

October 31, 2023

To The Manager BSE Limited (BSE) P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001, Maharashtra, India,

Subject: Submission of Newspaper Advertisement for Final Reminder cum Forfeiture Notice- First Call and Final reminder cum Forfeiture Notice- Second and Final Call (together referred to as "Forfeiture Notices") in accordance with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,2015

Pursuant to provisions of Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. We are submitting herewith the e-clippings of the Notices published in connection with the Forfeiture Notices of the Company, in the following newspapers on October 31 2023:

- 1. Financial Express- (English) (All Editions)
- 2. Jansatta (Hindi) (All Editions)
- 3. Vartha Bharati (Bangalore Edition)

Kindly take the same on your record.

Yours Faithfully

For Natural Capsules Limited

Shilpa Burman Company Secretary & Compliance Officer



22

FINANCIAL EXPRESS

NATURAL CAPSULES LIMITED

Registered Office: Trident Tower, 3rd Floor, No. 23, 100 Ft Road, Jaynagar II Block, Bangalore, Karnataka 560011

Tel: 080-2667 1571; E-mail: company.sec@naturalcapsules.com; Website: www.naturalcapsules.com Contact Person: Mrs. Shilpa Burman, Company Secretary and Compliance Officer

Corporate Identification Number: L85110KA1993PLC014742 **CALL MONEY REMINDER CUM FORFEITURE NOTICES**

Notice is hereby given that the Company has dispatched Final Reminder Cum Forfeiture Notice - First Call and Final Reminder Cum Forfeiture Notice - Second and Final Call (together referred to as the "Forfeiture Notices") dated October 25, 2023 to the holders of partly paid-up Equity shares of Natural Capsules Limited ("Company") who had not paid the Call mony(ies), advising them to remit outstanding call money(ies) along with interest thereon on or before November 15, 2023, in respect of Equity Shares issued on Rights Basis at Issue Price Rs. 100/- each (including Premium of Rs. 90/- per share) in pursuance of Letter of Offer dated October 30, 2021. As per the said Notice dated October 25, 2023, Company has given a period of 15 days to the Shareholders for making payment of outstanding call money alongwith interest thereon on or before November 15, 2023. In accordance with the Articles of Association of the Company, payment of the First and/or Second and Final Call money along with interest on respective calls is to be sent through Demand Draft only in the name "NCL - COLLECTION ACCOUNT - SECOND & FINAL CALL" payable at Par.

The Right equity shares in respect of whom outstanding Call Money along with interest thereon is received on or before November 15, 2023 will be credited to the fully paid-up ISIN INE936B01015 of the Equity Shares of the Company and appropriate process seeking listing and trading thereof will be initiated by the Company. The Company and/or its Registrar will not be liable for any delayed receipt and reserves the right to reject such delayed receipts.

The Right Equity Shares in respect of whom outstanding Call Money along with interest thereon is not received on or before November 15, 2023, will be liable for forfeiture (including the amount already paid thereon) without any further notice as per applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Articles of Association of the Company and terms of Issue as stated in the Letter of Offer dated October 30, 2021.

For Natural Capsules Limited

Sd/

Sunil L Mundra **Managing Director**



HDFC Asset Management Company Limited CIN: L65991MH1999PLC123027

Registered Office: HDFC House, 2nd Floor, H.T. Parekh Marg, 165-166, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400 020, Phone: 022 66316333 • Toll Free Nos: 1800-3010-6767 / 1800-419-7676 e-mail: hello@hdfcfund.com • Visit us at: www.hdfcfund.com

NOTICE

Half-Yearly unaudited financial results of Schemes of HDFC Mutual Fund

NOTICE is hereby given that as per the extant SEBI guidelines the unaudited financial results of the Schemes of HDFC Mutual Fund ("the Fund") for the half-year ended September 30, 2023 have been hosted on the website viz. www.hdfcfund.com

Investors may accordingly view / download the aforesaid results of the Schemes of the Fund from the website.

Investors are requested to periodically review and update their KYC along with their mobile number, email id, nominee details etc.

For HDFC Asset Management Company Limited (Investment Manager to HDFC Mutual Fund)

Place : Mumbai

Date : October 30, 2023

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS. READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.



MUTUAL

Sahi Hai

QUANTUM MUTUAL FUND FOR THOUGHTFUL INVESTORS

Investment Manager: Quantum Asset Management Company Private Limited 6º Floor, Hoechst House, Nariman Point, Mumbai - 400021, India Toll Free No.: 1800-209-3863/1800-22-3863; Email: CustomerCare@QuantumAMC.com Website: www.QuantumAMC.com CIN: U65990MH2005PTC156152

NOTICE NO.5 / 2023

NOTICE

Notice is hereby given to the Investors/Unit holders of all the Scheme(s) of Quantum Mutual Fund (Fund) that in accordance with Regulation 59 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with SEBI Master Circular No. SEBI/HO/IMD/IMD-PoD-1/P/CIR/2023/74 dated May 19, 2023, Unaudited Half Yearly Financial Results of all the Scheme(s) of the Fund for the half year ended September 30, 2023, is hosted on the website www.QuantumAMC.com in a user-friendly and downloadable format on October 28, 2023.

F	or Quantum Asset Management Company Private Limited (Investment Manager - Quantum Mutual Fund)
	Sd/-
), 2023	Jimmy A Patel Managing Director and Chief Executive Officer DIN: 00109211

Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

..continued from previous page.

THE EQUITY SHARES OF OUR BANK WILL GET LISTED ON MAIN BOARD PLATFORM OF BSE AND NSE

In case of any revision in the Price Band, the Bid/ Offer Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Bank and the Promoter Selling Shareholder may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/Offer Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/ Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the change on the respective websites of the BRLMs and at the terminals of the Syndicate Members and by intimation to Designated Intermediaries and the Sponsor Banks.

The Offer is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations and in compliance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations, wherein not more than 50% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs", the "QIB Portion"), provided that our Bank and the Promoter Selling Shareholder may, in consultation with the BRLMs, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis ("Anchor Investor Portion"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price in accordance with the SEBI ICDR Regulations. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion (other than Anchor Investor Portion) ("Net QIB Portion"). Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Net Offer shall be available for allocation to Non-Institutional Bidders, out of which (a) one third of such portion shall be reserved for Bidders with Bids exceeding ₹ 0.20 million and up to ₹ 1.00 million; and (b) two third of such portion shall be reserved for Bidders with application size of more than ₹1.00 million, provided that the unsubscribed portion in either of such sub-categories may be allocated to Bidders in the other sub-category of Non-Institutional Bidders, subject to valid Bids received at or above the Offer Price, and not less than 35% of the Net Offer shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. Further, Equity Shares will be allocated on a proportionate basis to Eligible Employees applying under the Employee Reservation Portion, subject to valid Bids received from them at or above the Offer Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily required to participate in the Offer through the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective ASBAAccount (as defined hereinafter), and UPI ID in case of UPI Bidders (defined hereinafter), if applicable, pursuant to which the corresponding Bid Amount will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or the Sponsor Banks, as the case may be, to the extent of their respective Bid Amount. Anchor Investors are not permitted to participate in the Offer through the ASBA process. For details, see "Offer Procedure" on page 471 of the RHP. Bidders/Applicants should ensure that DP ID, PAN and the Client ID and UPI ID (for UPI Bidders bidding through UPI Mechanism) are correctly filled in the Bid cum Application Form. The DP ID, PAN and Client ID provided in the Bid cum Application Form should match with the DP ID, PAN, Client ID and UPI ID available (for UPI Bidders bidding through the UPI Mechanism) in the Depository database, otherwise, the Bid cum Application Form is liable to be rejected. Bidders/Applicants should ensure that the beneficiary account provided in the Bid cum Application Form is active. Bidders/Applicants should note that on the basis of the PAN, DP ID and Client ID as provided in the Bid cum Application Form, the Bidder/Applicant may be deemed to have authorized the Depositories to provide to the Registrar to the Offer, any requested Demographic Details of the Bidder/Applicant as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for giving Allotment Advice or unblocking of ASBA Account or for other correspondence(s) related to the Offer. Bidders/Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Bidders/Applicants' sole risk.

LIABILITY OF THE MEMBERS OF OUR BANK: Limited by shares.

Authorized Signatory

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF OUR BANK AND CAPITAL STRUCTURE: As on the date of the RHP, the authorised share capital of the Bank is ₹ 6,000,000,000 consisting of 600,000,000 equity shares of face value of ₹10 each aggregating to ₹ 6,000,000,000. The issued, subscribed and paid-up share capital before the Offer of the Bank is ₹ 4,494,737,980 consisting of 449,473,798 equity shares of face value of ₹10 each. For details of the capital structure of our Bank, see "Capital Structure" beginning on page 109 of the RHP.

Place: Mumbai

Date: October 30.

NAMES OF THE INITIAL SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF OUR BANK AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: The names of the initial signatories of the Memorandum of Association of our Bank along with their allotment are: Allotment of 94,995 equity shares to ESAF Financial Holdings Private Limited, 5,000 equity shares to Kadambelil Paul Thomas and 1 Equity Share each to Mereena Paul, Alok Thomas Paul, Emy Acha Paul, George Kalaparambil John and Beena George, who hold such Equity Shares as nominees on behalf of ESAF Financial Holdings Private Limited, who is the beneficial owner of such Equity Shares. For details of the share capital history and capital structure of our Bank see "Capital Structure" beginning on page 109 of the RHP.

LISTING: The Equity Shares offered through this Red Herring Prospectus are proposed to be listed on National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and BSE Limited ("BSE", and together with NSE, the "Stock Exchanges"). Our Bank has received 'in-principle' approvals from BSE and NSE for the listing of the Equity Shares pursuant to letters, each dated September 7, 2023. For the purposes of the Offer, the Designated Stock Exchange shall be BSE. A signed copy of the Red Herring Prospectus has been filed with the RoC and a copy of the Prospectus shall be filed with the RoC in accordance with Section 26(4) of the Companies Act 2013. For details of the material contracts and documents available for inspection from the date of this Red Herring Prospectus up to the Bid/ Offer Closing Date, see "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 497 of the RHP.

DISCLAIMER CLAUSE OF RBI: Alicense authorizing the Bank to carry on small finance bank business has been obtained from the Reserve Bank of India in terms of Section 22 of the Banking Regulation Act, 1949. It must be distinctly understood, however, that in issuing the license, the Reserve Bank of India does not undertake any responsibility for the financial soundness of the Bank or for the correctness of any of the statements made or opinion expressed in this connection.

DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI"): SEBI only gives its observations on the offer documents and this does not constitute approval of either the Offer or the specified securities stated in the Offer Document. The investors are advised to refer to page 465 of the RHP for the full text of the disclaimer clause ofSEBI DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (the Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the RHP has been cleared or approved by BSE Limited nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the RHP. The investors are advised to refer to the page 445 of the RHP for the full text of the disclaimer clause of BSE.

Investors must ensure that their PAN is linked with Aadhaar and are in compliance with the notification issued by Central Board of Direct Taxes notification dated February 13, 2020 and read with press releases dated June 25, 2021, September 17, 2021 and March 28, 2023 and any subsequent press releases in this regard.

CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF OUR BANK AS REGARDS ITS OBJECTS: For information on the main objects of our Bank, investors are requested to see "History and Certain Corporate Matters" beginning on page 241 of the RHP. The Memorandum of Association of our Bank is a material document for inspection in relation to the Offer: For further details, see "Material Contracts and Documents for Inspection" beginning on page 497 of the RHP.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE : It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to page 445 of the RHP for the full text of the disclaimer clause of NSE.

GENERAL RISKS: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Bank and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares in the Offer have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of this Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" on page 35 of the RHP.

UPI-Now available in ASBA for Retail Individual Investors and Non Institutional Investor applying in public issues where the application amount is up to ₹ 500,000, applying through Registered Brokers, Syndicate, CDPs & RTAs. Retail Individual Investors and Non-Institutional Investors also have the option to submit the application directly to the ASBA Bank (SCSBs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account. Investors are required to ensure that the bank account used for bidding is linked to their PAN. Bidders must ensure that their PAN is linked with Aadhaar and are in compliance with CBDT notification dated February 13, 2020 and press release dated June 25, 2021 read with press release dated September 17, 2021. UNIFIED PAYMENTS INTERFACE

*Applications Supported by Blocked Amount ("ASBA") is a better way of applying to offers by simply blocking the fund in the bank account. For further details, check section on ASBA. Mandatory in public issues. No cheque will be accepted.

ASBA* | Simple, Safe, Smart way of Application!!!

ASBA has to be availed by all the investors except Anchor Investors. UPI may be availed by (i) Retail Individual Investors in the Retail Portion; (ii) Non-Institutional Investors with an application size of up to ₹ 500,000 in the Non-Institutional Portion. For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in the Bid Cum Application Form and abridged prospectus and also please refer to the section "Offer Procedure" on page 471 of the RHP. The process is also available on the website of Association of Investment Bankers of India ("AIBI") and Stock Exchanges and in the General Information Document. The Bid Cum Application Form and the Abridged Prospectus can be downloaded from the websites of BSE Limited ("NSE", and together with BSE, the "Stock Exchanges") and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmld=35 and https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmld=43, respectively as updated from time to time. For the list of UPI apps and banks live on IPO, please refer to the link: www.sebi.gov.in. UPI Bidders Bidding using the UPI Mechanism may apply through the SCSBs and mobile applications whose names appear on the website of SEBI, as updated from time to time. HDFC Bank Limited and Kotak Mahindra Bank Limited have been appointed as the Sponsor Banks for the Offer, in accordance with the requirements of SEBI circular dated November 1, 2018 as amended. For Offer related queries, investors can contact NPCI at the toll free number: 18001201740 and mail Id: ipo.upi@npci.org.in.

CORRIGENDUM - NOTICE TO INVESTORS

Document Summary" and "Capital Structure" as appearing on page 22 and 121 respectively, of the RHP, stand amended

1. The aggregate pre-Offer shareholding of our Promoters and Promoter Group as a percentage of the pre-Offer paid-up Equity Share capital of the Bank in the section titled "Offer Document Summary" on page 22 of the RHP shall be read as follows:

Name	Number of Equity Shares	Percentage of the pre-Offer Equity Share Capital (%)
Promoters		
ESAF Financial Holdings Private Limited	280,758,396*	62.46
Kadambelil Paul Thomas	31,186,785	6.94
Total (A)	311,945,181	69.40
Promoter Group		
ESMACO	22,413,659	4.99
Beena George	40,000	0.01
Bosco Joseph	40,000	0.01
Mereena Paul	33,333	0.01
Leo Joseph	16,667	Negligible
Savio Joseph	13,333	Negligible
Alok Thomas Paul	13,333	Negligible
Emy Acha Paul	13,333	Negligible
Total (B)	22,583,658	5.02
Total (A+B)	334,528,839	74.43

*280,758,391 Equity Shares are held by ESAF Financial Holdings Private Limited and one Equity Share each is held by Mereena Paul, Alok Thomas Paul, Emy Acha Paul, George Kalaparambil John and Beena George, as nominees on behalf of ESAF Financial Holdings Private Limited, who is the beneficial owner of such Equity Shares. Mereena Paul, Alok Thomas Paul, Emy Acha Paul and Beena George are also members of the Promoter Group of our Bank. Further, Mereena Paul is also a director of ESAF Financial Holdings Private Limited.

This corrigendum ("Corrigendum") is with reference to the RHP filed in relation to the Offer. In this regard, please note that the tables set out under the sections titled "Offer 2. The details of the Equity Shares held by our Promoters, directors of ESAF Financial Holdings Private Limited and the members of our Promoter Group in our Bank as set out in table 8 (iii) in the section titled "Capital Structure" on page 121 of the RHP shall be read as follows:

Name	Number of Equity Shares	Percentage of the pre-Offer Equity Share Capital (%)
Promoters		
ESAF Financial Holdings Private Limited	280,758,396*	62.46
Kadambelil Paul Thomas	31,186,785	6.94
Total (A)	311,945,181	69.40
Promoter Group		
ESMACO	22,413,659	4.99
Beena George	40,000	0.01
Bosco Joseph	40,000	0.01
Mereena Paul	33,333	0.01
Leo Joseph	16,667	Negligible
Savio Joseph	13,333	Negligible
Alok Thomas Paul	13,333	Negligible
Emy Acha Paul	13,333	Negligible
Total (B)	22,583,658	5.02
Total (A+B)	334,528,839	74.43

* 280,758,391 Equity Shares are held by ESAF Financial Holdings Private Limited and one Equity Share each is held by Mereena Paul, Alok Thomas Paul, Emy Acha Paul, George Kalaparambil John and Beena George, as nominees on behalf of ESAF Financial Holdings Private Limited, who is the beneficial owner of such Equity Shares. Mereena Paul, Alok Thomas Paul, Emy Acha Paul and Beena George are also members of the Promoter Group of our Bank. Further, Mereena Paul is also a director of ESAF Financial Holdings Private Limited.

ICICI Securities

ICICI Securities Limited ICICI Venture House, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai 400 025, Maharashtra, India Tel: +91 22 6807 7100 E-mail: esafsfb.ipo@icicisecurities.com Website: www.icicisecurities.com



DAM Capital Advisors Limited One BKC, Tower C, 15" Floor, Unit No. 1511, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051, Maharashtra, India Tel: +91 22 4202 2500 E-mail: esaf.ipo@damcapital.in Website: www.damcanital.in



Nuvama Wealth Management Limited (formerly known as Edelweiss Securities Limited)* 801 - 804, Wing A, Building No 3, Inspire BKC, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400 051 Maharashtra, India Tel: +91 22 4009 4400

REGISTRAR TO THE OFFER

LINKIntime

Link Intime India Private Limited C-101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg Vikhroli (West), Mumbai 400 083, Maharashtra, India Tel: +91 022 4918 6060 E-mail: esaf.ipo@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in.

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

Ranjith Raj P **ESAF Small Finance Bank Limited** Building No. VII/83/8, ESAF Bhavan, Thrissur-Palakkad National Highway, Mannuthy, Thrissur 680 651, Kerala, India Tel: +91 487 7123 907; Email: investor.relations@esafbank.com

Investors can contact the Company Secretary and Compliance Officer, the BRLMs or the Registrar to the Offer in case of any pre-Offer or post-Offer related problems, such as non-receipt of letters of

Investor Grievance ID: customercare@icicisecurities.com Investor Grievance ID: custome
--

*Pursuant to order passed by Hon'ble National Company Law Tribunal, Mumbai Bench dated April 27, 2023, the merchant banking business of Edelweiss Financial Services Limited has demerged and now transferred to Nuvama Wealth Management Limited and therefore

the said merchant banking business is part of Nuvama Wealth Management Limited

AVAILABILITY OF THE RHP: Investors are advised to refer to the RHP and the "Risk Factors" beginning on page 35 of the RHP before applying in the Offer. A copy of the RHP before applying in the Offer. A copy of the RHP has been made available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in and is available on the websites of the BRLMs, ICICI Securities Limited at www.icicisecurities.com, DAM Capital Advisors Limited at www.damcapital.in and Nuvama Wealth Management Limited at www.nuvama.com and the websites of the Stock Exchanges, for BSE at www.bseindia.com and for NSE at www.nseindia.com.

AVAILABILITY OF THE ABRIDGED PROSPECTUS: A copy of the abridged prospectus shall be available on the website of the Bank at www.icicisecurities.com, DAM Capital Advisors Limited at www.icicisecurities.com, DAM Capital Advi Registrar to the offer at www.linkintime.co.in.

AVAILABILITY OF BID CUM APPLICATION FORM: Bid cum Application Form can be obtained from the Registered Office of our Bank. ESAF SMALL FINANCE BANK LIMITED: Tel: +91 22 6807 7100; DAM Capital Advisors Limited, Tel: +91 22 6807 7100; DAM Capital Advisors Limited, Tel: +91 22 4202 2500 and Nuvama Wealth Management Limited (formerly) known as Edelweiss Securities Limited), Tel: +91 22 4009 4400 and Syndicate Members: Nuvama Wealth Management Limited, Tel: +91 22 6750 2000 and at selected locations of Sub-Syndicate Members (as given below), Registered Brokers, SCSBs, Designated Interview Control of Sub-Syndicate Members (as given below), Registered Brokers, SCSBs, Designated Interview Control of Sub-Syndicate Members (as given below), Registered Brokers, SCSBs, Designated Interview Control of Sub-Syndicate Members (as given below), Registered Brokers, SCSBs, Designated Interview Control of Sub-Syndicate Members (as given below), Registered Brokers, SCSBs, Designated Interview Control of Sub-Syndicate Members (as given below), Registered Brokers, SCSBs, Designated Interview Control of Sub-Syndicate Members (as given below), Registered Brokers, SCSBs, Designated Interview Control of Sub-Syndicate Members (as given below), Registered Brokers, SCSBs, Designated Interview Control of Sub-Syndicate Members (as given below), Registered Brokers, SCSBs, Designated Interview Control of Sub-Syndicate Members (as given below), Registered Brokers, SCSBs, Designated Interview Control of Sub-Syndicate Members (as given below), Registered Brokers, SCSBs, Designated Interview Control of Sub-Syndicate Members (as given below), Registered Brokers, SCSBs, Designated Interview Control of Sub-Syndicate Members (as given below), Registered Brokers, SCSBs, Designated Interview Control of Sub-Syndicate Members (as given below), Registered Brokers, SCSBs, Designated Interview Control of Sub-Syndicate Members (as given below), Registered Brokers, SCSBs, Designated Interview Control of Sub-Syndicate Members (as given below), Registered Brokers, SCSBs, Designated Interview Control of Sub-Syndicate Members (as given below), Registered Brokers, SCSBs, Designated Interview Control of Sub-Syndicate Members (as given below), Registered Brokers, SCSBs, Designated Interview Control of Sub-Syndicate Members (as given below), Registered Brokers, SCSBs, Designated Interview Contro RTA Locations and Designated CDP Locations for participating in the Offer. Bid cum Application Forms will also be available on the websites of the Stock Exchanges and SEBI.

SYNDICATE MEMBERS: Nuvama Wealth Management Limited (formerly known as Edelweiss Securities Limited) and Sharekhan Limited

SUB-SYNDICATE MEMBERS: Anand Rathi Share & Stock Brokers Limited; Axis Capital Limited; Centrum Broking Limited; Centrum Wealth Management Ltd.; Eureka Stock & Share Broking Services Ltd.; Finwizard Technology Pvt. Ltd.; HDFC Securities Limited; IDBI Capital Markets & Securities Ltd.; IFCI Financial Services Ltd.; IIFL Securities Ltd.; Motilal Oswal Securities Ltd.; Normal Bang Securities Ltd.; Normal Bang Securities Ltd.; Inventure Growth & Securities Ltd.; Normal Bang Securities Lt Pravin Ratilal Share And Stock Brokers Ltd.; Religare Broking Limited; Religare Securities Ltd.; Systematix Shares and Stocks (India) Limited; Trade Bulls Securities (P) Ltd.; Way2wealth brokers Pvt Ltd. and YES Securities (India) Limited; SMC Global Securities Ltd.; Systematix Shares and Stocks (India) Limited; Trade Bulls Securities (P) Ltd.; Way2wealth brokers Pvt Ltd. and YES Securities (India) Limited; SMC Global Securities (India) Limite

ESCROW COLLECTION BANK AND REFUND BANK : HDFC Bank Limited.

PUBLIC OFFER ACCOUNT BANK : Kotak Mahindra Bank Limited

SPONSOR BANKS: HDFC Bank Limited and Kotak Mahindra Bank Limited

UPI: UPI Bidders can also Bid through UPI Mechanism.

All capitalised terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the RHP.

For ESAF SMALL FINANCE BANK LIMITED On behalf of the Board of Directors Sd/-Ranjith Raj P Company Secretary and Compliance Officer

CONCEPT

ESAF Small Finance Bank Limited is proposing, subject to the receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed the RHP with RoC. The RHP shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock. Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and is available on the website of the BRLMs, i.e. ICICI Securities Limited at www.nseindia.com and the website of the BSE at www.bseindia.com and the website of the Bank at www.esafbank.com. Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risks, please see the section titled "Risk Factors" beginning on page 35 of the RHP. Potential investors should not rely on the DRHP for making any investment. decision.

This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of securities described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act. of 1933, as amended, or an exemption from registration. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the Bank and that will contain detailed information about the Bank and management, as well as financial statements. However, no public offering of securities is being made in the United States.

inancialexp.epapr.in



Place: Thrissur, Kerala

Date: October 30, 2023







8	जनसता	

	NATURA	L CAPSULES LIMITED			क्षेत्रीय निदेशक		UST	वान की	अपीत	न 🔄	पंजाब नैः	शनल बैंक
		3rd Floor, No. 23, 100 Ft Road, Jaynagar II Block, Bangalore, Karnataka 560011		कंपनी अधिनियम, 2013	ारी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष ही धारा 13 की उप—धारा (4) और	कंपनी (निगमन) सत		वत किया जाता है कि एक			मण्डल शस्त्रा, 13 कविनगर गार्ग	गणि का प्रतेष गाजियाबाद, जेयाबाद — 201001,
	Tel: 080-2667 1571; E-mail: company.sec@naturalcapsules.com; Website: www.naturalcapsules.com Contact Person: Mrs. Shilpa Burman, Company Secretary and Compliance Officer Corporate Identification Number: L85110KA1993PLC014742		com	नियम, 2014 के नियम 30 की उप नियम (5) के खंड (ए) के मामले में और एलडब्ल्यूएम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसका पंजीकृत कार्यालय डी–502, विदिशा अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 79, पटपड़गंज			व्यक्ति जिसका नाम अज्ञात, पुत्र अज्ञात पता अज्ञात जिसकी उम करीब 40 वर्ष कतर 5'8" रंगर				मो: 88268 ई—मेल: cs8228	387776
	CALL MONEY REMINDER CUM FORFEITURE NOTICES Notice is hereby given that the Company has dispatched Final Reminder Cum Forfeiture Notice – First		linet	डी—502, विदिशा अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 79, पटपड़गंज नई दिल्ली 110092 भारत में है के मामले मेंयाचिकाकर्ता			जिसकी उम्र करीब 40 वर्ष, कदः 5'8", रंगः गेहुँआ, जिसने नीले रंग की कमीज और स्लेटी रंग			Gria	शुदि 16,10,2023 को	पत्र इस समाचार पत्र में
	Call and Final Reminder Cum Forfeiture Notice - Second and Final Call (together referred to as the "Forfeiture Notices") dated October 25, 2023 to the holders of partly paid-up Equity shares of Natural		the ural 3	याचिका की सूचना आम जनता को एतइद्रारा सचना दी जाती है कि एलडब्ल्यएम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड			की पैंट पहनी है। जो कि 26.10.2023 को सुबह			छपे वि आम र	ोज्ञापन ई—नीलामी जनता सूचित किय	। सूचना के संदर्भ में 11 जाता है कि शाखा
Capsules Limited ("Company") who had not paid the Call mony(ies), advising them to remit outstanding call money(ies) along with interest thereon on or before November 15, 2023, in respect of Equity Shares		ling Tares q	याचिकाकर्ता ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत क्षेत्रीय निदेशक को आवेद को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को श्केंद्र			10:25 बजे फुटपाथ, एक्स ब्लॉक सब्जी मंडी के			अली पु	जी टी रोड (018000) का खाता श्री रफाकत अली पुत्र श्री परवेज खान और श्री लियाकत		
issued on Rights Basis at Issue Price Rs. 100/- each (including Premium of Rs. 90/- per share) in pursuance of Letter of Offer dated October 30, 2021. As per the said Notice dated October 25, 2023, Company has given a period of 15 days to the Shareholders for making payment of outstanding call money alongwith		has	शासित प्रदेश दिल्ली से उत्तर प्रदेश में बदलने में सक्षम बनाने के लिए 15 मार्च, 2023 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन की पुष्टि की मांग की गई है।			पास, के-2, स्कूल के सामने, मंगोलपुरी, दिल्ली में मृत अवस्था में मिला। इस संदर्भ में DD No.53A, दिनांक: 26.10.2023			सह-प	अली पुत्र श्री परवेज खान (उधारकर्ता और सह—उधारकर्ता) (क.स. 2) की ई—नीलामी दिनांक 02.11.2023 को होनी प्रस्तावित है.		
given a period of 15 days to the Shareholders for making payment of outstanding call money alongwith interest thereon on or before November 15, 2023. In accordance with the Articles of Association of the Company, payment of the First and/or Second and Final Call money along with interest on respective calls is to be sent through Demand Draft only in the name "NCL — COLLECTION ACCOUNT — SECOND &		the q tive fi	आफ एसासिएशन में परिवर्तन का पुष्टि की मांग की गई है। कोई भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, तो वह या तो एमसीए–21 पोर्टल			मृत अवस्था म मिला। इस सदम म DD NO.53A, 1दनाक: 26.10.2023 थाना मंगोलपुरी, दिल्ली में दर्ज है।			हम इन रद ∕ नि	हम इन खातों की सम्पत्तियों की ईनीलामी को रद / निरस्त करते है।		
	FINAL CALL" payable at Par.	outstanding Call Money along with interest thereon		हित प्रभावित होने को समावनी हो, तो वह यो तो एमसाए—21 पाटल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म भरकर या अपने हित के प्रभाव से संबंधित आशय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी			इस मृतक व्यक्ति के बारे में किसी भी व्यक्ति को कोई भी जानकारी/सुराग				ाते / विवरण पूर्वा धिकृत अधिकारी,	नुसार रहेंगी। पंजाब नैशनल बैंक
	received on or before November 15, 2023 wi	ill be credited to the fully paid-up ISIN INE936B01015 ppriate process seeking listing and trading thereof will	5 of 3 be 7	आपत्ति पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय, क्षेत्रीय निदेशक, बी–2 विंग, द्वितीय तल पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि			मिले तो अधोहस्ताक्षरित एवं निम्नलिखित नम्बरों पर सूचित करने की कृपा करें।					<i></i>
	reserves the right to reject such delayed receip	•	व		ाकता है और इसकी एक प्रति पंजीकृत पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी ' आवेटक के लिए				थानाः मंगोलपु			
	received on or before November 15, 2023, w	outstanding Call Money along with interest thereon is n vill be liable for forfeiture (including the amount alrea er applicable provisions of the Companies Act, 2013 re	ady	दिनांकः 30 / 10 / 2023 स्थानः दिल्ली			द.पु./12447/बाहरी	फान न. (जिला/2023	011-27922186, 2 मो.: 706	65036122		
	with Articles of Association of the Company a October 30, 2021.	and terms of Issue as stated in the Letter of Offer dat	X	पंजीकृत कार्यालय का पताः	다는 그는 것 같아요. 이번 것 같아요. 이번 것 같아요. 한 것 같아요. 이번 것 같아요.	मनोज श्रीवास्तव निदेशक				न्या	यालय आयुक्त, वि बिलासपुर (and the second
		For Natural Capsules Limit So Sunil L Mund	id/-	प्लॉट नंबर 79, पटपडगंज न	इ ।दल्ला, 110092 मारत छाउ	आईएन —00126438						iक/अ-6/2022-23
		Managing Direct					कार्यालयः द फेयर	रवे. भतल एवं प्रथम तल	त. सर्वे नं. 10/1.		वांपा (छ.ग.)	पा, जिला जांजगीर- .ड. चांपा (बिरगहनी)
				📗 जना स्मा	ल फाइनेंस बैंक दि ^{एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक }	ମାमCS 12/2बी, छल्लाघट्टा	, ऑफडोमलूर, कोर इा, बैंगलोर— 56007	रवे, भूतल एवं प्रथम तल मंगला इनर रिंग रोड, ईज 71	जीएल बिजनेस पार्क	235(2)3	भारत पपस ।लामट ल जांजगीर जांजगीर- चांपा	81 .SP2
		<u> </u>		-	निष	नी संधि के माध्यम से	ते बिक्री की सूच	ना		प्रबंधव	विरूद्ध ४, इंवेजिकल ट्रस	र एसोशियन ऑफ
(पू	गईडोएफसी फर्स्ट बैंक लिमिं वं का कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड तथा कैपिटल फर्स्	। ८८ स्र्ट लिमिटेड)	IDFC FIRST Bank		वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभू (सरफेसी अधिनि	तिकरण और पुनर्निर्माण तः 1यम) के तहत बैंक को दी			2	पंजीवृ	इंडिया ज्ल कार्यालय 92/	
पंज	आईएन : L65110TN2014PLC097792 ोकृत कार्यालय : केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, गाष : +91 44 4564 4000 । फैक्स : +91 44 4564 402	, चेटपेत, चेन्नई-600031.		के प्राधिकृत अधिकारी ने संपत्ति	रंड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोह विक्रय के लिए पहले ही कई सार्वजनिक	स्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम के नीलामियां आयोजित की थीं, ले	के तहत अनुसूची संपत्ति नेकिन कोई बोली प्राप्त न	का भौतिक कब्ज़ा ले लिया है। नहीं होने के कारण वे असफल	रहीं। इसलिए कृपया सूचि	सि बक लिमिटेड चेत रहें कि यदि प्रति,	प्लेस, नई दिर्ल्ल ह इंयेजिकल टर्स	ा 110019 ट एसोशियन ऑफ
5	धकृत प्राधिकारी : किशनीत कौर, सम्पर्क नम्बर : 9818130420			माध्यम से बिक्री के लिए आगे	गया राशि का भुगतान इस नोटिस के प्रक बढ़ेगा। चि्त किया जाता है कि बैंक की बकाय			c		गुसार अनुसूची में पंजीवृ	इंडिया इत कार्यालय 92/	/804 दिपाली
	अचल सम्पत्ति	्पाराशण्ट−1v−A यों के विक्रय हेतु विक्रय सूचना (9(1) के प्रावधान के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम	म, 2002 की विनीय	उल्लिखित सुरक्षित संपत्ति निर्ज निजी संधि के माध्यम से संपत्ति	ें संधि के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब की बिक्री के लिए मानक नियम और शते	ध है। ". र्ने इस प्रकार हैं:				नेहरू इस न	प्लेस, नई दिर्ल्ल यायासय में विचार	ो 110019 गधीन अपील प्रकरण
आ एत	स्ति <mark>यों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के</mark> द्वारा सामान्य रूप से जनता को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) ए	े तहत अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई — <mark>नीलामी विक्रय सृ</mark> रवं जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास	पूचना । 1 गिरवीकृत/प्रभारित नीचे		की "जैसा है जहां है के आधार पर" और के प्रस्ताव को बैंक द्वारा स्वीकार किए जाने			ग 25% जमा करना होगा और	शेष राशि उसके 15 दिनों	ों के भीतर जमा चांपा,	जिला जांजगीर-च	3 ग्राम व तहसील ग्रंपा (छ.ग.) पक्षकार द जांपा (विचयदनी)
वर्षि ज्वै	र्गत अचल सम्पत्ति, जिस पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के लरी वर्क्स (कर्जदार-सहकर्जदारों) से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि	अधिकृत प्राधिकारी ने भौतिक कब्जा किया है, धर्मेन्द्र घोष पियाली घोष मिटेड (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड) के खाता सं. 15960940 में 1	ष, धर्मेन्द्र घोष वाया घोष 17.01.2021 तक बकाये	3. क्रेता को आवेदन के साथ प्र 4. उपरोक्त खंड (2) के तहत :	स्तावित राशि का 10% जमा करना होगा गवश्यक राशि का भुगतान करने में विफल	ता पर आवेदन के साथ भुगतान	न की गई राशि का 10%	6 सहित पहले से भुगतान की ग	जाएगा। गई राशि जब्त कर ली ज	तहसी	লি আঁজনীৰ জি	ड, चांपा (बिरगहनी) ला जांजगीर- चांपा ६, इंबेजिकल ट्रस्ट
		जैसे है'', ''जो है यहीं है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधा नीलामी की स्थिति	ार पर बिक्री की जायेगी।	6. क्रेता को अपनी संतुष्टि के	स्वीकार न करने को स्थिति में, आवेदन व लिए संपत्ति (निजी संधि के माध्यम से विरुद्ध कोई दावा करने का हकदार नहीं	बिक्री के तहत) से संबंधित सभी			स संबंध में बाद की तारी	रीख में प्राधिकृत एसोरि	शेयन ऑफ नाथ लय 92/804 दि	र्ग इंडिया पंजीकृत पाली, नेहरू प्लेस,
	गरक्षित मूल्य ामा धरोहर राशि	रु. 1,722,000/- रु. 1,72,000/-		 त. बैंक बिना कोई कारण बताए 8. एक से अधिक प्रस्तावों के ग 	खरीद के किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार ामले में, बैंक उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार	र करने का अधिकार सुरक्षित रख करेगा।		λγ.		नई वि अधिव	ल्ली 110019 जो हारी (रा०) चांपा	न्यायालय अनुविभागीय के अपील प्रकरण
	विदा/धरोहर राशि जमा करने की तिथि ाम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि	29.11.2023 को 5.00 बजे अप. तक 23.11.2023 को 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप.		10. क्रेता को संपत्ति की खरीद	ग∕स्पष्टीकरण और अपना आवेदन जमा के संबंध में सभी स्टांप शुल्क, पंजीकरण नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी।					2020)-21 में पारित	13000047/अ-6/ त आदेश दिनांक रूद्ध प्रस्तुत है, में
F	ोलामी की तिथि ाम्पत्ति का विवरण	30.11.2023 को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. रिहायशी फ्लैट नंबर यूजी-4, बिना छत के अधिकार अपर ग्राउंड	ंड फ्लोर, बैंक साइड	 म. विक्री संस्थता आयापप/ क. ऋण खाता संख्या 	उधारकर्ता/सह-	अनुसूची सरफंसी अधिनियम के तहत		प्रतिभूति संपत्ति /	/अचल संपत्तियों का विवर	आपक रण गया है	गे उत्तरवादी के रू है। उपरोक्त अपील	प में पक्षकार बनाया न प्रकरण में सुनवाई
		(एम.आई.जी.) का समस्त भाग, कवर्ड एरिया 600 वर्ग फीट या डी.एल.एफ कॉलोनी, अंकुर विहार, ग्राम लोनी, परगना लोनी, तहसील	१ एवं जिला गाजियाबाद	सं.	उधारकर्ता का नाम	13(2) डिमांड नोटिस के अनुसार राशि	मूल्य	-		अतः उ	उपरोक्त अपील प्रक	1/2023 नियत्त है। ज्रण में नियत सुनवाई हो सुबह 11.00 बजे
		में स्थित, बिक्री विलेख के अनुसार सीमाएं : पूर्व : प्लॉट नं. एमएम नं. एमएम-38, उत्तर : प्लॉट नं. बी-2/16, दक्षिण: 18 मीटर चौड़ी र		1. 30218850002779	1) मैसर्स अलवी बस सेवा (उधारकर्ता),2) श्री मोहम्मद आरिफ (उधारकर्ता), 3) श्रीमती रिहाना बेगम	30.04.2019 तक रु.7,07,461 / —(सात लाख	। (आठ लाख रुपये	प्रतिभूति संपत्तियों का विवरणः स् ग्राम बेहटा हाजीपुर, लोनी, गा ब्लॉक ई ⁄ 1, माप 60 वर्ग गज	ाजियाबाद, यूपी में स्थित	ेप्लॉट नं. 6/1, आप	स्वंय उपस्थित ह	होकर अथवा अपने हो अपना पक्ष प्रस्तुत
	नग के लिएनन पिएए एवं आर्थें के लिए नगरा आईनीएएसी एस	र्त जेंद्र की नेतापटर https://idfoGrathank.oustiontiger	not/EDDOC केलें।		(उपारप्रता), 3) आनता रिठाना बनम (गारंटर),4)श्रीमती अकबरी, पत्नी मतीम मोहम्मद (गारंटर)	सात हजार चार सौ इकसठ रुपये मात्र)	с — тту — т	पूर्वः अन्य संपत्ति, पश्चिमः 20 फी प्लॉट नं. 6/2,		लॉट नं. 5, दक्षिणः करे । सुनवा	ई तिथि में अनुपरि	प्रकरण में उपरोक्त थेत रहने पर आपके
4		र्स्ट बैंक की वेबसाइट https://idfcfirstbank.auctiontiger.i				1				12052	एकपक्षीय कार्यवा रिकरण किया ज	
अ		पत्ति की बिक्री के लिए निर्गत की गयी है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंव ी का कोई अधिकार नहीं है।			र्ज्ता का ध्यान सरफेसी अधिनियम की धार			जिसमें प्रतिभूति संपत्तियों की	बिक्री से पहले बैंक द्वार	का नि		23 को मेरे डरनामन
अ स स्थ	म्पत्ति पर उपस्थित किसी चल आस्तियों, यदि कोई हो, की बिक्री गन ः गाजियाबाद	गे का कोई अधिकार नहीं है। आईडीएफसी	प्राधिकृत अधिकारी फर्स्ट बैंक लिमिटेड	लागतों, शुल्कों और खर्चों के स पत्राचार का पताः श्री राकेश श	र्ज्ता का ध्यान सरफेसी अधिनियम की धार 1थ उपरोक्त बकाया राशि जमा करके ऊपर र्ग, मो. नं.7230070463, ईमेलः rakesh.sha	र उल्लिखित प्रतिभूति संपत्तियों क	को भुनाया जाता है।			रा किए गए सभी का नि आज	दिनांक 18/10/20 प्रायालय की मुद्रा र)23 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया। आयुक्त
अ स स्थ	म्पत्ति पर उपस्थित किसी चल आस्तियों, यदि कोई हो, की बिक्री	गे का कोई अधिकार नहीं है। आईडीएफसी	प्राधिकृत अधिकारी	लागतों, शुल्कों और खर्ची के स	ाथ उपरोक्त बकाया राशि जमा करके ऊपर र्गा, मो. नं.7230070463, ईमेलः rakesh.sha	र उल्लिखित प्रतिभूति संपत्तियों क	को भुनाया जाता है।		डब्ल्यू .ई.ए, आर्य समाज र	रा किए गए सभी का नि आज रोड, करोल बाग, एवं न्ट	दिनांक 18/10/20 पायालय की मुद्रा वि	से जारी किया गया।
अ स स्थ ति	म्पत्ति पर उपस्थित किसी चल आस्तियों, यदि कोई हो, की बिक्री गन : गाजियाबाद थि : 30.10.2023	ी का कोई अधिकार नहीं है। आईडीएफसी (पूर्व का कैपि	प्राधिकृत अधिकारी फर्स्ट बैंक लिमिटेड पटल फर्स्ट लिमिटेड)	लागतों, शुल्कों और खर्चों के स पत्राचार का पताः श्री राकेश श दिल्ली–110005, दिनांकः 31.10.2023, स्थानः गा	थ उपरोक्त बकाया राशि जमा करके ऊपर र्ग, मो. नं.7230070463, ईमेलः rakesh.sha जेयाबाद	र उल्लिखित प्रतिभूति संपत्तियों क rma02@janabank.com, जना स जिल शस्त्रा, गा	को भुनाया जाता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमि ाजियाबाद,	मेटेड, 16 / 12, दूसरी मंजिल, उ हस्ता / — प्राधिकृत अधिकार	डब्ल्यू .ई.ए, आर्य समाज र रो, कृते जना स्मॉल फाइने	रा किए गए सभी का नि आज रोड, करोल बाग, एवं न्ट	दिनांक 18/10/20 वायालय की मुद्रा वि वि	से जारी किया गया। आयुक्त बेलासपुर संभाग लासपुर (छ.ग.)
अ स स्थ ति	यत्ति पर उपस्थित किसी चल आस्तियों, यदि कोई हो, की बिक्री तन : गाजियाबाद थि : 30.10.2023	ी का कोई अधिकार नहीं है। आईडीएफसी (पूर्व का कैपि रोसे का प्रतीक	प्राधिकृत अधिकारी फर्स्ट बैंक लिमिटेड पटल फर्स्ट लिमिटेड)	लागतों, शुल्कों और खर्चों के स पत्राचार का पताः श्री राकेश श दिल्ली–110005,	थ उपरोक्त बकाया राशि जमा करके ऊपर र्गा, मो. नं.7230070463, ईमेलः rakesh.sha जेयाबाद मण्ड मण्ड केजे—13,	र उल्लिखित प्रतिभूति संपत्तियों क rma02@janabank.com, जना स	को भुनाया जाता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमि ाजियाबाद, पाबाद – 201	मेटेड, 16 / 12, दूसरी मंजिल, उ हस्ता / – प्राधिकृत अधिकार्स , 001,	डब्ल्यू .ई.ए, आर्य समाज र रो, कृते जना स्मॉल फाइने	रा किए गए सभी जाज रोड, करोल बाग, नेस बेक लिमिटेड	दिनांक 18/10/20 वायालय की मुद्रा वि वि को ईर्ज	से जारी किया गया। आयुक्त बेलासपुर संभाग लासपुर (छ.ग.)
अ सः रि	मति पर उपस्थित किसी चल आस्तियों, यदि कोई हो, की बिक्री ान : गाजियाबाद थि : 30.10.2023 जिन्नाल लेशिलल प्रतिभूति	ी का कोई अधिकार नहीं है। आईडीएफसी (पूर्व का कैपि	प्राधिकृत अधिकारी फर्स्ट बैंक लिमिटेड प्रेटल फर्स्ट लिमिटेड) nbnatio the name you क के साथ पठित वित्तीय	लागतों, शुल्कों और खर्चों के स पत्राचार का पताः श्री राकेश श दिल्ली–110005, दिनांकः 31.10.2023, स्थानः गा nalbank u can BANK upon य आस्तियों का प्रतिभूतिका	थ उपरोक्त बकाया राशि जमा करके ऊपर र्ग, मो. नं.7230070463, ईमेलः rakesh.sha जेयाबाद मण्ड केजे—13, मो. : 99717 ण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हि	र उल्लिखित प्रतिभूति संपत्तियों क rma02@janabank.com, जना र कविनगर, गाजिय 720088, ई—मेलः त का प्रवर्तन अधिनियम, अ	को भुनाया जाता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमि गजियाबाद, पाबाद — 2011 cs8228@pnt 2002 के अधीन अप	मेटेड, 16/12, दूसरी मंजिल, उ हस्ता/– प्राधिकृत अधिकार , 001, b.co.in चल सम्पत्तियों के विक्रय	डब्ल्यू .ई.ए, आर्य समाज र रो, कृते जना स्मॉल फाइने अचल्ज हेतु ई—नीलामी विक्र	रा किए गए सभी रोड, करोल बाग, नेस बंक लिमिटेड स्मम्पत्तियों व हेतु विक्री कय नोटिस,	विनांक 18/10/20 वायालय की मुद्रा बि की ई-र्न सूचना	से जारी किया गया। आयुक्त बेलासपुर संभाग लासपुर (छ.ग.)
अ स स्थ ति	मति पर उपस्थित किसी चल आस्तियों, यदि कोई हो, की बिक्री ान : गाजियाबाद थि : 30.10.2023 जिन्नाल लेशिलल प्रतिभूति	ते का कोई अधिकार नहीं है। आईडीएफसी (पूर्व का कैपि) (पूर्व का कैपि)))))))))))))))))))	प्राधिकृत अधिकारी फर्स्ट बैंक लिमिटेड पटल फर्स्ट लिमिटेड) about the name you the name you के के साथ पठित वित्तीय गतिमूत लेनदार के पास बंधव	लागतों, शुल्कों और खर्चों के स पत्राचार का पताः श्री राकेश श दिल्ली–110005, दिनांकः 31.10.2023, स्थानः गाा oncloan u can BANK upon u can BANK upon u anस्तियों का प्रतिभूतिकर क/प्रभारित है, का साकंतिक/ प्रत्याभूत परि	थ उपरोक्त बकाया राशि जमा करके ऊपर र्ग, मो. नं.7230070463, ईमेलः rakesh.sha जेयाबाद मण्ड केजे—13, मो. : 99717 ण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हि वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्र रसम्पत्तियों की बिक्री की अनुस्	र उल्लिखित प्रतिभूति संपत्तियों क rma02@janabank.com, जना र कविनगर, गाजिय 720088, ई—मेलः त का प्रवर्तन अधिनियम, अ वतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल	को भुनाया जाता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमि गजियाबाद, पाबाद — 2011 cs8228@pnt 2002 के अधीन अप	मेटेड, 16/12, दूसरी मंजिल, उ हस्ता/– प्राधिकृत अधिकार , 001, b.co.in चल सम्पत्तियों के विक्रय	डब्ल्यू .ई.ए, आर्य समाज र रो, कृते जना स्मॉल फाइने अचल्ज हेतु ई—नीलामी विक्र	रा किए गए सभी रोड, करोल बाग, नेस बंक लिमिटेड स्मम्पत्तियों व हेतु विक्री कय नोटिस,	विनांक 18/10/20 वायालय की मुद्रा बि की ई-र्न सूचना	से जारी किया गया। आयुक्त बेलासपुर संभाग लासपुर (छ.ग.)
अ स स्थ ति	सति पर उपस्थित किसी चल आस्तियों, यदि कोई हो, की बिक्री In : गाजियाबाद थि : 30.10.2023	ते का कोई अधिकार नहीं है। आईडीएफसी (पूर्व का कैपि) से का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुव ह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्र ा विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार का नाम	प्राधिकृत अधिकारी फर्स्ट बैंक लिमिटेड प्रेटल फर्स्ट लिमिटेड) The name you क के साथ पठित वित्तीय रतिमूत लेनदार के पास बंधव (E) सरफासी अधि अंतर्गत	लागतों, शुल्कों और खर्चों के स पत्राचार का पताः श्री राकेश श दिल्ली–110005, दिनांकः 31.10.2023, स्थानः गाां ACC का BANK upon u can BANK upon u can BANK upon a आस्तियों का प्रतिभूतिकर क / प्रभारित है, का सांकेतिक / प्रत्याभूत परि नियम 2002 की धारा 13(2) क मांग सूचना की तिथि	थ उपरोक्त बकाया राशि जमा करके ऊपर र्ग, मो. नं.7230070463, ईमेलः rakesh.sha जेयाबाद मे मे. नं.99717 मो. : 99717 ण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हि वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्र रेसम्पत्तियों की बिक्री की अनुस्	र उल्लिखित प्रतिभूति संपत्तियों क rma02@janabank.com, जना स कविनगर, गाजिय 720088, ई—मेलः दित का प्रवर्तन अधिनियम, अ विभूत लेनदार पंजाब नेशनल पूर्वी अचल सम	को भुनाया जाता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमि गिजियाबाद, पाबाद — 2010 cs8228@pnt 2002 के अधीन अप वैंक के प्राधिकृत अधिव म्यत्तियों का विवरप	मेटेड, 16 / 12, दूसरी मंजिल, र हस्ता / – प्राधिकृत अधिकार , 001, b.co.in चल सम्पत्तियों के विक्रय कारी द्वारा लिया गया है, को ' ण –	डब्ल्यू .ई.ए, आर्य समाज र रो, कृते जना स्मॉल फाइने अचल्ज हेतु ई—नीलामी विक्र	रा किए गए सभी रोड, करोल बाग, नेस बेक लिमिटेड सिर्म्यत्तियों व हेतु विक्री कय नोटिस, जो कुछ भी हैं' के आधार प	विनांक 18/10/20 वायालय की मुद्रा बि की ई-र्न सूचना	से जारी किया गया। आयुक्त बेलासपुर संभाग लासपुर (छ.ग.) गेल्गामी काया राशि की वस्त्ली, प्रतिभूति लेनदार
अ स स्थ ति	सति पर उपस्थित किसी चल आस्तियों, यदि कोई हो, की बिक्री तान : गाजियाबाद थि : 30.10.2023	ते का कोई अधिकार नहीं है। आईडीएफसी (पूर्व का कैपि) हिंदा (पूर्व का फैपि) (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) हिंदा (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुव ह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्र ा विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार का नाम का नाम	प्राधिकृत अधिकारी फर्स्ट बैंक लिमिटेड प्रेटल फर्स्ट लिमिटेड) क के साथ पठित वित्ती ग्रेतिमूत लेनदार के पास बंधव (E) सरफासी अधि अंतर्गत (F) सरफासी अधिनियम 2002 (G) मांग सूच-	लागतों, शुल्कों और खर्चों के स पत्राचार का पताः श्री राकेश श दिल्ली–110005, दिनांकः 31.10.2023, स्थानः गा ACAL BANK upon य आस्तियों का प्रतिभूतिकर क / प्रभारित है, का सांकेतिक / प्रत्याभूत परि नियम 2002 की धारा 13(2) क मांग सूचना की तिथि 2 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा क ना के अनुसार बकाया राशि	थ उपरोक्त बकाया राशि जमा करके ऊपर र्ग, मो. नं.7230070463, ईमेलः rakesh.sha जेयाबाद मण्ड केजे—13, मो. : 99717 ण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हि वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्र रेसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसू है	र उल्लिखित प्रतिभूति संपत्तियों क rma02@janabank.com, जना स कविनगर, गाजिय 720088, ई—मेलः त का प्रवर्तन अधिनियम, प्र गतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल पूर्वी	को भुनाया जाता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमि गिजियाबाद, पाबाद — 2010 cs8228@pnt 2002 के अधीन अप वैंक के प्राधिकृत अधिव म्यत्तियों का विवरप	मेटेड, 16 / 12, दूसरी मंजिल, र हस्ता / – प्राधिकृत अधिकार , 001, b.co.in चल सम्पत्तियों के विक्रय कारी द्वारा लिया गया है, को ' ण –	डब्ल्यू .ई.ए, आर्य समाज र रो, कृते जना स्मॉल फाइने अचल्ज हेतु ई—नीलामी विक्र	रा किए गए सभी रोड, करोल बाग, नेस बेक लिमिटेड सिरम्पत्तियों क हेतु विक्री कय नोटिस, जो कुछ भी हैं'' के आधार प (A) आरक्षित मूल्य (B) ईएमडी	दिनांक 18/10/20 वायालय की मुद्रा वि दिन्ने ईर्ज सूचना र वेचा जाएगा। वय नीलामी की तिथि एवं	से जारी किया गया। आयुक्त बेलासपुर संभाग लासपुर (छ.ग.) गेल्लामी
अ स स्थ ति	सति पर उपस्थित किसी चल आस्तियों, यदि कोई हो, की बिक्री In : गाजियाबाद थि : 30.10.2023 जित्तादा को ट्वीशव क्रिय के कर्जदार और गारंटर्स को यह प्रतिभूति तनता को और विशेष क्रप से कर्जदार और गारंटर्स को यह Iर(रों) और गारंटर(रों). आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का शारखा खाते कर्जदार / गारंटर्स र	ते का कोई अधिकार नहीं है। आईडीएफसी (पूर्व का कैपि) से का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुव ह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्र ा विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार का नाम	प्राधिकृत अधिकारी फर्स्ट बैंक लिमिटेड प्रेटल फर्स्ट लिमिटेड) क के साथ पठित वित्तीय रतिमूत लेनदार के पास बंधव (E) सरफासी अधिनियम 2002 (G) मांग सूच- (H) कब्जा की स्थिति	लागतों, शुल्कों और खर्चों के स पत्राचार का पताः श्री राकेश श दिल्ली–110005, दिनांकः 31.10.2023, स्थानः गाां ACCAN BANK upon u can bank upon u	थ उपरोक्त बकाया राशि जमा करके ऊपर र्ग, मो. नं.7230070463, ईमेलः rakesh.sha जेयाबाद मण्ड केजे—13, मो. : 99717 ण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हि वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्र रसम्पत्तियों की बिक्री की अनुस् के तिथि मक सम्पत्ति का वह समस्त भा	र उल्लिखित प्रतिभूति संपत्तियों क rma02@janabank.com, जना स कविनगर, गाजिय 720088, ई—मेलः त का प्रवर्तन अधिनियम, ग्रतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल ची अचल सम बंधक / स्वामी के ग एवं अशं जोकि फ्लैट नं. 16	को भुनाया जाता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमि गजियाबाद, पाबाद — 2011 cs8228@pnt 2002 के अधीन अप वैंक के प्राधिकृत अधिव म्यत्तियों का विवरप नाम (सम्पत्तियों व	मेटेड, 16 / 12, दूसरी मंजिल, उ हस्ता / – प्राधिकृत अधिकार , 001, b.co.in चल सम्पत्तियों के विक्रय कारी द्वारा लिया गया है, को ' ण – के बंधककर्ता) 5, खसरा नं. 976, पूर्वा इस्म	डब्ल्यू .ई.ए, आर्य समाज र री, कृते जना स्मॉल फाइने अचल हेतु ई—नीलामी विक्र ''जहाँ है, जैसा है और ज	रा किए गए सभी रोड, करोल बाग, नेस बेक लिमिटेड सिरम्पत्तियों क हेतु विक्री कय नोटिस, जो कुछ भी हैं' के आधार प (A) आरक्षित मूल्य (B) ईएमडी (C) बोली वृद्धि राशि	दिनांक 18/10/20 वायालय की मुद्रा वि दिन्ने ईर्ज सूचना र वेचा जाएगा। वय नीलामी की तिथि एवं	से जारी किया गया। आयुक्त बेलासपुर संभाग लासपुर (छ.ग.) गेट्गामी काया राशि की वसूली, प्रतिभूति लेनदार के संज्ञान में ऋण भारों का विवरण
अ स स्थ ति आम कर्जव कर्जव कर्जव कर्जव कर्जव 1	सति पर उपस्थित किसी चल आस्तियों, यदि कोई हो, की बिक्री In : गाजियाबाद थि : 30.10.2023 जितादा दीशिव की दिशिव दिश्व की कर्जवार और गारंटर्स को यह प्रतिभूति जनता को और विशेष क्रप से कर्जवार और गारंटर्स को यह Iर(रों) और गारंटर(रों). आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का शि(रों) और गारंटर(रों). आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का शाखा खाते कर्जदार / गारंटर्स र लोहा मंग्र	ते का कोई अधिकार नहीं है। आईडीएफसी (पूर्व का कैफि) (पूर्व का कैफि) हेत (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुव ह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्र ा विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार का नाम का नाम खाते का नाम एवं पता	प्राधिकृत अधिकारी फर्स्ट बैंक लिमिटेड प्रेटल फर्स्ट लिमिटेड) क के साथ पठित वित्तीय रतिभूत लेनदार के पास बंधव (E) सरफासी अधिनियम 2002 (G) मांग सूच- (H) कब्जा की स्थिति (लागतों, शुल्कों और खर्चों के स पत्राचार का पताः श्री राकेश श दिल्ली–110005, दिनांकः 31.10.2023, स्थानः गाां ACCAN BANK upon u can bank upon u	थ उपरोक्त बकाया राशि जमा करके ऊपर र्ग, मो. नं.7230070463, ईमेलः rakesh.sha जेयाबाद मण्ड केजे—13, मो. : 99717 ण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हि वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्र रसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसू है जे तिथि मक सम्पत्ति का वह समस्त भाग विला—कैला, परगना—लोनी पुराना प्लॉट नं.—155 पर नि	र उल्लिखित प्रतिभूति संपत्तियों क rma02@janabank.com, जना स कविनगर, गाजिय 720088, ई—मेलः 720088, ई—मेलः 720088, ई—मेलः 720088, ई—मेलः 720088, ई—मेलः 720088, ई—मेलः 720088, ई—मेलः 720088, ई 	को भुनाया जाता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमि गजियाबाद, पाबाद — 2011 cs8228@pnt 2002 के अधीन अप वैंक के प्राधिकृत अधिव मंपत्तियों का विवरप नाम (सम्पत्तियों व 167, मूतल, ओल्ड 156 उत कवर्ड क्षेत्रफल 32.5 क 99.50 वर्ग गज अर्था	मेटेड, 16 / 12, दूसरी मंजिल, र हस्ता / – प्राधिकृत अधिकार , 001, b.co.in चल सम्पत्तियों के विक्रय कारी द्वारा लिया गया है, को ' ण – के बंधककती) 5, खसरा नं. 976, पूर्वा इस्म 0 वर्ग मी., र्ति 83.20 वर्ग मी., यह सम्पत्ति	डब्ल्यू .ई.ए, आर्य समाज र री, कृते जना स्मॉल फाइने अचल हेतु ई—नीलामी विक्र "जहाँ है, जैसा है और ज ताइल खान तुराब नगर 1 प्रमात गुप्ता और पुनम	रा किए गए सभी रोड, करोल बाग, नेस बेक लिमिटेड सरम्पत्तियों व हेतु विद्रती कय नोटिस, जो कुछ भी हैं'' के आधार प (A) आरक्षित मूल्य (B) ईएमडी (C) बोली वृद्धि राशि (B) रू. 1.31 लाख	दिनांक 18/10/20 वायालय की मुद्रा ज वि की ई-र्ज सूटवजा र वेचा जाएगा। वव नीलामी की तिथि एवं समय 17-11-2023 पूर्वाड 11.00 बजे से अर्पाड	से जारी किया गया। आयुक्त बेलासपुर संभाग लासपुर (छ.ग.) गेट्गामी काया राशि की वसूली, प्रतिभूति लेनदार के संज्ञान में ऋण भारों का विवरण
अ स स्थ ति आम कर्जव कर्जव कर्जव कर्जव कर्जव 1	मति पर उपस्थित किसी चल आस्तियों, यदि कोई हो, की बिक्री In : गाजियाबाद थि : 30.10.2023	ते का कोई अधिकार नहीं है। आईडीएफसी (पूर्व का कैपि) कि का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुव ह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्र 1 विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार का नाम का नाम खाते का नाम एवं पता ही 613300 पुराना 155, खसरा नं. 976 पुरवा इस्माइल खान तुरब नगर	प्राधिकृत अधिकारी फर्स्ट बैंक लिमिटेड प्रेटल फर्स्ट लिमिटेड) क के साथ पठित वित्तीय रतिभूत लेनदार के पास बंधव (E) सरफासी अधिनियम 2002 (G) मांग सूच- (H) कब्जा की स्थिति (C) ए. 49,99,595	लागतों, शुल्कों और खर्चों के स पत्राचार का पताः श्री राकेश श दिल्ली–110005, दिनांकः 31.10.2023, स्थानः गा AGDOM Can BANK upon a आस्तियों का प्रतिभूतिक क / प्रभारित है, का सांकेतिक / प्रत्याभूत परि नियम 2002 की धारा 13(2) क मांग सूचना की तिथि 2 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा क ना के अनुसार बकाया राशि 1 सांकेतिक / भौतिक / रचना E) 13.01.2017 9/- + ब्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक	थ उपरोक्त बकाया राशि जमा करके ऊपर र्ग, मो. नं.7230070463, ईमेलः rakesh.sha जयाबाद मण्ड केजे—13, मो. : 99717 ण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हि वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्र रसम्पत्तियों की बिक्री की अनुस् रसम्पत्तियों की बिक्री की अनुस् के तिथि मक सम्पत्ति का वह समस्त भाग विला—कैला, परगना—लोनी पुराना प्लॉट नं.—155 पर नि गुप्ला के नाम पर है। चौहदी कॉरपोरेट सोसाइटी लि. गा	र उल्लिखित प्रतिभूति संपत्तियों क rma02@janabank.com, जना स कविनगर, गाजिय 720088, ई—मेलः 720088, ई—मेलः 720088, ई—मेलः 720088, ई—मेलः 720088, ई—मेलः 720088, ई—मेलः 720088, ई—मेलः 720088, ई—मेलः 720088, ई - मेलः 720088, क 720088, क 720	को भुनाया जाता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमि गजियाबाद, पाबाद — 2019 cs8228@pnt 2002 के अधीन अप वैंक के प्राधिकृत अधिव वैंक के प्राधिकृत अधिव वैंक के प्राधिकृत अधिव विंक, कवर्ड क्षेत्रफल 32.51 उत, कवर्ड क्षेत्रफल 32.51 उत, कवर्ड क्षेत्रफल 32.51 उत, कवर्ड क्षेत्रफल 32.51 उत 99.50 वर्ग गज अर्था उस और नाली खरंजा, 1 का मकान	मेटेड, 16 / 12, दूसरी मंजिल, उ हस्ता / – प्राधिकृत अधिकार , 001, b.co.in चल सम्पत्तियों के विक्रय कारी द्वारा लिया गया है, को ' ण – के बंधककती) 5, खसरा नं. 976, पूर्वा इस्म 0 वर्ग मी., ति 83.20 वर्ग मी., यह सम्पत्ति पश्चिम में – राम चंदर का म	डब्ल्यू .ई.ए, आर्य समाज र री, कृते जना स्मॉल फाइने डेतु ई—नीलामी विक्र "जहाँ है, जैसा है और ज ताइल खान तुराब नगर त प्रमात गुप्ता और पूनम कान, उत्तर में — नेहरू	रा किए गए सभी रोड, करोल बाग, नेस बेक लिमिटेड सरम्पत्तियों व हेतु विद्रती कय नोटिस, जो कुछ भी हैं'' के आधार प (A) आरक्षित मूल्य (B) ईएमडी (C) बोली वृद्धि राशि (B) रू. 1.31 लाख (B) रू. 10,000/-	दिनांक 18/10/20 वायालय की मुद्रा ज वि की ई-र्ज सूटवजाा र वेचा जाएगा। वव नीलामी की तिथि एवं समय 17-11-2023 पूर्वाड 11.00 बजे से अर्पाड 04.00 बजे	से जारी किया गया। आयुक्त बेलासपुर संभाग लासपुर (छ.ग.) गेट्राटनी भया राशि की वस्त्ली, प्रतिभूति लेनदार के संज्ञान में ऋण भारों का विवरण ज्ञात नहीं
अ स स्थ ति आम कर्जव कर्जव कर्जव 1 1	मति पर उपस्थित किसी चल आस्तियों, यदि कोई हो, की बिक्री तान : गाजियाबाद थि : 30.10.2023	गे का कोई अधिकार नहीं है। आईडीएफसी (पूर्व का कैफि) कि का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुव ह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्र 1 विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार का नाम का नाम खाते का नाम एवं पता हि 613300 पुराना 155, खसरा नं. 976 पुरवा इस्माइल खान तुरब नगर ही(613300)	प्राधिकृत अधिकारी फर्स्ट बैंक लिमिटेड प्रेटल फर्स्ट लिमिटेड) ab ad and and and and and and and and and 	लागतों, शुल्कों और खर्चों के स पत्राचार का पताः श्री राकेश श दिल्ली–110005, दिनांकः 31.10.2023, स्थानः गा तिविधिक य आस्तियों का प्रतिभूतिकर क / प्रभारित है, का सांकेतिक / प्रत्याभूत परि नियम 2002 की धारा 13(2) र मांग सूचना की तिथि 2 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा व ना के अनुसार बकाया राशि 1 सांकेतिक / भौतिक / रचना E) 13.01.2017 F) 01.05.2017 9/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.01.2017	थ उपरोक्त बकाया राशि जमा करके ऊपर र्म, मो. नं.7230070463, ईमेलः rakesh.sha जयाबाद मण्ड केजे—13, मो. : 99717 ण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हि वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार). प्र सम्पत्तियों की बिक्री की अनुस् रे ते तिथि सम्पत्ति का वह समस्त भाग दिला—कैला, परगना—लोनी पुराना प्लॉट नं.—155 पर नि गुप्ता के नाम पर है। चौहदी कॉरपोरेट सोसाइटी लि. गा सम्पत्ति का वह समस्त भाग पूर्वा इस्माईल खान, तुराब न	र उल्लिखित प्रतिभूति संपत्तियों क rma02@janabank.com, जना स कविनगर, गाजिय 720088, ई—मेलः त का प्रवर्तन अधिनियम, ग्रतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल ची अचल सम बंधक / स्वामी के ग एवं अशं जोकि फ्लैट नं. १६ गाजियाबाद–2013001 में स्थित मिंत, नया प्लॉट नं. १६७ क्षेत्रफत : पूरब में – सदर दरवाजा हाव	को भुनाया जाता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमि जियाबाद, वाबाद — 2011 cs8228@pnt 2002 के अधीन अप वैंक के प्राधिकृत अधिव वैंक के प्राधिकृत अधिव म्यत्तियों का विवरण नाम (सम्पत्तियों व 167, मूतल, ओल्ड 156 उत कवर्ड क्षेत्रफल 32.5 ज्ल 99.50 वर्ग गज अर्था उस और नाली खरंजा, 1 का मकान 1, तृतीय तल, (बिना छव ात, क्षेत्रफल 41.80 वर्ग य	मेटेड, 16 / 12, दूसरी मंजिल, र हस्ता / – प्राधिकृत अधिकार , 001, b.co.in चल सम्पत्तियों के विक्रय कारी द्वारा लिया गया है, को ' जा – के बंधककती) 5, खसरा नं. 976, पूर्वा इस्म 0 वर्ग मी., र्ति 83.20 वर्ग मी., यह सम्पत्ति पश्चिम में – राम चंदर का म त के अधिकार के) सीधे हाथ व मी., यह सम्पत्ति निर्मला पुत्र ब	डब्ल्यू .ई.ए, आर्य समाज र री, कृते जना स्मॉल फाइने अचल हेतु ई—नीलामी विक्र "जहाँ है, जैसा है और ज "जहाँ है, जैसा है और ज वाइल खान तुराव नगर 1 प्रमात गुप्ता और पूनम कान, उत्तर में — नेहरू की तरफ, प्लॉट नं. 192, 11बू लाल के नाम पर है।	रा किए गए सभी रोड, करोल बाग, नेस बेक लिमिटेड स्टिट्ठ विद्रवी कय नोटिस, जो कुछ भी हैं' के आधार प (A) आरक्षित मूल्य (B) ईएमडी (C) बोली वृद्धि राशि (C) रु. 13.07 लाख (B) रु. 1.31 लाख (C) रु. 10,000/-	दिनांक 18/10/20 वायालय की मुद्रा ज ही डी ईर्ज सूट्यजाा र वेया जाएगा। वय नीलामी की तिथि एवं समय 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अर्पाइ 04.00 बजे	से जारी किया गया। आयुक्त बेलासपुर संभाग लासपुर (छ.ग.) गेट्गामी काया राशि की वसूली, प्रतिभूति लेनदार के संज्ञान में ऋण भारों का विवरण
अ स स्थ ति आम कर्जव कर्जव कर्जव 1 1	मति पर उपस्थित किसी चल आस्तियों, यदि कोई हो, की बिक्री तान : गाजियाबाद थि : 30.10.2023	गे का कोई अधिकार नहीं है। आईडीएफसी (पूर्व का कैपि एर्व का कैपि हेसे का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) हेत (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुव ह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्र 1 विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार का नाम का नाम खाते का नाम एवं पता ही 613300 पुराना 155, खसरा नं. 976 पुरवा इस्माइल खान तुरब नगर	प्राधिकृत अधिकारी फर्स्ट बैंक लिमिटेड प्रेटल फर्स्ट लिमिटेड) ab ad an and you क के साथ पठित वित्तीय रतिभूत लेनदार के पास बंधव (E) सरफासी अधिनियम 2002 (G) मांग सूच- (H) कब्जा की स्थिति (H) कब्जा की स्थिति (G) फ. 49,99,599	लागतों, शुल्कों और खर्चों के स पत्राचार का पताः श्री राकेश श दिल्ली–110005, दिनांकः 31.10.2023, स्थानः गा ACAL BANK upon य आस्तियों का प्रतिभूतिकर क / प्रभारित है, का सांकेतिक / प्रत्याभूत परि नियम 2002 की धारा 13(2) क मांग सूचना की तिथि 2 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा क ना के अनुसार बकाया राशि 1 सांकेतिक / भौतिक / रचना E) 13.01.2017 9/- + ब्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.01.2017	थ उपरोक्त बकाया राशि जमा करके ऊपर र्म, मो. नं.7230070463, ईमेलः rakesh.sha जयाबाद मण्ड केजे—13, मो. : 99717 ण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हि वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार). प्र सम्पत्तियों की बिक्री की अनुस् रे ते तिथि सम्पत्ति का वह समस्त भाग दिला—कैला, परगना—लोनी पुराना प्लॉट नं.—155 पर नि गुप्ता के नाम पर है। चौहदी कॉरपोरेट सोसाइटी लि. गा सम्पत्ति का वह समस्त भाग पूर्वा इस्माईल खान, तुराब न	र उल्लिखित प्रतिभूति संपत्तियों क rma02@janabank.com, जना स कविनगर, गाजिय 720088, ई—मेलः 720088, ई 720088, § 720088, § 720086	को भुनाया जाता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमि जियाबाद, वाबाद — 2011 cs8228@pnt 2002 के अधीन अप वैंक के प्राधिकृत अधिव वैंक के प्राधिकृत अधिव म्यत्तियों का विवरण नाम (सम्पत्तियों व 167, मूतल, ओल्ड 156 उत कवर्ड क्षेत्रफल 32.5 ज्ल 99.50 वर्ग गज अर्था उस और नाली खरंजा, 1 का मकान 1, तृतीय तल, (बिना छव ात, क्षेत्रफल 41.80 वर्ग य	मेटेड, 16 / 12, दूसरी मंजिल, र हस्ता / – प्राधिकृत अधिकार , 001, b.co.in चल सम्पत्तियों के विक्रय कारी द्वारा लिया गया है, को ' जा – के बंधककती) 5, खसरा नं. 976, पूर्वा इस्म 0 वर्ग मी., र्ति 83.20 वर्ग मी., यह सम्पत्ति पश्चिम में – राम चंदर का म त के अधिकार के) सीधे हाथ व मी., यह सम्पत्ति निर्मला पुत्र ब	डब्ल्यू .ई.ए, आर्य समाज र री, कृते जना स्मॉल फाइने अचल हेतु ई—नीलामी विक्र "जहाँ है, जैसा है और ज "जहाँ है, जैसा है और ज वाइल खान तुराव नगर 1 प्रमात गुप्ता और पूनम कान, उत्तर में — नेहरू की तरफ, प्लॉट नं. 192, 11बू लाल के नाम पर है।	रा किए गए सभी रोड, करोल बाग, नेस बेक लिमिटेड स्टिट्ट्रु टिट्ट्रिट्ट् कय नोटिस, जो कुछ भी हैं' के आधार प (A) आरक्षित मूल्य (B) ईएमडी (C) बोली वृद्धि राशि (C) बोली वृद्धि राशि (B) रु. 1.31 लाख (B) रु. 1.31 लाख	दिनांक 18/10/20 वायालय की मुद्रा ज ि वि की ई र्ज सूट्यजाा र येवा जाएगा। वय नीलामी की तिथि एवं समय 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अर्पाइ 04.00 बजे 17-11-2023	से जारी किया गया। आयुक्त बेलासपुर संभाग लासपुर (छ.ग.) गेट्राटनी भया राशि की वस्त्ली, प्रतिभूति लेनदार के संज्ञान में ऋण भारों का विवरण ज्ञात नहीं
अ स स्थ ति आम कर्जव कर कर्जव कर कर्जव कर कर कर्जव कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर	मति पर उपस्थित किसी चल आस्तियों, यदि कोई हो, की बिक्री तन : गाजियाबाद थि : 30.10.2023	गे का कोई अधिकार नहीं है। आईडीएफसी (पूर्व का कैफि) कि का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुव ह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्र 1 विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार का नाम का नाम खाते का नाम एवं पता हि 613300 पुराना 155, खसरा नं. 976 पुरवा इस्माइल खान तुरब नगर ही(613300)	प्राधिकृत अधिकारी फर्स्ट बैंक लिमिटेड प्रेटल फर्स्ट लिमिटेड) AD AGLIO the name you क के साथ पठित वित्तीग रतिमूत लेनदार के पास बंधव (E) सरफासी अधिनियम 2003 (G) मांग सूचन (H) कब्जा की स्थिति () (G) रू. 49,99,599 () (G) रू. 20,49,863	लागतों, शुल्कों और खर्चों के स पत्राचार का पताः श्री राकेश श दिल्ली–110005, दिनांकः 31.10.2023, स्थानः गाां तिव्यक्ति वार्य 10.2023, स्थानः गाां तिविद्यका क्रिक्रिय य आस्तियों का प्रतिभूतिकर क / प्रभारित है, का सांकेतिक / प्रत्याभूत पनि नियम 2002 की धारा 13(2) य मांग सूचना की तिथि 2 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा य ना के अनुसार बकाया राशि 1 सांकेतिक / भौतिक / रचना E) 13.01.2017 9/- + ब्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.01.2017 5/ 22.09.2017	थ उपरोक्त बकाया राशि जमा करके ऊपर र्म, मो. नं.7230070463, ईमेलः rakesh.sha जयाबाद मण्ड केजे—13, मो. : 99717 ण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हि वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्र रसम्पत्तियों की बिक्री की अनुस् रसम्पत्तियों की बिक्री की अनुस् रसम्पत्तियों की बिक्री की अनुस् सम्पत्ति का वह समस्त भाग बिला—कैला, परगना—लोनी पुराना प्लॉट नं.—155 पर नि गुप्ता के नाम पर है। चौहदी कॉरपोरेट सोसाइटी लि. गा सम्पत्ति का वह समस्त भाग पूर्वा इस्माईल खान, तुराब न चौहदी: पूरब में – 12' बौड़ी सम्पत्ति का वह समस्त भाग गज) यह सम्पत्ति सुनील कुम	र उल्लिखित प्रतिभूति संपत्तियों क rma02@janabank.com, जना स कविनगर, गाजिय 720088, ई—मेलः त का प्रवर्तन अधिनियम, यतिभूत लेनदार पंजाव नेशनल द्वी अचल सम बंधक / स्वामी के प्रव अंश जोकि फ्लैट नं. १६ गाजियाबाद–2013001 में स्थित मिंत, नया प्लॉट नं. १६७ क्षेत्रफत पूरब में – सदर दरवाजा हाज जेयाबाद, दक्षिण में – कुडे मल एवं अंश जोकि फ्लैट नं. एफ–1 गर, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित गली, पश्चिम में – ४०' बौडी से एवं अंश जोकि मकान नं. १९३ ब गर के नाम पर है। चौहदी : पूरव	को भुनाया जाता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमि जियाबाद, पाबाद — 2011 cs8228@pnt 2002 के अधीन अप वैंक के प्राधिकृत अधिव वैंक के प्राधिकृत अधिव म्पत्तियों का विवरण नाम (सम्पत्तियों व 167, मूतल, ओल्ड 156 रत, कवर्ड क्षेत्रफल 32.50 रत 99.50 वर्ग गज अर्था उस और नाली खरंजा, 1 का मकान 1, तृतीय तल, (बिना छर त, क्षेत्रफल 41.80 वर्ग म रोड, उत्तर में – 30' चौर बी, तुराब नगर, गाजिय	मेटेड, 16 / 12, दूसरी मंजिल, उ हस्ता / – प्राधिकृत अधिकार , 001, b.co.in चल सम्पत्तियों के विक्रय कारी द्वारा लिया गया है, को ' ण – के बंधककर्ता) 5, खसरा नं. 976, पूर्वा इस्म 0 वर्ग मी., ति 83.20 वर्ग मी., यह सम्पत्ति पश्चिम में – राम चंदर का म त के अधिकार के) सीधे हाथ व मी., यह सम्पत्ति निर्मला पुत्र ब डी रोड, दक्षिण में – ठाकुर दा गबाद, यू.पी. में स्थित, क्षेत्रफल	डब्ल्यू .ई.ए, आर्य समाज र री, कृते जना स्मॉल फाइने डितु ई—नीलामी विक्र "जहाँ है, जैसा है और ज "जहाँ है, जैसा है और ज माइल खान तुराब नगर न प्रमात गुप्ता और पूनम कान, उत्तर में — नेहरू की तरफ, प्लॉट नं, 192, मबू लाल के नाम पर है। स गुलाटी का मकान	रा किए गए सभी रोड, करोल बाग, नेस बेक लिमिटेड स्वस्पत्तियों क हेतु विद्वव्वी कय नोटिस, जो कुछ भी हैं' के आधार प (A) आरक्षित मूल्य (B) ईएमडी (C) बोली वृद्धि राशि (C) बोली वृद्धि राशि (C) बोली वृद्धि राशि (C) रु. 13.07 लाख (B) रु. 1.31 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 12.92 लाख (B) रु. 1.30 लाख (C) रु. 10,000/-	दिनांक 18/10/20 वायालय की मुद्रा ज ही ई ज स्टूटा जा। र येवा जाएगा। वय नीलामी की तिथि एवं समय 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अर्पाइ 04.00 बजे 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अर्पाइ	से जारी किया गया। आयुक्त बेलासपुर संभाग लासपुर (छ.ग.) गेट्राटनी भया राशि की वस्त्ली, प्रतिभूति लेनदार के संज्ञान में ऋण भारों का विवरण ज्ञात नहीं
अ स स्थ ति आम कर्जव कर कर्जव कर कर्जव कर कर कर्जव कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर	पति पर उपस्थित किसी चल आस्तियों, यदि कोई हो, की बिक्री तान : गाजियाबाद थि : 30.10.2023	ते का कोई अधिकार नहीं है। आईडीएफसी (पूर्व का कैपि) हिंदा (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुव ह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पतियां जो प्र ा विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार का नाम का नाम खाते का नाम एवं पता हिंदी 613300 पुराना 155, खसरा नं. 976 पुरवा इस्माइल खान तुरव नगर हेंदी(613300)) निवासी–एफ-277 नंद ग्राम गाजियाबाद यूपी–20101) निवासी–एफ-277, तीसरी मंजिल दाहिनी ओर प्लॉट नंबर हेंदी(613300) रकती) निवासी मकान नं. 193–बी तुराब नगर गाजियाबाद कती), निवासी मकान नं. 193–बी तुराब नगर गाजियाबाद	प्राधिकृत अधिकारी फर्स्ट बैंक लिमिटेड प्रेटल फर्स्ट लिमिटेड) AD AGLIO the name you क के साथ पठित वित्तीय तिमूत लेनदार के पास बंधव (E) सरफासी अधिनियम 2002 (G) मांग सूच- (H) कब्जा की स्थिति (((((((((((((((((((लागतों, शुल्कों और खर्चों के स पत्राचार का पताः श्री राकेश श दिल्ली–110005, दिनांकः 31.10.2023, स्थानः गा Can BANK upon य आस्तियों का प्रतिभूतिकर क / प्रभारित है, का सांकेतिक / प्रत्याभूत परि नियम 2002 की धारा 13(2) क मांग सूचना की तिथि 2 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा क ना के अनुसार बकाया राशि 1 सांकेतिक / भौतिक / रचना E) 13.01.2017 9/- + ब्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.01.2017 3/- + ब्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक	थ उपरोक्त बकाया राशि जमा करके ऊपर र्म, मो. नं.7230070463, ईमेलः rakesh.sha जयाबाद मण्ड केजे—13, मो. : 99717 ण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हि तक्ता(नीचे वर्णित अनुसार). प्र सम्पत्तियों की बिक्री की अनुस् रसम्पत्तियों की बिक्री की अनुस् रसम्पत्तियों की बिक्री की अनुस् सम्पत्ति का वह समस्त भाग बिला—कैला, परगना—लोनी पुराना प्लॉट नं.—155 पर नि गुप्ता के नाम पर है। चौहदी कॉरपोरेट सोसाइटी लि. गा सम्पत्ति का वह समस्त भाग पूर्वा इस्माईल खान, तुराब न चौहदी: पूरब में – 12' चौड़ी सम्पत्ति का वह समस्त भाग गज) यह सम्पत्ति सुनील कुम	र उल्लिखित प्रतिभूति संपत्तियों क rma02@janabank.com, जना स कविनगर, गाजिय 720088, ई—मेलः त का प्रवर्तन अधिनियम, यतिभूत लेनदार पंजाव नेशनल द्वी अचल सम बंधक / स्वामी के प्रव अंश जोकि फ्लैट नं. १६ गाजियाबाद–2013001 में स्थित मिंत, नया प्लॉट नं. १६७ क्षेत्रफत पूरब में – सदर दरवाजा हाज जेयाबाद, दक्षिण में – कुडे मल एवं अंश जोकि फ्लैट नं. एफ–1 गर, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित गली, पश्चिम में – ४०' बौडी से एवं अंश जोकि मकान नं. १९३ ब गर के नाम पर है। चौहदी : पूरव	को भुनाया जाता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमि जियाबाद, पाबाद — 2011 cs8228@pnt 2002 के अधीन अप वैंक के प्राधिकृत अधिव वैंक के प्राधिकृत अधिव म्पत्तियों का विवरण नाम (सम्पत्तियों व 167, मूतल, ओल्ड 156 रत, कवर्ड क्षेत्रफल 32.50 रत 99.50 वर्ग गज अर्था उस और नाली खरंजा, 1 का मकान 1, तृतीय तल, (बिना छर त, क्षेत्रफल 41.80 वर्ग म रोड, उत्तर में – 30' चौर बी, तुराब नगर, गाजिय	मेटेड, 16 / 12, दूसरी मंजिल, उ हस्ता / – प्राधिकृत अधिकार , 001, b.co.in चल सम्पत्तियों के विक्रय कारी द्वारा लिया गया है, को ' ण – के बंधककर्ता) 5, खसरा नं. 976, पूर्वा इस्म 0 वर्ग मी., ति 83.20 वर्ग मी., यह सम्पत्ति पश्चिम में – राम चंदर का म त के अधिकार के) सीधे हाथ व मी., यह सम्पत्ति निर्मला पुत्र ब डी रोड, दक्षिण में – ठाकुर दा गबाद, यू.पी. में स्थित, क्षेत्रफल	डब्ल्यू .ई.ए, आर्य समाज र री, कृते जना स्मॉल फाइने डितु ई—नीलामी विक्र "जहाँ है, जैसा है और ज "जहाँ है, जैसा है और ज माइल खान तुराब नगर न प्रमात गुप्ता और पूनम कान, उत्तर में — नेहरू की तरफ, प्लॉट नं, 192, मबू लाल के नाम पर है। स गुलाटी का मकान	रा किए गए सभी रोड, करोल बाग, नेस बेक लिमिटेड स्वरपत्तियों क हेतु विक्री कय नोटिस, ने कुछ भी हैं' के आधार प (A) आरक्षित मूल्य (B) ईएमडी (C) बोली वृद्धि राशि (C) बोली वृद्धि राशि (C) बोली वृद्धि राशि (C) रु. 13.07 लाख (B) रु. 1.31 लाख (C) रु. 10,000/-	दिनांक 18/10/20 वायालय की मुद्रा ज ही डंगे ई-र्ज सूटवजाा र वेथा जाएगा। वव नीलामी की तिथि एवं समय 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अर्पाइ 04.00 बजे	से जारी किया गया। आयुक्त बेलासपुर संभाग लासपुर (छ.ग.) गेट्राटनी काया राशि की वस्त्ली, प्रतिभूति लेनदार के संज्ञान में ऋण भारों का विवरण ज्ञात नहीं
अ स स्थ ति आम कर्जव कर कर्जव कर कर्जव कर कर कर्जव कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर	पति पर उपस्थित किसी चल आस्तियों, यदि कोई हो, की बिक्री गन : गाजियाबाद थि : 30.10.2023	ते का कोई अधिकार नहीं है। आईडीएफसी (पूर्व का कैपि) हिंदि (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुव ह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्र 1 विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार का नाम का नाम खाते का नाम एवं पता ढीं 613300 पुराना 155, खसरा नं. 976 पुरवा इरमाइल खान तुरब नगर डीं(613300)) निवासी–एफ–277 नंद ग्राम गाजियाबाद यूपी–201001) निवासी–एफ–277, तीसरी मंजिल दाहिनी ओर प्लॉट नंबर डीं(613300) रकती) निवासी मकान नं. 193–बी तुराब नगर गाजियाबाद कती), निवासी मकान नं. 193–बी तुराब नगर गाजियाबाद निवासी–11 बी/161 नेहरू नगर गाजियाबाद, उ.प्र. डो(613300)	प्राधिकृत अधिकारी फर्स्ट बैंक लिमिटेड प्रेटल फर्स्ट लिमिटेड) Solution a b name you क के साथ पठित वित्तीय रतिभूत लेनदार के पास बंधव (E) सरफासी अधिनियम 2003 (G) मांग सूचन् (H) कब्जा की स्थिति (((((((((((((((((((लागतों, शुल्कों और खर्चों के स पत्राचार का पताः श्री राकेश श दिल्ली–110005, दिनांक: 31.10.2023, स्थानः गा तिविधि (क्रांसियों का प्रतिभूतिकप् क / प्रभारित है, का सांकेतिक / प्रत्याभूत परि प्रियम 2002 की धारा 13(2) क मांग सूचना की तिथि 2 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा क ना के अनुसार बकाया राशि 1 सांकेतिक / भौतिक / रचना E) 13.01.2017 F) 01.05.2017 9/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.01.2017 F) 22.09.2017 3/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 18.04.2017 F) 24.04.2023 .41 + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक	थ उपरोक्त बकाया राशि जमा करके ऊपर त, मो. नं.7230070463, ईमेल: rakesh.sha त्रयाबाद मण्ड केजे—13, मो. : 99717 ण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हि तस्तायिक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार). प्र रसम्पत्तियों की बिक्री की अनुस् त्रिथि सम्पत्ति का वह समस्त भाग बिला—कैला, परगना—लोनी पुराना प्लॉट नं.—155 पर नि गुप्ता के नाम पर है। चौहदी कॉरपोरेट सोसाइटी लि. गा सम्पत्ति का वह समस्त भाग पूर्वा इस्माईल खान, तुराब न चौहदी: पूरब में – 12' चौड़ी का मकान, दक्षिण में – मन्दि	र उल्लिखित प्रतिभूति संपत्तियों क rma02@janabank.com, जना स कविनगर, गाजिय 720088, ई—मेलः रित का प्रवर्तन अधिनियम, : ग्रतिभूत लेनदार पंजाव नेशनल दूवी अचल सम बंधक / स्वामी के प्रिं अशं जोकि फ्लैट नं. १६ गाजियाबाद–2013001 में स्थित मिंत, नया प्लॉट नं. १६७ क्षेत्रफल : पूरव में – सदर दरवाजा हाउ जेयाबाद, दक्षिण में – कुडे मल एवं अशं जोकि फ्लैट नं. एफ–1 गर, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित गली, पश्चिम में – 40' चौडी रो एवं अशं जोकि मकान नं. 193 ब तर के नाम पर है। चौहदी : पूरव र	को भुनाया जाता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमि जियाबाद, वाबाद — 2014 cs8228@pnt 2002 के अधीन अप वैंक के प्राधिकृत अधिव वैंक के प्राधिकृत अधिव म्यत्तियों का विवरप नाम (सम्पत्तियों व 167, मूतल, ओल्ड 156 उत, कवर्ड क्षेत्रफल 32.5 रू 99.50 वर्ग गज अर्था उस और नाली खरंजा, 1 का मकान 1, तृतीय तल, (बिना छत् त, क्षेत्रफल 41.80 वर्ग म रोड, उत्तर में – 30' चौर बी, तुराब नगर, गाजिय ख में – अन्य की सम्पत्ति	मेटेड, 16/12, दूसरी मंजिल, र हस्ता/— प्राधिकृत अधिकार , 001, b.co.in चल सम्पत्तियों के विक्रय कारी द्वारा लिया गया है, को ' ण — के बंधककती) 5. खसरा नं. 976, पूर्वा इस्म 0 वर्ग मी., र्ति 83.20 वर्ग मी., यह सम्पत्ति पश्चिम में — राम चंदर का म त के अधिकार के) सीधे हाथ व मी., यह सम्पत्ति निर्मला पुत्र ब ही रोड, दक्षिण में — ठाकुर दा गबाद, यू.पी. में स्थित, क्षेत्रफल ते, पश्चिम में — 20फीट चौड़ी	डब्ल्यू .ई.ए, आर्य समाज र री, कृते जना स्मॉल फाइन डोटाट हेतु ई—नीलामी विक्र "जहाँ है, जैसा है और ज "जहाँ है, जैसा है और ज वाहल खान तुराब नगर त प्रभात गुप्ता और पूनम कान, उत्तर में — नेहरू की तरफ, प्लॉट नं. 192, बबू लाल के नाम पर है। रस गुलाटी का मकान व 43.47 बर्ग मी. (52 वर्ग ो रोड, उत्तर में — सुरेश	रा किए गए सभी रोड, करोल बाग, नेस बेक लिमिटेड सिरम्पतियों क हेतु विक्री स्तम्पतियों क हेतु विक्री कय नोटिस, जो कुछ भी हैं' के आधार प (A) आरक्षित मूल्य (B) ईएमडी (C) बोली वृद्धि राशि (C) बोली वृद्धि राशि (C) रु. 13.07 लाख (B) रु. 1.31 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 12.92 लाख (B) रु. 1.30 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 31.69 लाख (B) रु. 3.17 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 31.69 लाख (C) रु. 10,000/-	दिनांक 18/10/20 वायालय की मुद्रा ज ही ही डी-जी सूदाजाा र वेचा जाएगा। वव नीलामी की तिथि एवं समय 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अर्पाइ 04.00 बजे 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अर्पाइ 04.00 बजे 17-11-2023	से जारी किया गया। आयुक्त बेलासपुर संभाग लासपुर (छ.ग.) गेट्राटनी काया राशि की वस्त्ली, प्रतिभूति लेनदार के संज्ञान में ऋण भारों का विवरण ज्ञात नहीं
अ स स्थ ति आम कर्जव कर कर्जव कर कर्जव कर्व कर्जव कर्जव कर्जव कर्जव कर्जव कर्जव कर्जव कर्व कर्व कर्व कर्व कर्व कर्व कर्व कर्	पति पर उपस्थित किसी चल आस्तियों, यदि कोई हो, की बिक्री गन : गाजियाबाद थि : 30.10.2023	ते का कोई अधिकार नहीं है। आईडीएफसी (पूर्व का कैपि) (पूर्व का कैपि) का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुव ह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्र 1 विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार का नाम का नाम खाते का नाम एवं पता की 613300 पुराना 155, खसरा नं. 976 पुरवा इस्माइल खान तुरब नगर डी(613300)) निवासी–एफ 277 नंद ग्राम गाजियाबाद यूपी–201001) निवासी–एफ 277 नंद ग्राम गाजियाबाद यूपी–201001) निवासी–एफ–277, तीसरी मंजिल दाहिनी ओर प्लॉट नंबर व्ही(613300) रकती) निवासी मकान नं. 193–बी तुराब नगर गाजियाबाद न्वासी– । । बी/161 नेहरू नगर गाजियाबाद, उ.प्र. बी(613300) द एफ 2 तृतीय तल, प्लॉट नं. 192 तुराब नगर पूर्वा इस्माइल	प्राधिकृत अधिकारी फर्स्ट बैंक लिमिटेड प्रेटल फर्स्ट लिमिटेड) Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Solution Sol	लागतों, शुल्कों और खर्चों के स पत्राचार का पताः श्री राकेश श दिल्ली–110005, दिनांक: 31.10.2023, स्थानः गा Can BANK upon य आस्तियों का प्रतिभूतिक क / प्रभारित है, का सांकेतिक / प्रत्याभूत परि नियम 2002 की घारा 13(2) क मांग सूचना की तिथि 2 की घारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा क ना के अनुसार बकाया राशि 1 सांकेतिक / भौतिक / रचना E) 13.01.2017 F) 01.05.2017 9/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.01.2017 F) 22.09.2017 3/- + ब्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 18.04.2017 F) 24.04.2023 .41 + ब्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक	थ उपरोक्त बकाया राशि जमा करके ऊपर त, मो. नं.7230070463, ईमेल: rakesh.sha जयाबाद मण्ड केजे—13, मो. : 99717 ण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हि तस्तायिक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्र सम्पत्तियों की बिक्री की अनुस् रसम्पत्तियों की बिक्री की अनुस् के तिथि सम्पत्ति का वह समस्त भाग विला—कैला, परगना—लोनी पुराना प्लॉट नं.—155 पर नि गुप्ता के नाम पर है। चौहदी कॉरपोरेट सोसाइटी लि. गा सम्पत्ति का वह समस्त भाग पूर्वा इस्माईल खान, तुराब न चौहदी: पूरब में – 12' चौड़ी सम्पत्ति का वह समस्त भाग जज मकान, दक्षिण में – मन्दि	र उल्लिखित प्रतिभूति संपत्तियों क rma02@janabank.com, जना स कविनगर, गाजिय 720088, ई—मेलः रत का प्रवर्तन अधिनियम, अ विभूत लेनदार पंजाव नेशनल द्वी अचल सम बंधक / स्वामी के प्रव अंशं जोकि फ्लैट नं. १६ गाजियाबाद–2013001 में स्थित मित, नया प्लॉट नं. १६७ क्षेत्रफव प्रव में – सदर दरवाजा हाख जेयाबाद, दक्षिण में – कुडे मल एवं अंशं जोकि फ्लैट नं. एफ–1 गर, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित गली, पश्चिम में – ४०' चौडी से एवं अंशं जोकि मकान नं. १९३ ब गर के नाम पर है। चौहदी : पूरव र	को भुनाया जाता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमि जियाबाद, प्राबाद — 2011 cs8228@pnt 2002 के अधीन अभ वैंक के प्राधिकृत अधिन के के प्राधिकृत अधिन म्पत्तियों का विवरण नाम (सम्पत्तियों व 167, मूतल, ओल्ड 158 रत, कवर्ड क्षेत्रफल 32.50 रत 99.50 वर्ग गज अर्था उस और नाली खरंजा, 1 का मकान 1, तृतीय तल, (बिना छर त, क्षेत्रफल 41.80 वर्ग य रोड, उत्तर में – 30' चौर बी, तुराब नगर, गाजिय रब में – अन्य की सम्पत्ति या मी, यह सम्पत्ति स	मेटेड, 16 / 12, दूसरी मंजिल, उ हस्ता / — प्राधिकृत अधिकार्स , 001, b.co.in चल सम्पत्तियों के विक्रय कारी द्वारा लिया गया है, को ' ण — के बंधककर्ता) 6, खसरा नं. 976, पूर्वा इस्म 0 वर्ग मी., ति 83.20 वर्ग मी., यह सम्पत्ति पश्चिम में — राम चंदर का म त के अधिकार के) सीधे हाथ व मी., यह सम्पत्ति निर्मला पुत्र ब डी रोड, दक्षिण में — ठाकुर दा गबाद, यू.पी. में स्थित, क्षेत्रफल ते, पश्चिम में — 20फीट चौड़ी	डब्ल्यू .ई.ए, आर्य समाज र री, कृते जना स्मॉल फाइने डिव्रु ई – नीलामी विक्र "जहाँ है, जैसा है और ज महल खान तुराव नगर त प्रमात गुप्ता और पूनम कान, उत्तर में – नेहरू की तरफ, प्लॉट नं. 192, मबू लाल के नाम पर है। स गुलाटी का मकान व 43.47 वर्ग मी. (52 वर्ग ो रोड, उत्तर में – सुरेश इंल खान, बिना छत के अग्रवाल के नाम पर है।	रा किए गए सभी रोड, करोल बाग, नेस बेक लिमिटेड सरम्पत्तियों क हेतु विक्री सरम्पत्तियों क हेतु विक्री कय नोटिस, जो कुछ भी हैं' के आधार प (A) आरक्षित मूल्य (B) ईएमडी (C) बोली वृद्धि राशि (C) बोली वृद्धि राशि (C) रु. 10,000/- (A) रु. 13.07 लाख (B) रु. 1.31 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 12.92 लाख (B) रु. 1.30 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 31.69 लाख (B) रु. 3.17 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 15.30 लाख (B) रु. 1.53 लाख	दिनांक 18/10/20 वायालय की मुद्रा ज वि की ईज सूदाजाा र वेचा जाएगा 1 वय नीलामी की तिथि एवं समय 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अर्पाइ 04.00 बजे 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अर्पाइ 04.00 बजे 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अर्पाइ 04.00 बजे	से जारी किया गया। आयुक्त बेलासपुर संभाग लासपुर (छ.ग.) ोटाटाटी काया राशि की वस्त्ली. प्रतिभूति लेनदार के संज्ञान में ऋण भारों का विवरण ज्ञात नहीं ज्ञात नहीं
अ स स्थ ति आम कर्जव कर कर्जव कर कर्जव कर्जव कर्जव कर्जव कर्जव कर्जव कर्जव कर्जव कर्जव कर्जव कर्जव कर्जव कर्जव कर्जव कर्जव कर्जव कर्जव कर्जव कर्जव कर्जि कर्जव कर्जव कर्जव कर्जव कर्ज कर्जव कर्व कर्व कर्व कर्व कर्व कर्व कर्व कर्	मति पर उपस्थित किसी चल आस्तियों, यदि कोई हो, की बिक्री गन : गाजियाबाद थि : 30.10.2023	ते का कोई अधिकार नहीं है। आईडीएफसी (पूर्व का कैपि) (पूर्व का कैपि) का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुव ह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्र 1 विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार का नाम का नाम खाते का नाम एवं पता की 613300 पुराना 155, खसरा नं. 976 पुरवा इस्माइल खान तुरब नगर डी(613300)) निवासी–एफ 277 नंद ग्राम गाजियाबाद यूपी–201001) निवासी–एफ 277 नंद ग्राम गाजियाबाद यूपी–201001) निवासी–एफ–277, तीसरी मंजिल दाहिनी ओर प्लॉट नंबर व्ही(613300) रकती) निवासी मकान नं. 193–बी तुराब नगर गाजियाबाद न्वासी– । । बी/161 नेहरू नगर गाजियाबाद, उ.प्र. बी(613300) द एफ 2 तृतीय तल, प्लॉट नं. 192 तुराब नगर पूर्वा इस्माइल	प्राधिकृत अधिकारी फर्स्ट बैंक लिमिटेड प्रटल फर्स्ट लिमिटेड) Solution a b fill पित वित्ती रतिभूत लेनदार के पास बंधव (E) सरफासी अधिनियम 2003 (B) मांग सूचन (H) कब्जा की स्थिति (() (G) रु. 49,99,599 (() (G) रु. 20,49,863 (() (G) रु. 5920268. (() (G) रु. 5920268.	लागतों, शुल्कों और खर्चों के स पत्राचार का पताः श्री राकेश श दिल्ली–110005, दिनांक: 31.10.2023, स्थान: गा तिविधि (क्रियों का प्रतिभूतिक क / प्रभारित है, का सांकेतिक / प्रत्याभूत परि मियम 2002 की धारा 13(2) क मांग सूचना की तिथि 2 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा क ना के अनुसार बकाया राशि 1 सांकेतिक / भौतिक / रचना () 13.01.2017 () 13.01.2017 () + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 13.01.2017 5) 22.09.2017 3/- + ब्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 18.04.2017 (F) 24.04.2023 .41 + ब्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक	थ उपरोक्त बकाया राशि जमा करके ऊपर र्म, मो. नं.7230070463, ईमेलः rakesh.sha जेयाबाद मिण्ड केजे—13, मो. : 99717 ण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हि वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार). प्र रसम्पत्तियों की बिक्री की अनुस् रसम्पत्ति का बह समस्त भाग बिला—कैला, परगना—लोनी पुराना प्लॉट नं.—155 पर नि गुप्ता के नाम पर है। चौहदी कॉरपोरेट सोसाइटी लि. गा सम्पत्ति का बह समस्त भाग पूर्वा इरमाईल खान, तुराब न चौहदी : पूरब में – 12' चौड़ी सम्पत्ति का बह समस्त भाग जा) यह सम्पत्ति सुनील कुम् का मकान, दक्षिण में – मन्दि सम्पत्ति का बह समस्त भाग यौहदी : पूरब में – 12 चौड़ी	र उल्लिखित प्रतिभूति संपत्तियों क rma02@janabank.com, जना स कविनगर, गाजिय 720088, ई—मेलः त का प्रवर्तन अधिनियम, अ विभूत लेनदार पंजाव नेशनल द्वी अचल सम बंधक / स्वामी के विंत, नया प्लॉट नं. 167 क्षेत्रफत मेति, नया प्लॉट नं. 167 क्षेत्रफत प्रव में – सदर दरवाजा हाज जेयाबाद, दक्षिण में – कुडे मल एवं अशं जोकि फलैट नं. एफ–1 गर, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित गली, पश्चिम में – 40' चौडी से एवं अशं जोकि मकान नं. 193 ब ार के नाम पर है। चौहदी : पूरव र र	को भुनाया जाता है। स्मॉल फाइनेंस बेंक लिमि जियाबाद, विजियाबाद, वाबाद — 2011 cs8228@pnt 2002 के अधीन अप वैंक के प्राधिकृत अधिव वैंक के प्राधिकृत अधिव म्यत्तियों का विवरण् नाम (सम्पत्तियों व 167, मूतल, ओल्ड 158 रत, कवर्ड क्षेत्रफल 32.51 रत, कवर्ड क्षेत्रफल 32.51 र का मकान 1, तृतीय तल, (बिना छल् त, क्षेत्रफल 41.80 वर्ग य रोड, उत्तर में – 30' वींर बी, तुराब नगर, गाजिय रव में – आन्य की सम्पत्ति स ाड, उत्तर में – 30 चीडी	मेटेड, 16 / 12, दूसरी मंजिल, र हस्ता / – प्राधिकृत अधिकार्य , 001, b.co.in चल सम्पत्तियों के विक्रय कारी द्वारा लिया गया है, को ' ण – के बंधककती) 5, खसरा नं. 976, पूर्वा इस्म 0 वर्ग मी., र्ति 83.20 वर्ग मी., यह सम्पत्ति पश्चिम में – राम चंदर का म त के अधिकार के) सीधे हाथ व मी., यह सम्पत्ति निर्मला पुत्र ब ही रोड, दक्षिण में – ठाकुर दा गबाद, यू.पी. में स्थित, क्षेत्रफल ते, पश्चिम में – 20फीट चौड़ी 192, तुराब नगर, पूर्वा इस्माः सरबती अग्रवाल और राहुल अ रोड, दक्षिण में – ठाकुर दास	डब्ल्यू .ई.ए, आर्य समाज र री, कृते जना स्मॉल फाइने डोटाटा डेतु ई—नीलामी विक्र "जहाँ है, जैसा है और ज "जहाँ है, जैसा है और ज वाइल खान तुराव नगर न प्रमात गुप्ता और पूनम कान, उत्तर में — नेहरू की तरफ, प्लॉट नं. 192, ाबू लाल के नाम पर है । रि गुलाटी का मकान व 43.47 वर्ग मी. (52 वर्ग ते रोड, उत्तर में — सुरेश इं अग्रवाल के नाम पर है । रा गुलाटी का मकान	रा किए गए सभी रोड, करोल बाग, नेस बेक लिमिटेड स्तरपत्ति यो ल टेतु टित्र्री टेतु टित्र्री टेतु टित्र्री टेतु टित्र्री टेतु टित्र्री टेतु टित्र्री टेतु टित्र्री टेतु टित्र्री टेत्र टिस्डी (C) बोली वृद्धि राशि (C) बोली वृद्धि राशि (C) क. 13.07 लाख (B) रु. 1.31 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 12.92 लाख (B) रु. 1.30 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 31.69 लाख (B) रु. 3.17 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 15.30 लाख (B) रु. 1.53 लाख (C) रु. 10,000/-	दिनांक 18/10/20 वायालय की मुद्रा ज ही ही डी-जी सूदाजाा र वेचा जाएगा। वव नीलामी की तिथि एवं समय 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अर्पाइ 04.00 बजे 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अर्पाइ 04.00 बजे 17-11-2023	से जारी किया गया। आयुक्त बेलासपुर संभाग लासपुर (छ.ग.) ोटाटाटी काया राशि की वस्त्ली. प्रतिभूति लेनदार के संज्ञान में ऋण भारों का विवरण ज्ञात नहीं ज्ञात नहीं
अ स स्थ ति आम कर्जव कर्जव कर्जव कर्ज द 1 2 3 3 4 5	पति पर उपस्थित किसी चल आरितयों, यदि कोई हो, की बिक्री गन : गाजियाबाद थि : 30.10.2023	ते का कोई अधिकार नहीं है। आईडीएफसी (पूर्व का कैपि) हिंद (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुब ह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्र 1 विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार का नाम का नाम खाते का नाम एवं पता हैंडी 613300 पुराना 155. खसरा नं. 976 पुरवा इरमाइल खान तुरब नगर हैंडी(613300)) निवासी–एफ-277 नंद ग्राम गाजियाबाद यूपी–201001) निवासी–एफ-277, तीसरी मंजिल दाहिनी ओर प्लॉट नंबर हैंडी(613300) एकती) निवासी मकान नं. 193–बी तुराब नगर गाजियाबाद कती), निवासी मकान नं. 193–बी तुराब नगर पाजियाबाद निवासी–1 बी/161 नेहरू नगर गाजियाबाद, उ.प्र. हैंडी(613300) ई. एफ 2 तृतीय तल. प्लॉट नं. 192 तुराब नगर पूर्वा इश्माइल जरिया गाजियाबाद यूपी.	प्राधिकृत अधिकारी फर्स्ट बैंक लिमिटेड प्रटल फर्स्ट लिमिटेड) AD A C C क के साथ पठित वित्तीय रतिभूत लेनदार के पास बंधव (E) सरफासी अधिनियम 2002 (G) मांग सूचन् (H) कब्जा की स्थिति (((C) (G) रू. 20,49,862 (((C) (G) रू. 5920268 (((C) (C) रू. 2063810	लागतों, शुल्कों और खर्चों के स पत्राचार का पताः श्री राकेश श दिल्ली–110005, दिनांक: 31.10.2023, स्थान: गा तिविधि य आस्तियों का प्रतिभूतिकप क / प्रभारित है, का सांकेतिक / प्रत्याभूत परि मियम 2002 की धारा 13(2) व मांग सूचना की तिथि 2 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा व ना के अनुसार बकाया राशि 1 सांकेतिक / भौतिक / रचना E) 13.01.2017 F) 01.05.2017 9/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.01.2017 F) 22.09.2017 3/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 18.04.2017 F) 24.04.2023 .41 + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 18.04.2017 F) 24.04.2023 .41 + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.10.2016 F) 09.03.2017 D/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक	थ उपरोक्त बकाया राशि जमा करके ऊपर र्म, मो. नं.7230070463, ईमेल: rakesh.sha जयाबाद मिण्ड केजे—13, मो. : 99717 ण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हि तस्ताविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार). प्र सम्पत्ति की बिक्री की अनुस् रिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुस् रिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुस् के तिथि सम्पत्ति का वह समस्त भाग दिला—कैला, परगना—लोनी पुराना प्लॉट नं.–155 पर नि गुप्ता के नाम पर है। चौहदी कॉरपोरेट सोसाइटी लि. गा सम्पत्ति का वह समस्त भाग पूर्वा इस्माईल खान, तुराब न चौहदी : पूरब में – 12' चौडी सम्पत्ति का वह समस्त भाग अधिकार के, गाजियाबाद, यू चौहदी : पूरव में – 12 चौडी सम्पत्ति का वह समस्त भाग अधिकार के, गाजियाबाद, यू चौहदी : पूरव में – 12 चौडी	र उल्लिखित प्रतिभूति संपत्तियों क rma02@janabank.com, जना स कविनगर, गाजिय 720088, ई—मेलः त का प्रवर्तन अधिनियम, अ विभूत लेनदार पंजाब नेशनल द्वी अचल सम बंधक / स्वामी के विंत, नया प्लॉट नं. 167 क्षेत्रफल पूरव में – सदर दरवाजा हाउ जेयाबाद, दक्षिण में – कुडे मल एवं अशं जोकि फ्लैट नं. एफ–1 गर, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित गली, पश्चिम में – 40' चौडी रो एवं अशं जोकि मकान नं. 193 ब तर के नाम पर है। चौहदी : पूरव र	को भुनाया जाता है। स्मॉल फाइनेंस बेंक लिमि जियाबाद, विजियाबाद, विजियाबाद, विजियाबाद, विजियाबाद, विजियाबाद, विज् क्रिड28@pnt 2002 के अधीन अध 2002 के अधीन अध 2002 के अधीन अध विंक के प्राधिकृत अधि विंक के प्राधिकृत अधि विंक के प्राधिकृत अधि विंत, मूतल, ओल्ड 158 उत, कवर्ड क्षेत्रफल 32.5 रू 99.50 वर्ग गज अध विंत, मूतल, ओल्ड 158 उत, कवर्ड क्षेत्रफल 32.5 रू 99.50 वर्ग गज अध विंत, क्वर्ब क्षेत्रफल 32.5 रू 99.50 वर्ग गज अध विंत, कवर्ड क्षेत्रफल 41.80 वर्ग ग रोड, उत्तर में – 30' चौर बी, तुराब नगर, गाजिय स्व में – अन्य की सम्पत्ति वीं, तुराब नगर, गाजिय स्व में – अन्य की सम्पत्ति वीं, तुराब नगर, गाजिय स्व में – अन्य की सम्पत्ति के जतर में – 30 चौडी	मेटेड, 16 / 12, दूसरी मंजिल, र हस्ता / – प्राधिकृत अधिकार्य , 001, b.co.in चल सम्पत्तियों के विक्रय कारी द्वारा लिया गया है, को ' ण – के बंधककती) 5, खसरा नं. 976, पूर्वा इस्म 0 वर्ग मी., र्ति 83.20 वर्ग मी., यह सम्पत्ति पश्चिम में – राम चंदर का म त के अधिकार के) सीधे हाथ व मी., यह सम्पत्ति निर्मला पुत्र ब ही रोड, दक्षिण में – ठाकुर दा गबाद, यू.पी. में स्थित, क्षेत्रफल ते, पश्चिम में – 20फीट चौड़ी 192, तुराब नगर, पूर्वा इस्माः सरबती अग्रवाल और राहुल अ रोड, दक्षिण में – ठाकुर दास	डब्ल्यू .ई.ए, आर्य समाज र री, कृते जना स्मॉल फाइने डोटाटा डेतु ई—नीलामी विक्र "जहाँ है, जैसा है और ज "जहाँ है, जैसा है और ज वाइल खान तुराव नगर न प्रमात गुप्ता और पूनम कान, उत्तर में — नेहरू की तरफ, प्लॉट नं. 192, ाबू लाल के नाम पर है । रि गुलाटी का मकान व 43.47 वर्ग मी. (52 वर्ग ते रोड, उत्तर में — सुरेश इं अग्रवाल के नाम पर है । रा गुलाटी का मकान	रा किए गए सभी रोड, करोल बाग, रे के लेगिरेड से क लिगिरेड स्तरपत्ति टॉ ल हेतु टिव्र्र्ं हेतु टिव्र्र्ं हेतु टिव्र्र्ं हेतु टिव्र्र्ं हेतु टिव्र्र्ं हेतु टिव्र्र्ं हेतु टिव्र्र्ं हेतु टिव्र्र्ं हेतु टिव्र्रं हेतु टिव्र्रं हेतु टिव्र्रं हेतु टिव्र्रं हेतु टिव्र्रं हेतु टिव्र्रं हेतु टिव्र्रं हे स्तरपत्ति मूल्य (ह) ईएमडी (ट) बोली वृद्धि राशि (ह) रु. 13.07 लाख (ह) रु. 13.07 लाख (ह) रु. 13.0 लाख (ह) रु. 1.30 लाख (ट) रु. 10,000/- (त) रु. 10,000/- (त) रु. 10,000/- (त) रु. 10,000/- (त) रु. 10,000/- (त) रु. 10,000/- (त) रु. 22.15 लाख (ह) रु. 2.22 लाख	दिनंक 18/10/20 वायालय की मुद्रा ही ईज दूट्राजा र वेचा जाएगा। वय नीलामी की तिथि एवं समय 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अर्पाइ 04.00 बजे 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अर्पाइ 04.00 बजे 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अर्पाइ 04.00 बजे 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अर्पाइ 04.00 बजे	से जारी किया गया। आयुक्त बेलासपुर संभाग लासपुर (छ.ग.) ोटाटानी काया राशि की वस्तुली, प्रतिभूति लेनदार के संज्ञान में ऋण भारों का विवरण ज्ञात नहीं ज्ञात नहीं ज्ञात नहीं
अ स स्थ ति आम कर्जव कर कर्जव कर कर्जव कर्जक कर्जक कर्जक कर्जक कर्जक कर्जक कर्जक कर्जक्र कर कर्जक कर कर कर्ज कर करात कर्ज कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर	मति पर उपस्थित किसी चल आरितयों, यदि कोई हो, की बिक्री गन : गाजियाबाद थि : 30.10.2023 दिवादोदोदावादी विशेष कप से कर्जदार और गारंटर्स को यह प्रतिभूति तनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह परिंगे और गारंटर(सें), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का रार्(रें) और गारंटर(सें), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का रार्(रें) और गारंटर(सें), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का रार्वाते द्याते : कर्जदार / गारंटर्स र लोहा मंद श्री प्रमात गुप्ता और पूनम गुप्ता, पलैट नं. 167. मूतल. प् विला-कैला, परगना-लोनी गाजियाबाद, यू.पी. लोहा मंद खाते का नामः श्री. निर्मला पुत्री रच बाबू लाल (उधारकती) खाते का नामः श्री. निर्मला पुत्री श्री बाबू लाल (उधारकती) खाते का नामः श्री. निर्मला पुत्री श्री बाबू लाल (उधारकती) 182 तुराब नगर गाजियाबाद उ.प्र. लोहा मंद खाते का नामः श्री सुनील कुमार पुत्र दीवान चंद (उखार यूपी-201001 श्रीमती अलका रानी पत्नी श्री सुनील कुमार (उधारक यूपी-201001, मनीष जैन पुत्र स्व. प्रेम चंद जैन (गारंटर), लोहा मंद सरस्वती अग्रवाल और राहुल अग्रवाल, निवासी-पलैट नं खान, बिना छत के, गाजियाबाद यूपी, <u>और</u> 6 रेलवे रोड बग लोहा मंद श्री अवदेश कुमार पुत्र श्री सदाशिव चौरसिया, मकान-प्ल <u>और</u> (गारंटर) अनिल कुमार तिवारी पुत्र स्व. राम मूरत वि दित्ली-59	ते का कोई अधिकार नहीं है। आईडीएफसी (पूर्व का कैपि हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुव ह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्र ा विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार का नाम का नाम खाते का नाम एवं पता ही 613300 पुराना 155. खसरा नं. 976 पुरवा इस्माइल खान तुरव नगर ही(613300)) निवासी–एफ-277, तीसरी मंजिल दाहिनी ओर प्लॉट नंबर ही(613300) रकती) निवासी मकान नं. 193–बी तुराब नगर गाजियाबाद क्ती(त) निवासी मकान नं. 193–बी तुराब नगर गाजियाबाद वित्तांसी–।। बी/161 नेष्ठरू नगर गाजियाबाद उ.प्र. ही(613300) र एफ 2 तृतीय तल. प्लॉट नं. 192 तुराब नगर पूर्वा इस्माइल जारिया गाजियाबाद यू.पी.	प्राधिकृत अधिकारी फर्स्ट बैंक लिमिटेड प्रटल फर्स्ट लिमिटेड) Solution क के साथ पठित वित्तीय रतिभूत लेनदार के पास बंधव (E) सरफासी अधिनियम 2002 (G) मांग सूच- (H) कब्जा की स्थिति ((((((((((((((((((लागतों, शुल्कों और खर्चों के स पत्राचार का पताः श्री राकेश श दिल्ती–110005, दिनांकः 31.10.2023, स्थानः गा तिविधि य आस्तियों का प्रतिभूतिकप क / प्रभारित है, का सांकेतिक / प्रत्याभूत परि मांग सूचना की तिथि 2 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा व ना के अनुसार बकाया राशि 1 सांकेतिक / भौतिक / रचना E) 13.01.2017 F) 01.05.2017 9/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.01.2017 F) 22.09.2017 3/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.01.2017 F) 22.09.2017 3/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 18.04.2017 F) 24.04.2023 .41 + ब्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.10.2016 F) 09.03.2017 0/- + ब्याज एवं प्रमार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.10.2016 F) 09.03.2017	थ उपरोक्त बकाया राशि जमा करके ऊपर र्म, मो. नं.7230070463, ईमेलः rakesh.sha जयाबाद मण्ड केजे—13, मो. : 99717 ण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हि वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार). प्र सम्पत्ति की बिक्री की अनुस् हे ते तिथि सम्पत्ति का वह समस्त भाग दिला—कैला, परगना—लोनी पुराना प्लॉट नं.—155 पर नि गुप्ता के नाम पर है । चौहदी कॉरपोरेट सोसाइटी लि. गा सम्पत्ति का वह समस्त भाग पूर्वा इस्माईल खान, तुराब न चौहदी : पूरब में – 12' चौड़ी सम्पत्ति का वह समस्त भाग गज) यह सम्पत्ति सुनील कुम का मकान, दक्षिण में – मन्दि सस्पत्ति का वह समस्त भाग गज) यह सम्पत्ति सुनील कुम का मकान, दक्षिण में – मन्दि सस्पत्ति का वह समस्त भाग अधिकार के, गाजियाबाद, य् चौहदी : पूरब में – 12 चौडी	र उल्लिखित प्रतिभूति संपत्तियों क rma02@janabank.com, जना र कविनगर, गाजिय 720088, ई—मेलः त का प्रवर्तन अधिनियम, द विभूत लेनदार पंजाब नेशनल द्वी अचल सम बंधक / स्वामी के विं अशं जोकि फ्लैट नं. १६ ग एवं अशं जोकि फ्लैट नं. १६ गाजियाबाद-2013001 में स्थित मिंत, नया प्लॉट नं. १६७ क्षेत्रफल प्रूव में – सदर दरवाजा हाउ जेयाबाद, दक्षिण में – कुडे मल एवं अशं जोकि फ्लैट नं. एफ–1 गर, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित गली, पश्चिम में – 40' चौडी रो एवं अशं जोकि फ्लैट नं. एफ 2 प्रूवं आशं जोकि फ्लैट नं. एफ 2 पूर्व अशं जोकि फ्लैट नं. एफ 2	को भुनाया जाता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमि जियाबाद, विजियाबाद, वाबाद — 2019 cs8228@pnt 2002 के अधीन अभ वैंक के प्राधिकृत अधिन 2002 के अधीन अभ वैंक के प्राधिकृत अधिन विंत, मूतल, ओल्ड 158 उत, कवर्ड क्षेत्रफल 32.59 ज्ल 99.50 वर्ग गज अर्था उस और नाली खरंजा, 1 का मकान 1, तृतीय तल, (बिना छल् त, क्षेत्रफल 41.80 वर्ग म रोड, उत्तर में – 30' चौर बी, तुराब नगर, गाजिय ख में – अन्य की सम्पत्ति सी, जुराब नगर, गाजिय ख में – अन्य की सम्पत्ति वी, तुराब नगर, गाजिय राब में – अन्य की सम्पत्ति वी, तुराब नगर, गाजिय राव, क्षेत्रफल 41.80 वर्ग म रोड, उत्तर में – 30' चौर की, तुराब नगर, गाजिय राव, के नाम पर है। चौह विंद नं. 5 / 541	मेटेड, 16/12, दूसरी मंजिल, र डस्ता/- प्राधिकृत अधिकार , 001, b.co.in चल सम्पत्तियों के विक्रय कारी द्वारा लिया गया है, को ' ण के बंधककती) 5. खसरा नं. 976, पूर्वा इस्म 0 वर्ग मी., रि 83.20 वर्ग मी., यह सम्पत्ति पश्चिम में - राम चंदर का म त के अधिकार के) सीधे हाथ व मी., यह सम्पत्ति निर्मला पुत्र ब ही रोड, दक्षिण में - ठाकुर दा गबाद, यू.पी. में स्थित, क्षेत्रफल ते, पश्चिम में - 20फीट चौड़ी 192, तुराब नगर, पूर्वा इस्मा सरवती अग्रवाल और राहुल अ रोड, दक्षिण में - ठाकुर दास स्वेड, दक्षिण में - ठाकुर दास	डब्ल्यू .ई.ए, आर्य समाज स रे, कृते जना स्मॉल फाइन डोटाटा हेतु ई—नीलामी विक्र ''जहाँ है, जैसा है और ज ''जहाँ है, जैसा है और ज वाइल खान तुराव नगर त प्रभात गुप्ता और पूनम कान, उत्तर में – नेहरू की तरफ, प्लॉट नं. 192, बबू लाल के नाम पर है । रस गुलाटी का मकान की तरफ, प्लॉट नं. 192, ब 43.47 वर्ग मी. (52 वर्ग ते रोड, उत्तर में – सुरेश इ उत्तर में – सुरेश इ जान के नाम पर है । रा गुलाटी का मकान	रा किए गए सभी रोड, करोल बाग, नेस बेक लिमिटेड सरम्पति टो ल हेतु विद्रती व हेतु विद्रती क हेतु विद्रती हेतु विद्रती क हेतु विद्रती हेतु विद्रती हेतु विद्रती क हेतु	दिनांक 18/10/20 वायालय की मुद्रा ही ही ईज सूदाजाा र वेवा जाएगा वव नीलामी की तिथि एवं समय 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अर्पाइ 04.00 बजे 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अर्पाइ 04.00 बजे 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अर्पाइ 04.00 बजे 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अर्पाइ 04.00 बजे	से जारी किया गया। आयुक्त बेलासपुर संभाग लासपुर (छ.ग.) ोट्टाटनी प्रतिभूति लेनदार के संज्ञान में ऋण भारों का विवरण ज्ञात नहीं ज्ञात नहीं ज्ञात नहीं ज्ञात नहीं
अ स स्थ ति आग कर्जव कर्जि कर्जकर कर्जकर्जि कर्जकर कर्जकर कर्जकर कर्जकर कर कर्जकर कर्जव कर्जकर कर कर्जकर कर्जकर कर्जकर कर्जकर कर्जकर कर्जकर कर्जकर कर्जकर कर्जकर कर्जकर कर्जकर कर्जकर कर्जकर कर्जव कर्जव कर्जव कर्जव कर्जव कर्जव कर्जव कर्जव कर्जव कर्जि कर्जन कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्त कर्जि कर्जन कर्ज कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर कर्ज कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्त कर्जि कर्त कर कर्जि कर्जि कर्जि कर्त कर्त कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर	पति पर उपस्थित किसी चल आरितयों, यदि कोई हो, की बिक्री गन : गाजियाबाद थि : 30.10.2023	ते का कोई अधिकार नहीं है। आईडीएफसी (पूर्व का कैपि (पूर्व का कैपि) (पूर्व का प्राप्त) (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 96() के परन्तुव ह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पतियां जो प्र 1 विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार का नाम का नाम का नाम खोत का नाम एवं पता) (खी 613300) (पुराना 155, खसरा नं. 976 पुरवा इस्माइल खान तुरब नगर खी(613300)) (केती) निवासी मकान नं. 193–बी तुराब नगर गाजियाबाद निवासी– 11 बी/161 नेहरू नगर गाजियाबाद, छ.प्र. (खी(613300)) (एफ 2 तृतीय तल, प्लॉट नं. 192 तुराब नगर पूर्वा इस्माइल जरिया गाजियाबाद यू.पी. (खी(613300) कारि नं 5/538, प्रथम तल सेक्टर–5 बसुन्धरा गाजियावाद । तिवासी, निवासी–आर–4/41 बी ब्लॉक आर 4 मोहन गार्डन (खी(613300) 5/129, मृतल, मोहन मीकिन सोसायटी सेक्टर–5 वसुंघरा	प्राधिकृत अधिकारी फर्स्ट बैंक लिमिटेड acer फर्स्ट लिमिटेड b nation ab nation (E) सरफासी अधिनियम 2002 (G) मांग सूच- (H) कब्जा की स्थिति (G) रु. 20,49,865 (G) रु. 20,63810 (G) रु. 20,63810	लागतों, शुल्कों और खर्चों के स पत्राचार का पताः श्री राकेश श दिल्ती–110005, दिनांक: 31.10.2023, स्थानः गा तियम 2002 की घारा 13(2) क क / प्रभारित है, का सांकेतिक / प्रत्याभूत परि क / प्रभारित है, का सांकेतिक / प्रत्याभूत परि वियम 2002 की घारा 13(2) क मांग सूचना की तिथि 2 की घारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा क ना के अनुसार बकाया राशि 1 सांकेतिक / भौतिक / रचना E) 13.01.2017 F) 01.05.2017 9/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.01.2017 F) 22.09.2017 3/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.01.2017 F) 24.04.2023 .41 + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 18.04.2017 F) 24.04.2023 .41 + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.10.2016 F) 09.03.2017 D/- + व्याज एवं प्रमार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 03.08.2018 F) 15.12.2018 1/- + ब्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 18.04.2017 F) 29.07.2017	थ उपरोक्त बकाया राशि जमा करके ऊपर म, मो. नं.7230070463, ईमेलः rakesh.sha जयाबाद मण्ड केजे—13, मो. : 99717 ण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति दि वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार). प्र सम्पत्ति की बिक्री की अनुस् रसम्पत्तियों की बिक्री की अनुस् सम्पत्ति का वह समस्त भाग बिला—कैला, परगना—लोनी पुराना प्लॉट नं.—155 पर नि गुप्ता के नाम पर है। चीहदी कॉरपोरेट सोसाइटी लि. गा सम्पत्ति का वह समस्त भाग पूर्वा इस्माईल खान, तुराब न चीहदी: पूरब में — 12' चौड़ी सम्पत्ति का वह समस्त भाग जा यह सम्पत्ति सुनील कुम् का मकान, दक्षिण में — मन्दि सम्पत्ति का वह समस्त भाग अधिकार के, गाजियाबाद, यू चौहदी: पूरब में — 12 चौडी सम्पत्ति का वह समस्त भाग अधिकार के, गाजियाबाद, यू चौहदी: पूरब में — 12 चौडी सम्पत्ति का वह समस्त भाग रिधत, क्षेत्रफल 41.54 वर्ग ह. (199 जन्म में ज्यॉन नं	र उल्लिखित प्रतिभूति संपत्तियों क rma02@janabank.com, जना स कविनगर, गाजिय 720088, ई—मेलः 720088, ई 720088, क 720088, क 72008, क 720088, क 720088, क 72008, क 720088, क 720088, क 72008, a 72008, a 72008, a 72008, a 72008, a	को भुनाया जाता है। स्मॉल फाइनेंस बेंक लिमि जिटायाबाद, याबाद — 2011 टs8228@pnt 2002 के अधीन अप वैंक के प्राधिकृत अधिन वैंक के प्राधिकृत अधिन म्यत्तियों का विवरण नाम (सम्पत्तियों व 167, मूतल, ओल्ड 156 रत, कवर्ड क्षेत्रफल 32.5 रूत 99.50 वर्ग गज अर्थ उस और नाली खरंजा, 1 का मकान 1, तृतीय तल, (बिना छल त, क्षेत्रफल 41.80 वर्ग प रोड, उत्तर में – 30' चौर बी, तुराब नगर, गाजिय रब में – अन्य की सम्पत्ति दब में – अन्य की सम्पत्ति दब में – अन्य की सम्पत्ति ह38, प्रथम तल प्लॉट नं वर्ग मी, यह सम्पत्ति स ड, उत्तर में – 30 चौडी	मेटेड, 16/12, दूसरी मंजिल, र डस्ता/- प्राधिकृत अधिकार , 001, b.co.in चल सम्पत्तियों के विक्रय कारी द्वारा लिया गया है, को ' ण के बंधककर्ता) 5, खसरा नं. 976, पूर्वा इस्म 0 वर्ग मी., ति 83.20 वर्ग मी., यह सम्पत्ति पश्चिम में - राम चंदर का म त के अधिकार के) सीधे हाथ व मी., यह सम्पत्ति निर्मला पुत्र ब ही रोड, दक्षिण में - ठाकुर दा गबाद, यू.पी. में स्थित, क्षेत्रफल ते, पश्चिम में - २०फीट चौड़ी 192, तुराब नगर, पूर्वा इस्मा सरवती अग्रवाल और राहुल अ रोड, दक्षिण में - ठाकुर दास रोड, दक्षिण में - ठाकुर दास	डब्ल्यू .ई.ए, आर्य समाज स रो, कृते जना स्मॉल फाइन डेतु ई—नीलामी विक्र ''जहाँ है, जैसा है और ज वाइल खान तुराव नगर त प्रभात गुफ्ता और पूनम कान, उत्तर में — नेहरू की तरफ, प्लॉट नं, 192, बबू लाल के नाम पर है। स गुलाटी का मकान वि 43.47 वर्ग मी. (52 वर्ग ते रोड, उत्तर में — सुरेश इर्ल खान, बिना छत के अग्रवाल के नाम पर है। । गुलाटी का मकान गजियाबाद—201010 में 537, पश्चिम मे — प्लॉट	रा किए गए सभी रोड, करोल बाग, रेड, करोल बाग, से बंक लिमिटेड सरम्पति टो ल हेतु विक्री सरम्पति टो ल हेतु विक्री कय नोटिस, त) कुछ भी हैं' के आधार प (A) आरक्षित मूल्य (B) ईएमडी (C) बोली वृद्धि राशि (C) बोली वृद्धि राशि (C) रु. 10,000/- (A) रु. 12.92 लाख (B) रु. 1.30 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 31.69 लाख (B) रु. 3.17 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 15.30 लाख (B) रु. 1.53 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 22.15 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 15.30 लाख (B) रु. 1.53 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 15.30 लाख (B) रु. 1.53 लाख (C) रु. 10,000/-	दिनंक 18/10/20 वायालय की मुद्रा की ईज सूट्राजा। र वेया जाएगा। वय नीलामी की तिथि एवं समय 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अपॉइ 04.00 बजे 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अपॉइ 04.00 बजे 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अपॉइ 04.00 बजे 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अपॉइ 04.00 बजे 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अपॉइ 04.00 बजे	से जारी किया गया। आयुक्त बेलासपुर संभाग लासपुर (छ.ग.) ोट्टाटनी प्रतिभूति लेनदार के संज्ञान में ऋण भारों का विवरण ज्ञात नहीं ज्ञात नहीं ज्ञात नहीं ज्ञात नहीं
अ स स्थ ति आग कर्जव कर्जि कर्जकर कर्जकर्जि कर्जकर कर्जकर कर्जकर कर्जकर कर कर्जकर कर्जव कर्जकर कर कर्जकर कर्जकर कर्जकर कर्जकर कर्जकर कर्जकर कर्जकर कर्जकर कर्जकर कर्जकर कर्जकर कर्जकर कर्जकर कर्जव कर्जव कर्जव कर्जव कर्जव कर्जव कर्जव कर्जव कर्जव कर्जि कर्जन कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्त कर्जि कर्जन कर्ज कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर कर्ज कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्त कर्जि कर्त कर कर्जि कर्जि कर्जि कर्त कर्त कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर	पति पर उपस्थित किसी चल आरितयों, यदि कोई हो, की बिक्री गन : गाजियाबाद थि : 30.10.2023	ते का कोई अधिकार नहीं है। आईडीएफसी (पूर्व का कैपि) हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुव ह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्र 1 विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार का नाम का नाम खाते का नाम एवं पता है 613300 पुराना 155, खसरा नं. 976 पुरवा इस्माइल खान तुरब नगर है (613300)) निवासी–एफ 277 नंद ग्राम गाजियाबाद यूपी–201001) निवासी–एफ 277 नंद ग्राम गाजियाबाद यूपी–201001) निवासी–एफ 277, तीसरी मंजिल दाहिनी ओर प्लॉट नंबर है (613300) रक्ती) निवासी मकान नं. 193–बी तुराब नगर गाजियाबाद तती, निवासी मकान नं. 193–बी तुराब नगर गाजियाबाद तती, निवासी मकान नं. 193–बी तुराब नगर पाजियाबाद तती, निवासी मकान नं. 193–बी तुराब नगर पाजियाबाद की (613300) ई एफ 2 तृतीय तल, प्लॉट नं. 192 तुराब नगर पूर्वा इस्माइल जरिया गाजियाबाद यूपी.	प्राधिकृत अधिकारी फर्स्ट बैंक लिमिटेड Acer फर्स्ट लिमिटेड Acer फर्स्ट लिमिटेड Ab A G G G G G G G G G G G G G G G G G G	लागतों, शुल्कों और खर्चों के स पत्राचार का पताः श्री राकेश श दिल्ती–110005, दिनांक: 31.10.2023, स्थानः गा तिविधि के प्रातिभूतिकर क / प्रभारित है, का सांकेतिक / प्रत्याभूत परि मियम 2002 की धारा 13(2) क मांग सूचना की तिथि 2 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा क ना के अनुसार बकाया राशि 1 सांकेतिक / भौतिक / रचना E) 13.01.2017 F) 01.05.2017 9/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.01.2017 F) 22.09.2017 3/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 18.04.2017 F) 24.04.2023 .41 + ब्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.10.2016 F) 09.03.2017 0/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.10.2016 F) 09.03.2017 0/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.10.2016 F) 15.12.2018 1/- + ब्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.04.2017	थ उपरोक्त बकाया राशि जमा करके ऊपर म, मो. नं.7230070463, ईमेलः rakesh.sha जयाबाद मण्ड केजे—13, मो. : 99717 ण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति दि वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार). प्र सम्पत्ति की बिक्री की अनुस् रसम्पत्तियों की बिक्री की अनुस् सम्पत्ति का वह समस्त भाग बिला—कैला, परगना—लोनी पुराना प्लॉट नं.—155 पर नि गुप्ता के नाम पर है। चीहदी कॉरपोरेट सोसाइटी लि. गा सम्पत्ति का वह समस्त भाग पूर्वा इस्माईल खान, तुराब न चीहदी: पूरब में — 12' चौड़ी सम्पत्ति का वह समस्त भाग जा यह सम्पत्ति सुनील कुम् का मकान, दक्षिण में — मन्दि सम्पत्ति का वह समस्त भाग अधिकार के, गाजियाबाद, यू चौहदी: पूरब में — 12 चौडी सम्पत्ति का वह समस्त भाग अधिकार के, गाजियाबाद, यू चौहदी: पूरब में — 12 चौडी सम्पत्ति का वह समस्त भाग रिधत, क्षेत्रफल 41.54 वर्ग ह. (199. जन्म में वर्गे म ने नी	र उल्लिखित प्रतिभूति संपत्तियों क ma02@janabank.com, जना स कविनगर, गाजिय 720088, ई—मेलः त का प्रवर्तन अधिनियम, प्र विभूत लेनदार पंजाव नेशनल द्वी अचल सम बंधक / स्वामी के द्वी ग एवं अशं जोकि पलैट नं. १७ गाजियाबाद-2013001 में स्थित मति, नया प्लॉट नं. १६७ सेत्रफल पूरव में – सदर दरवाजा हाउ जेयावाद, दक्षिण में – कुडे मल एवं अशं जोकि फ्लैट नं. १७ गती, पश्चिम में – ४०' चौडी रो एवं अशं जोकि फ्लैट नं. एफ न गती, पश्चिम में – ४०' चौडी रो एवं अशं जोकि फ्लैट नं. एफ 2 दूपी. में स्थित, क्षेत्रफल ४१.८० य गती, पश्चिम में – ४० चौडी रो एवं अशं जोकि फ्लैट नं. एफ 2 दूपी. में स्थित, क्षेत्रफल ४१.८० य गती, पश्चिम में – ४० चौडी रो एवं अशं जोकि फ्लैट नं. १७ २ द्वे अशं जोकि फ्लैट नं. १७ २ प्रवं अशं जोकि फ्लैट नं. १७ २ द्वे अशं जोकि फ्लैट नं. १७ २	को भुनाया जाता है। स्मॉल फाइनेंस बेंक लिमि जिटायाबाद, याबाद — 2011 टs8228@pnt 2002 के अधीन अप वैंक के प्राधिकृत अधिन वैंक के प्राधिकृत अधिन म्यत्तियों का विवरण नाम (सम्पत्तियों व 167, मूतल, ओल्ड 156 रत, कवर्ड क्षेत्रफल 32.5 रूत 99.50 वर्ग गज अर्थ उस और नाली खरंजा, 1 का मकान 1, तृतीय तल, (बिना छल त, क्षेत्रफल 41.80 वर्ग प रोड, उत्तर में – 30' चौर बी, तुराब नगर, गाजिय रब में – अन्य की सम्पत्ति दब में – अन्य की सम्पत्ति दब में – अन्य की सम्पत्ति ह38, प्रथम तल प्लॉट नं वर्ग मी, यह सम्पत्ति स ड, उत्तर में – 30 चौडी	मेटेड, 16/12, दूसरी मंजिल, र डस्ता/- प्राधिकृत अधिकार , 001, b.co.in चल सम्पत्तियों के विक्रय कारी द्वारा लिया गया है, को ' ण के बंधककर्ता) 5, खसरा नं. 976, पूर्वा इस्म 0 वर्ग मी., ति 83.20 वर्ग मी., यह सम्पत्ति पश्चिम में - राम चंदर का म त के अधिकार के) सीधे हाथ व मी., यह सम्पत्ति निर्मला पुत्र ब ही रोड, दक्षिण में - ठाकुर दा गबाद, यू.पी. में स्थित, क्षेत्रफल ते, पश्चिम में - २०फीट चौड़ी 192, तुराब नगर, पूर्वा इस्मा सरवती अग्रवाल और राहुल अ रोड, दक्षिण में - ठाकुर दास रोड, दक्षिण में - ठाकुर दास	डब्ल्यू .ई.ए, आर्य समाज स रो, कृते जना स्मॉल फाइन डेतु ई—नीलामी विक्र ''जहाँ है, जैसा है और ज वाइल खान तुराव नगर त प्रभात गुफ्ता और पूनम कान, उत्तर में — नेहरू की तरफ, प्लॉट नं, 192, बबू लाल के नाम पर है। स गुलाटी का मकान वि 43.47 वर्ग मी. (52 वर्ग ते रोड, उत्तर में — सुरेश इर्ल खान, बिना छत के अग्रवाल के नाम पर है। । गुलाटी का मकान गजियाबाद—201010 में 537, पश्चिम मे — प्लॉट	रा किए गए सभी रोड, करोल बाग, नेस बेक लिमिटेड सरम्पत्ति टो ल हेतु विद्रती व हेतु विद्रती क हेतु विद्रती क हेतु विद्रती क हेतु विद्रती क हेतु विद्रती क हेतु विद्रती क हेतु विद्रती क हेर्मडी (A) आरक्षित मूल्य (B) ईएमडी (C) बोली वृद्धि राशि (C) क. 13.07 लाख (B) रु. 1.31 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 12.92 लाख (B) रु. 1.30 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 31.69 लाख (B) रु. 3.17 लाख (B) रु. 3.17 लाख (B) रु. 3.17 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 15.30 लाख (B) रु. 1.53 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 22.15 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 21.46 लाख	दिनांक 18/10/20 वायालय की मुद्रा ही ही ईज सूदाजाा र वेवा जाएगा वव नीलामी की तिथि एवं समय 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अर्पाइ 04.00 बजे 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अर्पाइ 04.00 बजे 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अर्पाइ 04.00 बजे 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अर्पाइ 04.00 बजे	से जारी किया गया। आयुक्त बेलासपुर संभाग लासपुर (छ.ग.) ोट्टाटनी प्रतिभूति लेनदार के संज्ञान में ऋण भारों का विवरण ज्ञात नहीं ज्ञात नहीं ज्ञात नहीं ज्ञात नहीं
अ स स्थ ति आम कर्जव कर्जि कर्जव कर्जि कर्व कर्जि कर्जन कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्व कर्जि कर्त कर कर्त कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्जि कर्त कर कर्जि कर्जि कर्जि कर्त कर्त कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर	यति पर उपस्थित किसी चल आसितयों, यदि कोई हो, की बिक्री तान : गाजियाबाद थि : 30.10.2023	ते का कोई अधिकार नहीं है। आईडीएफसी (पूर्व का कैपि (पूर्व का कैपि) (पूर्व का प्राप्त) (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 96() के परन्तुव ह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पतियां जो प्र 1 विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार का नाम का नाम का नाम खोत का नाम एवं पता) (खी 613300) (पुराना 155, खसरा नं. 976 पुरवा इस्माइल खान तुरब नगर खी(613300)) (केती) निवासी मकान नं. 193–बी तुराब नगर गाजियाबाद निवासी– 11 बी/161 नेहरू नगर गाजियाबाद, छ.प्र. (खी(613300)) (एफ 2 तृतीय तल, प्लॉट नं. 192 तुराब नगर पूर्वा इस्माइल जरिया गाजियाबाद यू.पी. (खी(613300) कारि नं 5/538, प्रथम तल सेक्टर–5 बसुन्धरा गाजियावाद । तिवासी, निवासी–आर–4/41 बी ब्लॉक आर 4 मोहन गार्डन (खी(613300) 5/129, मृतल, मोहन मीकिन सोसायटी सेक्टर–5 वसुंघरा	प्राधिकृत अधिकारी फर्स्ट बैंक लिमिटेड Azer फर्स्ट लिमिटेड Ab A GL (G) क के साथ पठित वित्तीय रतिमूत लेनदार के पास बंधव अंतर्गत (E) सरफासी अधिनियम 2002 (G) मांग सूचन (H) कब्जा की स्थिति (G) ए. 49,99,599 (G) ए. 49,99,599 (G) ए. 20,49,865 (G) ए. 2063810 (G) ए. 22,28,021 (G) ए. 22,28,021	लागतों, शुल्कों और खर्चों के स पत्राचार का पताः श्री राकेश श दिल्ती–110005, दिनांक: 31.10.2023, स्थानः गा तियम 2002 की घारा 13(2) क मंग सूचना की तिथि 2 की घारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा क ना के अनुसार बकाया राशि 1 सांकेतिक / भौतिक / रचना E) 13.01.2017 F) 01.05.2017 9/- + व्याज एवं प्रमार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.01.2017 F) 22.09.2017 3/- + व्याज एवं प्रमार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.01.2017 F) 24.04.2023 .41 + व्याज एवं प्रमार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.10.2016 F) 09.03.2017 0/- + व्याज एवं प्रमार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.10.2016 F) 09.03.2017 0/- + व्याज एवं प्रमार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.10.2016 F) 09.03.2017 0/- + व्याज एवं प्रमार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.10.2016 F) 15.12.2018 1/- + व्याज एवं प्रमार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 18.04.2017	थ उपरोक्त बकाया राशि जमा करके ऊपर मैं, मो. नं.7230070463, ईमेल: rakesh.sha प्रयाबाद मिण्ड केजे—13, मो. : 99717 ण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हि तसस्पत्तियों की बिक्री की अनुस् रसम्पत्तियों की बिक्री की अनुस् रसम्पत्तियों की बिक्री की अनुस् तिलि—कैला, परगना—लोनी पुराना प्लॉट नं.–155 पर नि गुप्ता के नाम पर है। चौहदी कॉरपोरेट सोसाइटी लि. गा सम्पत्ति का वह समस्त भाग पूर्वा इस्माईल खान, तुराब न चौहदी : पूरब में – 12' चौड़ी सम्पत्ति का वह समस्त भाग गज) यह सम्पत्ति सुनील कुम् का मकान, दक्षिण में – मन्दि सम्पत्ति का वह समस्त भाग प्रतिहो : पूरब में – 12' चौड़ी सम्पत्ति का वह समस्त भाग राज) यह सम्पत्ति सुनील कुम् का मकान, दक्षिण में – मन्दि सम्पत्ति का वह समस्त भाग राज) यह सम्पत्ति सुनील कुम् का मकान, दक्षिण में – वन्दि सम्पत्ति का वह समस्त भाग स्थित, कवर्ड क्षेत्रफल 45 वर्ग नं. 5 / 539, उत्तर में – 6 मी. सम्पत्ति का वह समस्त भाग स्थित, क्षेत्रफल 41.54 वर्ग 5 / 128, उत्तर में – एलॉट नं	र उल्लिखित प्रतिभूति संपत्तियों क ma02@janabank.com, जना स कविनगर, गाजिय 720088, ई—मेलः त का प्रवर्तन अधिनियम, ग्रेतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल द्वी अचल सम बंधक / स्वामी के त एवं अशं जोकि फ्लैट नं. १६ गाजियाबाद–2013001 में स्थित मिंत, नया प्लॉट नं. १६७ बोत्रफत पूरव में – सदर दरवाजा हाउ जेयाबाद, दक्षिण में – कुडे मल एवं अशं जोकि फ्लैट नं. एफ–1 गर, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित गली, पश्चिम में – 40' चीडी रो एवं अशं जोकि फ्लैट नं. एफ–1 रर एवं अशं जोकि फ्लैट नं. एफ–1 रर एवं अशं जोकि फ्लैट नं. एफ 2 रूप एवं अशं जोकि फ्लैट नं. एफ 2 रूप एवं अशं जोकि फ्लैट नं. एफ 2 रूप एवं अशं जोकि फ्लैट नं. एफ 2 रूप रवं अशं जोकि फ्लैट नं. एफ 2 रूप रवं अशं जोकि फ्लैट नं. एक 2 रूप रवं अशं जोकि फ्लैट नं. एक 2 रूप रवं अशं जोकि फ्लैट नं. एक 2 र्व अशं जोकि फ्लैट नं. ठ/इ र्व अशं जोकि फ्लैट नं. उठ हो रि मी., यह सम्पत्ति लोकॉढ कुमा नं . – 5/106, दक्षिण में – 6 नी.	को भुनाया जाता है। स्मॉल फाइनेंस बेंक लिमि जिटावाद, विजियाबाद, विजियाबाद, विजियाबाद, विजियाबाद, विजियाबाद, विज् के प्राधिकृत अधिन विंक के प्राधिकृत अधिन के के प्राधिकृत अधिन म्यत्तियों का विवरण नाम (सम्पत्तियों व किं7, मूतल, ओल्ड 158 क 99.50 वर्ग गज अर्थ विंत, मूतल, ओल्ड 158 क 99.50 वर्ग गज अर्थ विंत, मूतल, ओल्ड 158 क 99.50 वर्ग गज अर्थ वेंस और नाली खरंजा, का मकान 1, तृतीय तल, (बिना छल् त, बेन्नफल 41.80 वर्ग प रोड, उत्तर में – 30' चौर बी, तुराब नगर, गाजिय ख में – अन्य की सम्पत्ति बी, तुराब नगर, गाजिय के नाम पर है। चौह दि नं. 5 / 541	मेटेड, 16/12, दूसरी मंजिल, र इस्ता/— प्राधिकृत अधिकार , OO1, b.co.in चल सम्पत्तियों के विक्रय कारी द्वारा लिया गया है, को ' ण — के बंधककती) 5, खसरा नं. 976, पूर्वा इस्म 0 वर्ग मी., ति 83.20 वर्ग मी., यह सम्पत्ति पश्चिम में – राम चंदर का म त के अधिकार के) सीधे हाथ व मी., यह सम्पत्ति निर्मला पुत्र ब ही रोड, दक्षिण में – ठाकुर दान गबाद, यू.पी. में स्थित, क्षेत्रफल ते, पश्चिम में – 20फीट चौड़ी ! 192, तुराब नगर, पूर्वा इस्माः सरवती अग्रवाल और राहुल अ रोड, दक्षिण में – ठाकुर दास ! 192, तुराब नगर, पूर्वा इस्माः सरवती अग्रवाल और राहुल अ रोड, दक्षिण में – ठाकुर दास	डक्यू .ई.ए, आर्य समाज र दे, कृते जना स्मॉल फाइन देतु इं — नीलामी विक्र "जहाँ है, जैसा है और ज मइल खान तुराव नगर त प्रमात गुप्ता और पूनम कान, उत्तर में — नेहरू की तरफ, प्लॉट नं. 192, मबू लाल के नाम पर है। स गुलाटी का मकान की तरफ, प्लॉट नं. 192, मबू लाल के नाम पर है। स गुलाटी का मकान की तरफ, प्लॉट नं. 192, मबू लाल के नाम पर है। स गुलाटी का मकान पाजियाबाद — 201010 में 537, पश्चिम में — प्लॉट नं. धरा गाजियाबाद उ.प्र. में 0, पश्चिम में — प्लॉट नं.	स किए गए सभी रोड, करोल बाग, वेड, करोल बाग, नेस बेक लिमिटेड सरस्ति दार्ग देतु दिद्वी देतु देएमडी (C) बोली वृद्वि राशि (C) क. 13.07 लाख (B) रु. 1.31 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 12.92 लाख (B) रु. 1.30 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 12.92 लाख (B) रु. 1.30 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 15.30 लाख (B) रु. 1.53 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 22.15 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 21.46 लाख (B) रु. 2.15 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 21.51 लाख	दिनांक 18/10/20 वायालय की मुद्रा वि ति ि ति ि द्यूटा जा। र वेया जाएगा। वय नीलामी की तिथि एवं समय 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अर्पाइ 04.00 बजे 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अर्पाइ 04.00 बजे	से जारी किया गया। आयुक्त बेलासपुर संभाग लासपुर (छ.ग.) ोट्टाटनी प्रतिभूति लेनदार के संज्ञान में ऋण भारों का विवरण ज्ञात नहीं ज्ञात नहीं ज्ञात नहीं ज्ञात नहीं
अ स स् ति आम कर्जव कर कर्जव कर कर्जव कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर	यति पर उपरिथत किसी चल आसियों, यदि कोई हो, की बिक्री IT : गाजियाबाद थि : 30.10.2023	ते का कोई अधिकार नहीं है। आईडीएफसी (पूर्व का कैपि (पूर्व का कैपि कि प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुव ह नोटिस दिया जाता है कि नीथे वर्णित अचल सम्पतियां जो प्र 1 विररण नीथे दी गई तालिका के अनुसार का नाम का नाम का नाम खाते का नाम एवं पता हैंडी 613300 पुराना 155, खसरा नं. 976 पुरवा इस्माइल खान तुरव नगर हैंडी(613300)) निवासी–एफ-277, तीसरी मंजिल दाहिनी ओर प्लॉट नंबर हेंडी(613300) रकती, निवासी मकान नं. 193–बी तुराब नगर गाजियाबाद त्त्वारी, निवासी मकान नं. 193–बी तुराब नगर गाजियाबाद त्त्वारी, निवासी मकान नं. 193–बी तुराब नगर पाजियाबाद त्त्वारी, निवासी मकान नं. 193–बी तुराब नगर पाजियाबाद की(613300) हे. एफ 2 तृतीय तल. प्लॉट नं. 192 तुराब नगर पूर्व इस्माइल जारिया गाजियाबाद यू.पी. डेरी(613300)	प्राधिकृत अधिकारी फर्स्ट बैंक लिमिटेड प्रटल फर्स्ट लिमिटेड) ab nation (b nation (c) फर्स्ट लिमिटेड) ab nation (c) क के साथ पठित वित्तीय रतिमूत लेनदार के पास बंधव (E) सरफासी अधिनियम 2002 (G) मांग सूचन (H) कब्जा की स्थिति (((G) रु. 49,99,595 (((G) रु. 20,49,865) (H) कब्जा की स्थिति (((((((((((((((((((लागतों, शुल्कों और खर्चों के स पत्राचार का पताः श्री राकेश श दिल्ती–110005, दिनांक: 31.10.2023, स्थानः गां Can BANK upon य आस्तियों का प्रतिभूतिक क / प्रभारित है, का सांकेतिक / प्रत्याभूत परि मियम 2002 की घारा 13(2) क मांग सूचना की तिथि 2 की घारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा क ना के अनुसार बकाया राशि र सांकेतिक / भौतिक / रचना E) 13.01.2017 F) 01.05.2017 9/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.01.2017 F) 22.09.2017 3/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.01.2017 F) 22.09.2017 3/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.10.2016 F) 09.03.2017 0/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.10.2016 F) 09.03.2017 0/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.10.2016 F) 15.12.2018 1/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.04.2017 F) 29.07.2017 1.21 + ब्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.10.2016	थ उपरोक्त बकाया राशि जमा करके ऊपर मैं, मो. नं.7230070463, ईमेल: rakesh.sha जयाबाद मिण्ड केजे—13, मो. : 99717 ण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हि तस्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार). प्र सम्पत्ति का वह समस्त भाग दिला—कैला, परगना—लोनी पुराना प्लॉट नं.—155 पर नि गुप्ला के नाम पर है। चीहदी कॉरपोरेट सोसाइटी लि. गा सम्पत्ति का वह समस्त भाग पूर्वा इस्माईल खान, तुराब न चीहदी: पूरब में – 12' चौडी सम्पत्ति का वह समस्त भाग गज) यह सम्पत्ति सुनील कुम का मकान, दक्षिण में – मन्दि सम्पत्ति का वह समस्त भाग राज] यह सम्पत्ति सुनील तुर्ग सम्पत्ति का वह समस्त भाग राज] यह सम्पत्ति सुनील तुर्ग सम्पत्ति का वह समस्त भाग रिधत, कवर्ड क्षेत्रफल 45 वग नं. 5 / 539, उत्तर में – 6 मी. सम्पत्ति का वह समस्त भाग स्थित, क्षेत्रफल 41.54 वर्ग ५ / 128, उत्तर में – प्लॉट नं सम्पत्ति का वह समस्त भाग स्थित, क्षेत्रफल 67.22 वर्ग में	र उल्लिखित प्रतिभूति संपत्तियों क ma02@janabank.com, जना स कविनगर, गाजिय 720088, ई—मेलः त का प्रवर्तन अधिनियम, ग्रतिभूत लेनदार पंजाव नेशनल द्वी अचल सम बंधक / स्वामी के त एवं अशं जोकि फलैट नं. १६ गाजियाबाद-2013001 में स्थित मिंत, नया प्लॉट नं. १६७ सेत्रफत पूरव में – सदर दरवाजा हाज जेयाबाद, दक्षिण में – कुडे मल एवं अशं जोकि फलैट नं. एफ–1 गर, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित गली, पश्चिम में – 40' बीडी से एवं अशं जोकि फलैट नं. एफ–1 गर, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित गली, पश्चिम में – 40' बीडी से एवं अशं जोकि फलैट नं. एफ 2 रूप एवं अशं जोकि फलैट नं. एफ 2 यू.पी. में स्थित, क्षेत्रफल 41.80 ये गली, पश्चिम में – 40 बीडी से रवं अशं जोकि फलैट नं. एफ 2 यू.पी. में स्थित, क्षेत्रफल 41.80 ये गली, पश्चिम में – 6 नी.	को भुनाया जाता है। स्मॉल फाइनेंस बेंक लिमि जिटावाद, विजियाबाद, विजियाबाद, विजियाबाद, विजियाबाद, विजियाबाद, विज् के प्राधिकृत अधिन विंक के प्राधिकृत अधिन के के प्राधिकृत अधिन म्यत्तियों का विवरण नाम (सम्पत्तियों व किं7, मूतल, ओल्ड 158 क 99.50 वर्ग गज अर्थ विंत, मूतल, ओल्ड 158 क 99.50 वर्ग गज अर्थ विंत, मूतल, ओल्ड 158 क 99.50 वर्ग गज अर्थ वेंस और नाली खरंजा, का मकान 1, तृतीय तल, (बिना छल् त, बेन्नफल 41.80 वर्ग प रोड, उत्तर में – 30' चौर बी, तुराब नगर, गाजिय ख में – अन्य की सम्पत्ति बी, तुराब नगर, गाजिय के नाम पर है। चौह दि नं. 5 / 541	मेटेड, 16/12, दूसरी मंजिल, र इस्ता/— प्राधिकृत अधिकार , OO1, b.co.in चल सम्पत्तियों के विक्रय कारी द्वारा लिया गया है, को ' ण — के बंधककती) 5, खसरा नं. 976, पूर्वा इस्म 0 वर्ग मी., ति 83.20 वर्ग मी., यह सम्पत्ति पश्चिम में – राम चंदर का म त के अधिकार के) सीधे हाथ व मी., यह सम्पत्ति निर्मला पुत्र ब ही रोड, दक्षिण में – ठाकुर दान गबाद, यू.पी. में स्थित, क्षेत्रफल ते, पश्चिम में – 20फीट चौड़ी ! 192, तुराब नगर, पूर्वा इस्माः सरवती अग्रवाल और राहुल अ रोड, दक्षिण में – ठाकुर दास ! 192, तुराब नगर, पूर्वा इस्माः सरवती अग्रवाल और राहुल अ रोड, दक्षिण में – ठाकुर दास	डक्यू .ई.ए, आर्य समाज र दे, कृते जना स्मॉल फाइन देतु इं — नीलामी विक्र "जहाँ है, जैसा है और ज मइल खान तुराव नगर त प्रमात गुप्ता और पूनम कान, उत्तर में — नेहरू की तरफ, प्लॉट नं. 192, मबू लाल के नाम पर है। स गुलाटी का मकान की तरफ, प्लॉट नं. 192, मबू लाल के नाम पर है। स गुलाटी का मकान की तरफ, प्लॉट नं. 192, मबू लाल के नाम पर है। स गुलाटी का मकान पाजियाबाद — 201010 में 537, पश्चिम में — प्लॉट नं. धरा गाजियाबाद उ.प्र. में 0, पश्चिम में — प्लॉट नं.	स किए गए सभी रोड, करोल बाग, नेस बंक लिमिटेड सतस्पतियों क देतु दिद्वी सतस्पतियों क देतु दिद्वी सतस्पतियों क देतु दिद्वी (A) आरक्षित मूल्य (B) ईएमडी (C) बोली वृद्धि राशि (C) बोली वृद्धि राशि (C) रु. 10,000/- (A) रु. 12.92 लाख (B) रु. 1.31 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 12.92 लाख (B) रु. 1.30 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 12.92 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 15.30 लाख (B) रु. 1.53 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 22.15 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 21.46 लाख (B) रु. 2.15 लाख (C) रु. 10,000/-	दिनंक 18/10/20 वायालय की मुद्रा वि ति ि ति ि द्राट्य जाएगा । वय नी लामी की तिथि एवं समय 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अपांइ 04.00 बजे 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अपांइ 04.00 बजे	 से जारी किया गया। आयुक्त बेलासपुर संभाग लासपुर (छ.ग.) ोेट्टाटनी प्रतिभूति लेनवार के संज्ञान में ऋण भारों का विवरण ज्ञात नहीं
अ स स्थ ति आम कर्जव कर्जव कर्जव कर्जव कर्जव कर्ज द 1 1 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8	मति पर उपस्थित किसी चल आरितयों, चंदि कोई हो, की बिक्री तान : गाजियाबाद थि : 30.10.2023	ते का कोई अधिकार नहीं है। आईडीएफसी (पूर्व का कैपि (पूर्व का कैपि कि कि क	प्राधिकृत अधिकारी फर्स्ट बैंक लिमिटेड प्रटल फर्स्ट लिमिटेड) Doction b nation b nation क के साथ पठित वित्तीय ग्रीतमूत लेनदार के पास यंधय (E) सरफासी अधिनियम 2003 (G) मांग सूचन (H) कब्जा की स्थिति (((G) रू. 49,99,595 (G) रू. 20,49,865 (G) रू. 20,49,865 (G) रू. 20,49,865 (C) (C) (C) (C) (C) (C) रू. 20,49,865 (C)	लागतों, शुल्कों और खर्यों के स पत्राचार का पताः श्री राकेश श दिल्ली–110005, दिनांक: 31.10.2023, स्थानः गां तिविम 2002 की घारा 13(2) क मांग सूचना की तिथि 2 की बारा 13(4) के संतर्गत कब्जा क ना के अनुसार बकाया राशि 1 सांकेतिक / भौतिक / रचना E) 13.01.2017 F) 01.05.2017 9/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.01.2017 F) 22.09.2017 3/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.01.2017 F) 24.04.2023 4.1 + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.10.2016 F) 09.03.2017 D/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.10.2016 F) 09.03.2017 D/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.10.2016 F) 15.12.2018 1/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.10.2016 F) 15.12.2018 1/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.10.2016 F) 15.12.2018	थ उपरोक्त बकाया राशि जमा करके ऊपर त, मो. नं.7230070463, ईमेल: rakesh.sha जयावाद मण्ड केफो—13, मो. : 997113 ण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हि वास्तायिक कब्जा(नीये वर्णित अनुसार). प्र सम्पत्तियों की बिक्री की अनुस् रिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुस् रिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुस् त्रिविधि सम्पत्ति का वह समस्त भाग विला—कैला, परगना—लोनी पुराना प्लॉट नं.–155 पर नि गुप्ता के नाम पर है । चौहदी कॉरपोरेट सोसाइटी लि. गा सम्पत्ति का वह समस्त भाग पूर्वा इस्माईल खान, तुराब न चौहदी : पूरब में – 12' चौड़ी सम्पत्ति का वह समस्त भाग प्रवी इस्माईत खान, तुराब न चौहदी : पूरब में – 12' चौड़ी सम्पत्ति का वह समस्त भाग अधिकार के, गाजियाबाद, यु चौहदी : पूरब में – 12 चौड़ी सम्पत्ति का वह समस्त भाग सिम्पत्ति का वह समस्त भाग सिम्पत्ति का वह समस्त भाग सियत, कवर्ड क्षेत्रफल 41.54 वर्ग ५ / 128, उत्तर में – 6 मी. च सम्पत्ति का वह समस्त भाग स्थित, क्षेत्रफल 67.22 वर्ग में बी./ 860, उत्तर में – 6 मी. च	र उल्लिखित प्रतिभूति संपत्तियों क ma02@janabank.com, जना स कविनगर, गाजिय कविनगर, गाजिय कविनगर, गाजिय कविनगर, गाजिय कविनगर, गाजिय हत का प्रवर्तन अधिनियम, : विभूत लेनदार पंजाव नेशनल द्वी अचल सम बंधक / स्वामी के प्रवं अशं जोकि पलैट नं. 167 मेत, नया प्लॉट नं. 167 क्षेत्रफल पूरव में – सदर दरवाजा हाउ जेयाबाद, दक्षिण में – कुडे मल एवं अशं जोकि फलैट नं. एफ–1 गर, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित गली, पश्चिम में – 40' चौडी से एवं अशं जोकि फलैट नं. एफ 2 रूप प्रवं अशं जोकि फलैट नं. एफ 2 रूप एवं अशं जोकि फलैट नं. एफ 2 रूप एवं अशं जोकि फलैट नं. एफ 2 रूप एवं अशं जोकि फलैट नं. एफ 2 रूप प्रवं अशं जोकि फलैट नं. एफ 2 रूप प्रवं अशं जोकि फलैट नं. 5/52 र्ग मी., यह सम्पत्ति अवधेश कुमार : चौड़ी सडक, दक्षिण में – प्लॉट एवं अशं जोकि फलैट नं. 5/12 मी., यह सम्पत्ति आकंद्र कुमार : - 5/106, दक्षिण में – 6 मी.	को भुनाया जाता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमि जियाबाद, विजियाबाद, विजियाबाद, विजियाबाद, विजियाबाद, विजियाबाद, विज् के प्राधिकृत अधि विज, मूतल, ओल्ड 158 रत, कवर्ड क्षेत्रफल 32.5 रूल 99.50 वर्ग गज अर्था उस और नाली खरंजा, का मकान 1, तृतीय तल, (बिना छर त, क्षेत्रफल 41.80 वर्ग न रोड, उत्तर में – 30' चौर बी, तुराब नगर, गाजिय रब में – अन्य की सम्पत्ति सं के नाम पर है। चौह दि नं. 5 / 541 129, मूतल, मोहन मीकि रं के नाम पर है। चौह दि नं. 5 / 541 129, मूतल, मोहन मीकि रं के नाम पर है। चौह दि नं. 5 / 541	मेटेड, 16/12, दूसरी मंजिल, ब डफ्ता/- प्राधिकृत अधिकार , 001, b.co.in चल सम्पत्तियों के विक्रय कारी द्वारा लिया गया है, को ' ण के बंधककती) 5, खसरा नं. 976, पूर्वा इस्म क बंधककती) 5, खसरा नं. 976, पूर्वा इस्म त के अधिकार के) सीधे हाथ व मी., यह सम्पत्ति निर्मला पुत्र ब पश्चिम में - राम चंदर का म त के अधिकार के) सीधे हाथ व मी., यह सम्पत्ति निर्मला पुत्र ब ही रोड, दक्षिण में - ठाकुर दास स्वती अग्रवाल और राहुल अ रोड, दक्षिण में - ठाकुर दास रो. पश्चिम में - २०फीट चौड़ी 192, तुराब नगर, पूर्वा इस्मा स्रिकार सहित, राज अपार्टमेंट क्षे सेपायटी सेक्टर-5 वसुन्धरा ग ही : पूरब में - प्लॉट नं. 5/5 न सोसायटी सेक्टर-5 वसुन्धरा ग ही : पूरब में - प्लॉट नं. 5/130	डब्ल्यू .ई.ए, आर्य समाज र र), कृते जना स्पॉल फाइन दोटाटा देतु ई—नीलामी विक्र "जहाँ है, जैसा है और ज ताइल खान तुराव नगर त प्रमात गुप्ता और पूनम कान, उत्तर में – नेहरू की तरफ, प्लॉट नं, 192, बबू लाल के नाम पर है। स गुलाटी का मकान की तरफ, प्लॉट नं, 192, बबू लाल के नाम पर है। स गुलाटी का मकान व 43.47 वर्ग मी. (52 वर्ग ते रोड, उत्तर में – सुरेश इंल खान, बिना छत के अग्रवाल के नाम पर है। युलाटी का मकान पाजियाबाद—201010 में 537, पश्चिम मे – प्लॉट नं, धरा गाजियाबाद उ.प्र. में , पश्चिम में – प्लॉट नं, 2 सेब्बनपुरा ग्राम–घूकना, इंदी: पूरब में – मूल चंद	रा किए गए सभी रोड, करोल बाग, रे के को लिमिटड का नि आज एवं न्य आज एवं न्य किए गो हे के आधार प राउटपत्ति टो लि हेतु विक्री हेतु विक्री हेतु विक्री हेतु विक्री हेतु विक्री हे के य नोटिस, नो कुछ भी है के आधार प (A) आरक्षित मूल्य (B) ईएमडी (C) बोली वृद्धि राशि (C) के 10,000/- (C) के 10,000/-	दिनांक 18/10/20 वायालय की मुद्रा वि	 से जारी किया गया। आयुक्त बेलासपुर संभाग लासपुर (छ.ग.) ोेट्टाटनी प्रतिभूति लेनवार के संज्ञान में ऋण भारों का विवरण ज्ञात नहीं
अ स स्थ ति आम कर्जा कर्ज स 1 2 3 3 4 4 5 6 7 8	मति पर उपस्थित किसी चल आरितयों, यदि कोई हो, की बिक्री तान : गाजियाबाद थि : 30.10.2023	ते का कोई अधिकार नहीं है। आईडीएफसी (पूर्व का कैपि) (पूर्व का कैपि) कि कि प्रिय्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुव ह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचन सम्पतियां जो प्र 1 विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार का नाम का नाम खाते का नाम एवं पता (ही 613300) पुराना 155. खसरा नं. 976 पुरवा इस्माइल खान तुरव नगर ही(613300)) निवासी-एफ-277. तीसरी मंजिल दाहिनी ओर प्लॉट नंबर ही(613300) एकती) निवासी मकान नं. 193–बी तुराब नगर गाजियाबाद कती, निवासी मकान नं. 193–बी तुराब नगर पाजियाबाद कती, निवासी मकान नं. 193–बी तुराब नगर गाजियाबाद हो(613300) हे एफ 2 तृतीय तल. प्लॉट नं. 192 तुराब नगर पूर्वा इस्माइल जरिया गाजियाबाद यू.पी. ही(613300) कॉट नं. 5 / 538, प्रथम तल सेक्टर–5 वसुन्धरा गाजियाबाद । तिवारी, निवासी-आर–4/41 वी ब्लॉक आर 4 मोहन गार्डन ही(613300) 5 / 129. भूतल. मोहन मीकिन सोसायटी सेक्टर–5 वसुंघरा प्रसाद (गार्रटर) निवासी–6 / 637. जी 3 सेक्टर–6 वैद्याली दी(613300) अर्वना जैन पत्नी रव. रवि कुमार जैन निवासी फ्लेट नं. 302. स्थ निवासी 21 / 7 लेयर कॉलोनी, लाल क्यार्टर गाजियाबाद ही (613300) की न्यारी 21 / 7 लेयर कॉलोनी, लाल क्यार्टर गाजियाबाद ही (613300) की न्यार कराके नगर गाजियाबाद यू.पी.	प्राधिकृत अधिकारी फर्स्ट बैंक लिमिटेड Azer फर्स्ट लिमिटेड Ab nation the name you क के साथ पठित वित्तीय यतिमूत लेनदार के पास बंधव (E) सरफासी अधिनियम 2002 (G) मांग सूचन् (H) कब्जा की स्थिति (E) सरफासी अधिनियम 2002 (G) मांग सूचन् (H) कब्जा की स्थिति (G) ए. 49,99,595 (G) ए. 20,49,865 (G) ए. 20,63810 (G) ए. 20,93,82 (G) ए. 22,28,021	लागतों, शुल्कों और खर्यों के स पत्राचार का पताः श्री राकेश श दिल्ली–110005, दिनांक: 31.10.2023, स्थानः गां तियम 2002 की घारा 13(2) क मांग सूचना की तिथि 2 की घारा 13(4) के संतर्गत कब्जा व ना के अनुसार बकाया राशि 1 सांकेतिक / भौतिक / रचना E) 13.01.2017 F) 01.05.2017 9/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.01.2017 F) 22.09.2017 3/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.01.2017 F) 24.04.2023 41 + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 18.04.2017 F) 24.04.2023 41 + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.10.2016 F) 09.03.2017 D/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.10.2016 F) 09.03.2017 D/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) भौतिक E) 18.04.2017 F) 29.07.2017 1/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) भौतिक E) 18.04.2017 F) 29.07.2017 1.21 + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.10.2016 F) 09.03.2017 1/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.10.2016 F) 09.03.2017	थ उपरोक्त बकाया राशि जमा करके ऊपर मिं, मो. नं.7230070463, ईमेल: rakesh.sha प्रयादाद मिंग्रेड करेजे—13, मो. : 997117 ण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हि वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्र रसम्पत्तियों की बिक्री की अनुस् रसम्पत्तियों की बिक्री की अनुस् रसम्पत्तियों की बिक्री की अनुस् सम्पत्ति का वह समस्त भाग विला—कैला, परगना—लोनी पुराना प्लॉट नं.—155 पर नि गुराना प्लॉट नं.—155 पर नि गुराना प्लॉट नं.—155 पर नि गुराना के नाम पर है। चौहदी कॉरपोरेट सोसाइटी लि. गार् सम्पत्ति का वह समस्त भाग पूर्वा इस्माईल खान, तुराब न चौहदी: पूरव में — 12' चौडी सम्पत्ति का वह समस्त भाग गज) यह सम्पत्ति सुनील कुम् का मकान, दक्षिण में — मन्दि सम्पत्ति का वह समस्त भाग अधिकार के, गाजियाबाद, य चौहदी: पूरव में — 12 चौडी सम्पत्ति का वह समस्त भाग स्विरुदा, कवर्ड क्षेत्रफल 45 वर्म नं. 5 / 539, उत्तर में — 6 मी. सम्पत्ति का वह समस्त भाग स्थित, क्षेत्रफल 67.22 वर्ग में बी / 860, उत्तर में — 6 मी. च सम्पत्ति का वह समस्त भाग	र उल्लिखित प्रतिभूति संपत्तियों क ma02@janabank.com, जना स कविनगर, गाजिय 720088, ई—मेलः त का प्रवर्तन अधिनियम, ग्रेतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल द्वी अचल सम बंधक / स्वामी के त एवं अशं जोकि फ्लैट नं. १७ गाजियाबाद–2013001 में स्थित मिंत, नया प्लॉट नं. १६७ बेन्नल प्रव में – सदर दरवाजा हाउ जेयाबाद, दक्षिण में – कुडे मल एवं अशं जोकि फ्लैट नं. १७ गली, पश्चिम में – 40' चीडी रो एवं अशं जोकि फ्लैट नं. एफ न् गली, पश्चिम में – 40' चीडी रो एवं अशं जोकि फ्लैट नं. एफ 2 रूप एवं अशं जोकि फ्लैट नं. एफ 2 रूप रवं अशं जोकि फ्लैट नं. १७ रवं अशं जोकि फ्लैट नं. ३० रि मी., यह सम्पत्ति लोकोंक कु को रवं अशं जोकि फ्लैट नं. ३० रवं अशं जोकि फ्लैट नं. ३०	को भुनाया जाता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमि जियाबाद, विजियाबाद, विजियाबाद, विजियाबाद, विजियाबाद, विजियाबाद, विज् के प्राधिकृत अधि विज, मूतल, ओल्ड 158 रत, कवर्ड क्षेत्रफल 32.5 रूल 99.50 वर्ग गज अर्था उस और नाली खरंजा, का मकान 1, तृतीय तल, (बिना छर त, क्षेत्रफल 41.80 वर्ग न रोड, उत्तर में – 30' चौर बी, तुराब नगर, गाजिय रब में – अन्य की सम्पत्ति सं के नाम पर है। चौह दि नं. 5 / 541 129, मूतल, मोहन मीकि रं के नाम पर है। चौह दि नं. 5 / 541 129, मूतल, मोहन मीकि रं के नाम पर है। चौह दि नं. 5 / 541	मेटेड, 16/12, दूसरी मंजिल, ब डफ्ता/- प्राधिकृत अधिकार , 001, b.co.in चल सम्पत्तियों के विक्रय कारी द्वारा लिया गया है, को ' ण के बंधककती) 5, खसरा नं. 976, पूर्वा इस्म क बंधककती) 5, खसरा नं. 976, पूर्वा इस्म त के अधिकार के) सीधे हाथ व मी., यह सम्पत्ति निर्मला पुत्र ब पश्चिम में - राम चंदर का म त के अधिकार के) सीधे हाथ व मी., यह सम्पत्ति निर्मला पुत्र ब ही रोड, दक्षिण में - ठाकुर दास स्वती अग्रवाल और राहुल अ रोड, दक्षिण में - ठाकुर दास रो. पश्चिम में - २०फीट चौड़ी 192, तुराब नगर, पूर्वा इस्मा स्रिकार सहित, राज अपार्टमेंट क्षे सेपायटी सेक्टर-5 वसुन्धरा ग ही : पूरब में - प्लॉट नं. 5/5 न सोसायटी सेक्टर-5 वसुन्धरा ग ही : पूरब में - प्लॉट नं. 5/130	डब्ल्यू .ई.ए, आर्य समाज र र), कृते जना स्पॉल फाइन दोटाटा देतु ई—नीलामी विक्र "जहाँ है, जैसा है और ज ताइल खान तुराव नगर त प्रमात गुप्ता और पूनम कान, उत्तर में – नेहरू की तरफ, प्लॉट नं, 192, बबू लाल के नाम पर है। स गुलाटी का मकान की तरफ, प्लॉट नं, 192, बबू लाल के नाम पर है। स गुलाटी का मकान व 43.47 वर्ग मी. (52 वर्ग ते रोड, उत्तर में – सुरेश इंल खान, बिना छत के अग्रवाल के नाम पर है। युलाटी का मकान पाजियाबाद—201010 में 537, पश्चिम मे – प्लॉट नं, धरा गाजियाबाद उ.प्र. में , पश्चिम में – प्लॉट नं, 2 सेब्बनपुरा ग्राम–घूकना, इंदी: पूरब में – मूल चंद	स केए गए सभी रोड, करोल बाग, जेस बेक लिगिटेड टेटु टिटट्री टेटु टिटट्री टेटु टिटट्री टेटु टिटट्री टेटु टिटट्री टेटु टिटट्री टेटु टिटट्री टेट् ट टिस् टेट् ट टिस् टेट् ट टिस् टेट् ट टिस् टेट् ट टेट् टेट् ट टेट टेट् ट टेट् टेट् ट टेट टेट् ट टेट टेट् ट टेट टेट् टेट्	दिनंक 18/10/20 पालय की मुद्रा ति ही ईज दूदाजाा र येया जाएगा। यय नीलामी की तिथि एवं समय 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अपॉइ 04.00 बजे 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अपॉइ 04.00 बजे	 से जारी किया गया। आयुक्त बेलासपुर संभाग वासपुर (छ.ग.) ोिटाटनी प्रतिभूति लेनदार के संज्ञान में ऋण भारों का विवरण ज्ञात नहीं
अ स स्थ ति आम कर्जाव कर्जाव कर्ज द 1 2 3 3 4 4 5 6 7 8 8 9	मति भर उपस्थित किसी चल आरितयों, यदि कोई हो, की विक्री तान : गाजियाबाद थि : 30.10.2023	ते का कोई अधिकार नहीं है। आईडीएफसी (पूर्व का कैपि) हिंद (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुव ह नोटिस दिया जाता है कि नीधे वीर्णेत अवल सम्पत्तियां जो प्र 1 विवरण नीधे दी गई तालिका के अनुसार का नाम का नाम का नाम खाते का नाम एवं पता हिंदी 613300 पुराना 155. खसरा नं. 976 पुरवा इस्माइल खान तुरव नगर हिं(613300)) निवासी-एफ-277, तीसरी मंजिल दाहिनी ओर प्लॉट नंबर हिं(613300) रकती निवासी मकान नं. 193–बी तुराब नगर गाजियाबाद निवासी- 11 बी / 161 ने हरू नगर गाजियाबाद किति का आप) निवासी मकान नं. 193–बी तुराब नगर गाजियाबाद किति का नाम एवं पता हों(613300) रकती निवासी मकान नं. 193–बी तुराब नगर पाजियाबाद किति निवासी मकान नं. 193–बी तुराब नगर गाजियाबाद किति का नाम एक नरा ना श्व कि ता का स्वाहन ना सम्प्र हों(613300) हे एफ 2 तृतीय तल. प्लॉट नं. 192 तुराब नगर पूर्वा इस्माइल जरिया गाजियाबाद यू.पी. हों(613300) हे न 5 / 538, प्रथम तल सेक्टर–5 वसुधरा गाजियाबाद ह कित्वरी, निवासी-आर–4/41 बी ब्लॉक आर 4 मोहन गार्डन कित्वरी, निवासी-कार–4/41 बी ब्लॉक आर 4 मोहन गार्डन कित्वरी, निवासी-कार–4/41 बी ब्लॉक आर 4 मोहन गार्डन किं(613300) डे / 129, पूतल. मोहन मौकिन सोसायटी सेक्टर–5 वसुंधरा प्रसाद (गारंटर) निवासी–हा तक फॉलोनी, लाल क्यार्टर गाजियाबाद हो (613300) केंदी वित्व का नगर गाजियाबाद यू.पी. केंत्रा ना माहल ना नगर गाजियाबाद यू.पी. केंत्रा ना गत्न नगर गाजियाबाद यू.पी. केंत्रा ना माहला नग गाजियाबाद यू.पी.	प्राधिकृत अधिकारी फर्स्ट बैंक लिमिटेड उटल फर्स्ट लिमिटेड) b national b national b national b national b national b national b national b national b national b national c nationa	लागतों, शुल्कों और खर्यों के स पत्राचार का पताः श्री राकेश श दिल्ली–110005, दिनांकः 31.10.2023, स्थानः गा तियि के जिम्बि य आस्तियों का प्रतिभूतिकप क / प्रभारित है, का सांकेतिक / प्रत्याभूत परि मियम 2002 की घारा 13(2) क मांग सूचना की तिथि 2 की घारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा क ना के अनुसार बकाया राशि 1 सांकेतिक / भौतिक / रमना E) 13.01.2017 F) 01.05.2017 9/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.01.2017 F) 22.09.2017 3/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.01.2017 F) 22.09.2017 3/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.10.2016 F) 09.03.2017 0/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.10.2016 F) 09.03.2017 0/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.10.2016 F) 09.03.2017 0/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.02018 F) 15.12.2018 1/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 18.04.2017 F) 29.07.2017 1.21 + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.10.2016 F) 09.03.2017 1/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 18.04.2017 F) 29.07.2017 1.21 + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 18.03.2018 F) 06.09.2021 1.20 + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 18.03.2019	थ उपरोक्त बकाया राशि जमा करके ऊपर त, मो. नं.7230070463, ईमेल: rakesh.sha त्रियांबाद मण्ड के जो13, मो. : 99717 ण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति दि तास्तविक कब्जा(नीये वर्णित अनुसार). प्र रसम्पत्ति की बिक्री की अनुस् रसम्पत्ति की बिक्री की अनुस् के तिथि त्रिथि सम्पत्ति का वह समस्त भाग विलाकैला, परगनालोनी पुराना प्लॉट नं155 पर नि गुपाना प्लॉट नं155 पर नि गुपाना प्लॉट नं155 पर नि गुपाना प्लॉट नं155 पर नि गुपाना प्रतंट सोसाइटी लि. गाति सम्पत्ति का वह समस्त भाग पूर्वा इस्माईल खान, तुराब न चीहदी : पूरब में – 12' चौड़ी सम्पत्ति का वह समस्त भाग प्रवी इस्माईत खान, तुराब न चौहदी : पूरब में – 12' चौड़ी सम्पत्ति का वह समस्त भाग अधिकार के, गाजियाबाद, य चौहदी : पूरव में – 12 चौड़ी सम्पत्ति का वह समस्त भाग स्थित, कवर्ड क्षेत्रफल 45 वर्ग नं. 5 / 539, उत्तर में – 6 मी. सम्पत्ति का वह समस्त भाग स्थित, क्षेत्रफल 67.22 वर्ग में वी, 860, उत्तर में – 6 मी. च सम्पत्ति का वह समस्त भाग सम्पत्ति का वह समस्त भाग सम्पत्ति का वह समस्त भाग सिथत, क्षेत्रफल 67.22 वर्ग में वी, 860, उत्तर में – 6 मी. च सम्पत्ति का वह समस्त भाग सम्पत्ति का वह समस्त भाग सिथत, क्षेत्रफल 67.22 वर्ग में वी, 860, उत्तर में – 6 मी. च सम्पत्ति का वह समस्त भाग सियत, क्षेत्रफल न.22 वर्ग में वी, संपत्ति, पश्चिम में – रास्	र उल्लिखित प्रतिभूति संपतियों क ma02@janabank.com, जना र कविनगर, गाजिय 720088, ई—मेल: त का प्रवर्तन अधिनियम, यिभूत लेनदार पंजाव नेशनल द्वी अचल सम् बंधक / स्वामी के त एवं अशं जोकि पलैट नं. १६ मति, नया प्लॉट नं. १६७ क्षेत्रफल प्रव में – सदर दरवाजा हाउ जेयाबाद, दक्षिण में – कुडे मल एवं अशं जोकि फलैट नं. एफ–1 गर, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित गली, पश्चिम में – 40' चौडी रो एवं अशं जोकि फलैट नं. एफ 2 रूप एवं अशं जोकि फलैट नं. एफ 2 रूप प्रवं अशं जोकि फलैट नं. एक 2 रूप प्रवं अशं जोकि फलैट नं. एक 2 रूप प्रवं अशं जोकि फलैट नं. एक 2 रूप प्रवं अशं जोकि फलैट नं. प्रव र प्रवं अशं जोकि फलैट नं. रूप र प्रवं अशं जोकि पलैट नं. प्र र प्रवं अशं जोकि पलैट नं. पर योडी सडक, दक्षिण में – प्लॉट गता, यह सम्पत्ति आरुषि जैन के योडी रोड, दक्षिण में – प्लॉट र वं अशं जोकि पलैट नं. 302, ते. यह सम्पत्ति आरुषि जैन के ये की रोड, दक्षिण में – व्र ये की रोड, दक्षिण में – व्र र वे अशं जोकि पलैट नं. 302, ते. यह सम्पत्ति आरुषि जैन के य र वे अशं जोकि पलैट नं. 7 बिन् एवं अशं जोकि पलैट नं. 7 बिन पर्व अंश जोकि पलैट नं. 7 बिन	को भुनाया जाता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमि जिट या बा द , पाबा द — 2010 cs8228@pnt 2002 के अधीन अप वैंक के प्राधिकृत अधिव वैंक के प्राधिकृत अधिव वैंक के प्राधिकृत अधिव विं7, मूतल, ओल्ड 158 रत, कवर्ड क्षेत्रफल 32.51 रत, कवर्ड क्षेत्रफल 41.80 वर्ग य रोड, उत्तर में — 30' चौर बी, तुराब नगर, गाजिय रब में — अन्य की सम्पत्ति को, युराब नगर, गाजिय रव में — अन्य की सम्पत्ति वी, तुराब नगर, गाजिय रव में — अन्य की सम्पत्ति वी, तुराब नगर, गाजिय रव में — अन्य की सम्पत्ति वी, यह सम्पत्ति का क्षेत्र र तृतीय तल, छत के अ जाम पर है। चौहदी: पूर 2 वी/ 860 223 (पुराना नंबर 469 व ो, यह सम्पत्ति का शेव भा में — संपत्ति का शेव भा में — संपत्ति का शेव भा	मेटेड, 16/12, दूसरी मंजिल, र इस्ता/— प्राधिकृत अधिकार , 001, b.co.in चल सम्पत्तियों के विक्रय कारी द्वारा लिया गया है, को प — के बंधककर्ता) 5, खसरा नं. 976, पूर्वा इस्म 0 वर्ग मी., ति 83.20 वर्ग मी., यह सम्पत्ति पश्चिम में – राम चंदर का म त के अधिकार के) सीधे हाथ व मी., यह सम्पत्ति निर्मला पुत्र ब ही रोड, दक्षिण में – वाकुर दान गवाद, यू.पी. में स्थित, क्षेत्रफल ते, पश्चिम में – 20फीट चौड़ी 192, तुराब नगर, पूर्वा इस्माः स्रवती अग्रवाल और राहुल अ रोड, दक्षिण में – वाकुर दास त. को सं क्लर – 5 वसुन्धरा ग ही : पूरब में – प्लॉट नं. 5/5 न सोसायटी सेक्टर – 5 वसुन्धरा ग ही : पूरब में – प्लॉट नं. 5/5 न सोसायटी सेक्टर – 5 वसुन्धरा ग ही : पूरब में – प्लॉट नं. 5/130 शिकार सहित, राज अपार्टमेंट (य में – प्लॉट नं. 2वी / 862, प् और 447) से मिलकर, मो. सि व अग्रवाल के नाम पर है, चौह (ग, दक्षिण में – खेमचंद की सं	डब्ल्यू .ई.ए, आर्य समाज स रे, कृते जना स्मॉल फाइन रे कुते जना स्मॉल फाइन रे कुतु ई—नीलामी विक्र "जहाँ है, जैसा है और ज त इस खान तुराव नगर त प्रमात गुप्ता और पूनम कान, उत्तर में — नेहरू की तरफ, प्लॉट नं, 192, बबू लाल के नाम पर है। स गुलाटी का मकान त 43.47 वर्ग मी. (52 वर्ग ते रोड, उत्तर में — सुरेश इंल खान, बिना छत के अग्रवाल के नाम पर है। स गुलाटी का मकान पाजियाबाद—201010 में 537, पश्चिम में — प्लॉट धरा गाजियाबाद उ.प्र. में 0, पश्चिम में — प्लॉट नं. 2 सेब्बनपुरा ग्राम—घूकना, हरी: पूरव में — मूल चंद पत्ति इमारत) प्लॉट नं. 2	स केए गए सभी रोड, करोल बाग, तेस बेक सिमिटेड का नि आज एवं न्ट आज एवं न्ट आज एवं न्ट का के के सिमिटेड सरस्पत्ति टा लि टा हेतु टिट्र् टिट्र् हेतु टिट्र् टि हेतु टिट्र् टि हेतु टिट्र् टि हेतु टिट्र् हेतु टिट्र् हेतु टिट्र् हेतु टिट्र् हेतु टिट्र् हेतु टिट्र् हेतु टिट्र् हेतु टिट्र् हेतु टिट्र् हे (A) जर रि त् (B) रु रे उ) जाख (B) रु रे उ) लाख (B) रु रे उ) लाख (B) रु रे उ) लाख (B) रु रे उ) लाख (C) रु रे 0,000/- (C) रु रे 10,000/- (C) रु रे रे रे लाख (C) रु रे रे रे लाख (C) रु रे रे रे लाख (C) रु रे रे रे लाख (C) रु रे रे रे रे रे लाख (C) रु रे रे रे लाख (C) रु रे रे रे रे लाख	दिनांक 18/10/20 वायालय की मुद्रा ति ही ईज द्यूटा जाा र वेचा जाएगा 1 वय नीलामी की तिथि एवं समय 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अर्पाइ 04.00 बजे 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अर्पाइ 04.00 बजे	 से जारी किया गया। आयुक्त बेलासपुर संभाग वासपुर (छ.ग.) ोिटाटनी प्रतिभूति लेनदार के संज्ञान में ऋण भारों का विवरण ज्ञात नहीं
अ स स् ति	मति भर उपस्थित किसी चल आरितयों, यदि कोई हो, की बिक्री तान : गाजियाबाद थि : 30.10.2023	ते का कोई अधिकार नहीं है। आईडीएफसी (पूर्व का केपि) कि का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुब हनेदिस दिया जाता है कि नैधे वर्णित अचल सम्पतियां जो प्र 1 विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार का नाम का नाम खो ते का नाम एवं पता की का नाम खोत का नाम एवं पता की का का नाम एवं पता की का नाम खोत का नाम एवं पता की का नाम का नाम का नाम खोत का नाम एवं पता की का नाम की का नाम का नाम की का नाम की का नाम की का नाम का नाम की	प्राधिकृत अधिकारी फर्स्ट बैंक लिमिटेड उटल फर्स्ट लिमिटेड) 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	लागतों, शुल्कों और खर्यों के स पत्राचार का पताः श्री राकेश श दिल्ली–110005, दिनांक: 31.10.2023, स्थानः गा AGE Dan U can BANK upon य आस्तियों का प्रतिभूतिकर क / प्रमारित है, का सांकेतिक / प्रत्याभूत पति वियम 2002 की धारा 13(2) क मांग सूचना की तिथि 2 की घारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा क ना के अनुसार बकाया राशि 7 सांकेतिक / भौतिक / रचना ह) 13.01.2017 (F) 01.05.2017 9/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 13.01.2017 (F) 22.09.2017 3/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 13.01.2017 (F) 24.04.2023 .41 + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 13.10.2016 (F) 09.03.2017 0/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 13.10.2018 7) - + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 13.10.2017 7) - म व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 13.10.2017 7) - 1 - म व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 13.10.2017 7) - 1 - म व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 13.10.2017 7) - 1 - म व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 13.10.2017 7) - 1 - म व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 13.10.2017 7) - 1 - म व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 13.10.2017 7) - 1 - म व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 18.03.2019 7) - 16 न्याज 7) - 16 न्याज 7) - 17 - न न न न न प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक	थ उपरोक्त बकाया राशि जमा करके ऊपर मिण्ड कियावाद मिण्ड कियो-ने3, मो. : 99713 ण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हि वस्तविक कब्जा(नीवे वर्णित अनुसार). प्र सम्पत्तियों की बिक्री की अनुस् कियि सम्पत्ति का वह समस्त भाग विला-कैला, परगना-लोनी पुराना प्लॉट नं.–155 पर नि गुरता के नाम पर है। चौहरी कॉरपोरेट सोसाइटी लि. गाति सम्पत्ति का वह समस्त भाग पूर्वा इस्माईल खान, तुराब न चौहदी: पूरब में – 12' चौड़ी कॉरपोरेट सोसाइटी लि. गाति सम्पत्ति का वह समस्त भाग पूर्वा इस्मार्द्त का वह समस्त भाग पूर्वा इस्मार्द्त का वह समस्त भाग पूर्वा इस्मार्द्त का वह समस्त भाग सम्पत्ति का वह समस्त भाग सम्पत्ति का वह समस्त भाग सम्पत्ति का वह समस्त भाग सिंधत, कवर्ड सेत्रफल 41.54 वर्ग ५ / 128, उत्तर में – 6 मी. सम्पत्ति का वह समस्त भाग स्थित, क्षेत्रफल 67.22 वर्ग में वी त्यी / 860, उत्तर में – 6 मी. च सम्पत्ति का वह समस्त भाग सिंधत, क्षेत्रफल 67.22 वर्ग में वी, यह सम्पत्ति का वह समस्त भाग सिंधत, का वह समस्त भाग सिंधत, योत का वह समस्त भाग सिंधत, वेत्रफल ती. 54 वर्ग ५ / 128, उत्तर में – 6 मी. च सम्पत्ति का वह समस्त भाग सिंधत, धेत्रफल ती. वर्ग सम्पत्ति का वह समस्त भाग सिंधत, धेत्रफल ती. वरा व सम्पत्ति का वह समस्त भाग सिंधत, धेत्रफल ती. वरा न सम्यत्ति का वह समस्त भाग	र उल्लिखित प्रतिभूति संपतियों क ma02@janabank.com, जना र कविनगर, गाजिय कविनगर, गाजिय 720088, ई—मेल: त का प्रवर्तन अधिनियम, यिभूत लेनदार पंजाव नेशनल द्वी अचल सम् बंधक / स्वामी के त एवं अशं जोकि पलैट नं. १६ माजियाबाद-2013001 में स्थित भूरव में – सदर दरवाजा हाउ जेयाबाद, दक्षिण में – कुडे मल एवं अशं जोकि फलैट नं. १७–1 गर, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित गली, पश्चिम में – 40' चौडी रो एवं अशं जोकि फलैट नं. १७ 2 रूप एवं अशं जोकि फलैट नं. एफ 2 रूप एवं अशं जोकि फलैट नं. एफ 2 रूप एवं अशं जोकि फलैट नं. १७ 3 ते ते नाम पर है। चौहदी : पूरव र एवं अशं जोकि फलैट नं. १७ 2 रूप एवं अशं जोकि फलैट नं. १७ 2 रूप प्रवं अशं जोकि फलैट नं. १७ 3 ते ते नाम पर है। चौहदी : पूरव र प्रवं अशं जोकि फलैट नं. १७ 3 ते ते स्वा जोकि मकान नं. 5/12 मी, यह सम्पत्ति आरुषि जैन के ते ही रोड, दक्षिण में – ५नॉट , प्रवं अशं जोकि मकान नं. 5/12 मी, यह सम्पत्ति आरुषि जैन के ते ही रोड, दक्षिण में – ७नॉट नं. एवं अशं जोकि मकान नं. 5/12 मी, यह सम्पत्ति आरुषि जैन के ते ही रोड, दक्षिण में – ७नॉट नं.	को भुनाया जाता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमि म्याजि फाइनेंस बैंक लिमि टड8228@pnt 2002 के अधीन अप वैंक के प्राधिकृत अधिक वैंक के प्राधिकृत अधिक म्यत्तियों का विवरण नाम (सम्पत्तियों व कि7, मूतल, ओल्ड 156 ात, कवर्ड क्षेत्रफल 32.51 ज्व 99.50 वर्ग गज अर्था उस और नाली खरंजा, का मकान 1, तृतीय तल, (बिना छल् त, क्षेत्रफल 41.80 वर्ग म रोड, उत्तर में – 30' धौर बी, तुराब नगर, गाजिय रब में – आन्य की सम्पत्ति स्व में – आन्य की सम्पत्ति स्व में – आन्य की सम्पत्ति इ38, प्रथम तल प्लॉट नं वर्ग मी, यह सम्पत्ति स ाढ, उत्तर में – 30' धौर के नाम पर है। चौहदी टंट नं. 5 / 541 129, मूतल, मोहन मीकि के नाम पर है। चौहदी देव ये हे जि के अ नाम पर है। चौहदी प्र के नाम पर है। चौहदी व्ये (पुराना नंबर 469 क नाम पर है। चौहदी प्र के नाम पर के अधिकार के म	मेटेड, 16/12, दूसरी मंजिल, र इस्ता/— प्राधिकृत अधिकार , OO1, b.co.in चल सम्पत्तियों के विक्रय कारी द्वारा लिया गया है, को ' प — के बंधककती) 5, खसरा नं. 976, पूर्वा इस्म 0 वर्ग मी., ति 83.20 वर्ग मी., यह सम्पत्ति पश्चिम में – राम चंदर का म त के अधिकार के) सीधे हाथ व मी., यह सम्पत्ति निर्मला पुत्र ब ही रोड, दक्षिण में – ठाकुर दास स्वती, अग्रवाल और राहुल अ र रोड, दक्षिण में – ठाकुर दास र पश्चिम में – 20फीट चौड़ी 192, तुराब नगर, पूर्वा इस्माः रस्वती अग्रवाल और राहुल अ र रोड, दक्षिण में – ठाकुर दास त. पश्चिम में – टाकुर दास र राहे, दक्षिण में – ठाकुर दास स्वा: पूरब में – प्लॉट नं. 5/5 न सोसायटी सेक्टर–5 वसुन्धरा ग ही : पूरब में – प्लॉट नं. 5/5 न सोसायटी सेक्टर–5 वसुन्धरा ग ही : पूरब में – प्लॉट नं. 5/5 जीर 447) से मिलकर, मो. सि व अग्रवाल के नाम पर है, चौह ग. दक्षिण में – खेमचंद की सं	डब्ल्यू .ई.ए, आर्य समाज स रे, कृते जना स्मॉल फाइने रे कृते इं-नीलामी विक्र 'जहाँ है, जैसा है और ज विक्र इं. जैसा है और ज विक्र वान तुराव नगर ते प्रभात गुप्ता और पूनम कान, उत्तर में – नेहरू की तरफ, प्लॉट नं. 192, बब्र लाल के नाम पर है। स गुलाटी का मकान व 43.47 वर्ग मी. (52 वर्ग दे रोड, उत्तर में – सुरेश इंल खान, बिना छत के अग्रवाल के नाम पर है। (गुलाटी का मकान गाजियाबाद-201010 में 537, पश्चिम में – प्लॉट नं. वरा गाजियाबाद उ.प्र. में 0, पश्चिम में – प्लॉट नं. द. गाजियाबाद, यू.पी. मे पश्चिम में – प्लॉट नं. 2 सेब्बनपुरा ग्राम–घूकना, हंग पूरब में – मूल चंद गिलता इमारत) प्लॉट नं. वर्वे क्षेत्रफल 42.00 वर्ग	रा किए गए सभा रोड, करोल बाग, लेस बेक कॉकोम्टेड का नि आज एवं न्ह कार बेक कॉकोम्टेड राउटपत्ति टा लि हेतु हिट्टांटी व हेतु हिट्टांटी व हेतु हिट्टांटी व हेतु हिट्टांटी व हेतु हिट्टांटी व हेतु हिट्टांटी व हेतु हिएमडी (C) बोली वृद्धि राशि (C) के 13.07 लाख (B) रु 1.30 लाख (B) रु 1.30 लाख (G) रु 10,000/- (C) रु	दिनांक 18/10/20 पालय की मुद्रा ति ही ईज द्रूट्राजा। र येया जाएगा। यय नीलामी की तिथि एवं समय 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अपाइ 04.00 वजे 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अपाइ 04.00 वजे	से जारी किया गया। आयुक्त बेलासपुर संमाग लासपुर (छ.ग.)
अ स स्थ ति आम कर्जव कर्जव कर्जव कर्जव कर्जव कर द 1 2 3 4 4 5 6 7 8 8 9	मति पर उपस्थित किसी चल आरितयों, यदि कोई हो, की बिक्री तान : गाजियाबाद थि : 30.10.2023 पितिभूति तनता को और विशेष रूप से कर्जवार और गारंटर्स को वह त्रार्(गे) और गारंटर(गें). आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का पितिभूति तनता को और विशेष रूप से कर्जवार और गारंटर्स के वह त्रार्(गे) और गारंटर(गें). आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का पितिमंदर्ग पुरास गारंटर्स र शाखा खाते का नामः श्री. निर्मला पुत्री स्व. बाबू लाल (उघारकर्ता) खाते का नामः श्री. निर्मला पुत्री श्री बावू लाल (उघारकर्ता) खाते का नामः श्री. निर्मला पुत्री श्री बावू लाल (उघारकर्ता) खाते का नामः श्री. निर्मला पुत्री श्री बावू लाल (उघारकर्ता) खाते का नामः श्री. निर्मला पुत्री श्री बावू लाल (उघारकर्ता) खाते का नामः श्री. निर्मला पुत्री श्री बावू लाल (उघारकर्ता) 182 तुराब नगर गाजियाबाद उ.प्र. लोहा मं खाते का नामः श्री. स्त्रील कुमार पुत्र दीवान चंद (उघार यूपी–201001, मनीष जैन पुत्र स्व. प्रेम चंद जैन (गारंटर). लोहा मं श्री अवदेश कुमार पुत्र श्री सदाशिव चौरसिया, मकान-प्ल और आवदेश कुमार पुत्र श्री सदाशिव चौरसिया, मकान-प्ल तोहा मं श्री अवदेश कुमार पुत्र श्री सदाशिव चौरसिया, मकान-प्ल तोहा मं श्री अवदेश कुमार पुत्र श्रे राहुल अग्रवाल, निवासी–एलैट नं खान, बिना छत्त के, गाजियाबाद यूपी. <u>श्रीर</u> 6 रेलवे रोड बर लोहा मं श्री कत्व दे कुमार पुत्र श्रे स हर्वीर सिंह, निवासी मकान नं. गाजियावाद लोहा मं श्री तरूण कुमार गोयल पुत्र स्व. रिक्र निवासी मकान नं. गाजियावाद लोहा मं श्री तरूण कुमार गोयल पुत्र स्व. राक्रवता सोयल (गारंट लोहा मं श्री नामव अग्रवाल पुत्र श्री काति प्रसाद अग्रवाल. निवासी: (गारंटर) श्री मुकुल कुमार सुपुत्र सतीश घंद गुप्ता, निवासी संस राखी एंटरग्राइजेज (प्रोप.) श्रीमती राखी पत्नी श्र ७. न्यु पंचवटी गाजियावाव यू भी. सेससं राखी एंटरग्राइजेज (प्रोप.) श्रीमती राखी पत्नी श्री अ 7. न्यू पंचवटी गाजियावा यू भी. सिस नाखी एंटरग्राइजेज (प्रोप.) श्रीमती राखी पत्नी श्री ताजियावाद यू.भी.	ते का कोई अधिकार नहीं है। आईडीएफसी (पूर्व का केंसि) (पूर्व का केंसि) (के (13300)) (पूर्व का केंसि का नगर माजियाबाद यू.पी.) (पूर्व का केंसि कु मार निवासी- जान स्वार्ट मं की- 144 क्तीक कु ज पटेल नगर की (613300) कानि कु मार, निवासी- 105 बाल्मीकि कुंज पटेल नगर	प्राधिकृत अधिकारी फर्स्ट बैंक लिमिटेड Jace फर्स्ट लिमिटेड) b n a b n a b n a b c a c a c c c c c c c c c c	लागतों, शुल्कों और खर्यों के स पत्राचार का पताः श्री राकेश श दिल्ली–110005, दिनांकः 31.10.2023, स्थानः गा तिविध का प्रतिभूतिकर क / प्रभारित है, का सांकंतिक / प्रत्याभूत परि मांग सूचना की तिथि 2 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा क ना के अनुसार बकाया राशि 1 सांकेतिक / भौतिक / रचना E) 13.01.2017 F) 01.05.2017 9/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.01.2017 F) 22.09.2017 3/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.01.2017 F) 22.09.2017 3/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.02016 F) 09.03.2017 0/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.10.2016 F) 09.03.2017 0/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 15.12.2018 1/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 18.04.2017 F) 29.07.2017 1.21 + ब्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 18.04.2017 F) 29.07.2017 1.21 + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.10.2016 F) 09.03.217 7 1/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.02016 F) 09.03.2017 1/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 18.04.2017 F) 29.07.2017 1.21 + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.02016 F) 09.03.2017 1/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.02016 F) 09.03.2017 1/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 18.03.2019 F) 18.07.2019	थ उपरोक्त बकाया राशि जमा करके ऊपर मिण्ड कियावाद मिण्ड कियो-ने3, मो. : 99713 ण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हि वस्तविक कब्जा(नीवे वर्णित अनुसार). प्र सम्पत्तियों की बिक्री की अनुस् कियि सम्पत्ति का वह समस्त भाग विला-कैला, परगना-लोनी पुराना प्लॉट नं.–155 पर नि गुरता के नाम पर है। चौहरी कॉरपोरेट सोसाइटी लि. गाति सम्पत्ति का वह समस्त भाग पूर्वा इस्माईल खान, तुराब न चौहदी: पूरब में – 12' चौड़ी कॉरपोरेट सोसाइटी लि. गाति सम्पत्ति का वह समस्त भाग पूर्वा इस्मार्द्त का वह समस्त भाग पूर्वा इस्मार्द्त का वह समस्त भाग पूर्वा इस्मार्द्त का वह समस्त भाग सम्पत्ति का वह समस्त भाग सम्पत्ति का वह समस्त भाग सम्पत्ति का वह समस्त भाग सिंधत, कवर्ड सेत्रफल 41.54 वर्ग ५ / 128, उत्तर में – 6 मी. सम्पत्ति का वह समस्त भाग स्थित, क्षेत्रफल 67.22 वर्ग में वी त्यी / 860, उत्तर में – 6 मी. च सम्पत्ति का वह समस्त भाग सिंधत, क्षेत्रफल 67.22 वर्ग में वी, यह सम्पत्ति का वह समस्त भाग सिंधत, का वह समस्त भाग सिंधत, योत का वह समस्त भाग सिंधत, वेत्रफल ती. 54 वर्ग ५ / 128, उत्तर में – 6 मी. च सम्पत्ति का वह समस्त भाग सिंधत, धेत्रफल ती. वर्ग सम्पत्ति का वह समस्त भाग सिंधत, धेत्रफल ती. वरा व सम्पत्ति का वह समस्त भाग सिंधत, धेत्रफल ती. वरा न सम्यत्ति का वह समस्त भाग	र उल्लिखित प्रतिमूति संपतियों क ma02@janabank.com, जना र कविनगर, गाजिय 720088, ई—मेल: त का प्रवर्तन अधिनियम, : विभूत लेनदार पंजाव नेशनल दूवी अचल सम् बंधक / स्वामी के प्रिंत नया प्लॉट नं. 167 क्षेत्रफल : पूरव में – सदर दरवाजा हाउ जेयाबाद, दक्षिण में – कुडे मल एवं अशं जोकि फ्लैट नं. एफ–1 गर, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित गली, पश्चिम में – 40' चौडी रो एवं अशं जोकि फलैट नं. एफ 2 रूप प्रव में – सदर है। चौहदी : पू.ख र एवं अशं जोकि फलैट नं. एफ 2 रूप एवं अशं जोकि फलैट नं. रूप र प्रव अशं जोकि फलैट नं. रूप र प्रव अशं जोकि फलैट नं. रूप र प्रव अशं जोकि फलैट नं. इ/12 मी., यह सम्पत्ति आजमे में – प्लॉट र एवं अशं जोकि फलैट नं. का र प्रव अशं जोकि फलैट नं. इ/12 मी., यह सम्पत्ति आजमे जेन के न . च इं राजकि मकान नं. इ/12 मी., यह सम्पत्ति आजमे जेन के न . च इं अंश जोकि फलैट नं. उ/2 र प्रव अशं जोकि मकान नं. इ/12 मी., यह सम्पत्ति आजमे के न . का को के प्रतेह नं. ज . का को के प्रतेह नं. ज . का का कि प्रतेह नं. का . का का का कि प्रतेह नं. ज . का का का कि प्रतेह नं. का . का का का का का का का का का . न का का का कि प्रतेह नं. ज . या का का का का का का का . न का का का का का का का . का का का का का का का का . का का का का का का का का . का का का का का का का . का का का का का का का . का का का का का का का का . का का का का का का का का . का का का का का का . का का का का का का . का का का का का का का . का का का का का का . का का का का का का का . का का का का का का . का का का का का का का . का का का का का का का . का का का का का का . का का का का का का का . का का का का का का . का का का का का का का का . का का . का	को भुनाया जाता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमि म्याजि फाइनेंस बैंक लिमि टड8228@pnt 2002 के अधीन अप वैंक के प्राधिकृत अधिक वैंक के प्राधिकृत अधिक म्यत्तियों का विवरण नाम (सम्पत्तियों व कि7, मूतल, ओल्ड 156 ात, कवर्ड क्षेत्रफल 32.51 ज्व 99.50 वर्ग गज अर्था उस और नाली खरंजा, का मकान 1, तृतीय तल, (बिना छल् त, क्षेत्रफल 41.80 वर्ग म रोड, उत्तर में – 30' धौर बी, तुराब नगर, गाजिय रब में – आन्य की सम्पत्ति स्व में – आन्य की सम्पत्ति स्व में – आन्य की सम्पत्ति इ38, प्रथम तल प्लॉट नं वर्ग मी, यह सम्पत्ति स ाढ, उत्तर में – 30' धौर के नाम पर है। चौहदी टंट नं. 5 / 541 129, मूतल, मोहन मीकि के नाम पर है। चौहदी देव ये हे जि के अ नाम पर है। चौहदी प्र के नाम पर है। चौहदी व्ये (पुराना नंबर 469 क नाम पर है। चौहदी प्र के नाम पर के अधिकार के म	मेटेड, 16/12, दूसरी मंजिल, र इस्ता/— प्राधिकृत अधिकार , OO1, b.co.in चल सम्पत्तियों के विक्रय कारी द्वारा लिया गया है, को ' प — के बंधककती) 5, खसरा नं. 976, पूर्वा इस्म 0 वर्ग मी., ति 83.20 वर्ग मी., यह सम्पत्ति पश्चिम में – राम चंदर का म त के अधिकार के) सीधे हाथ व मी., यह सम्पत्ति निर्मला पुत्र ब ही रोड, दक्षिण में – ठाकुर दास स्वती, अग्रवाल और राहुल अ र रोड, दक्षिण में – ठाकुर दास र पश्चिम में – 20फीट चौड़ी 192, तुराब नगर, पूर्वा इस्माः रस्वती अग्रवाल और राहुल अ र रोड, दक्षिण में – ठाकुर दास त. पश्चिम में – टाकुर दास र राहे, दक्षिण में – ठाकुर दास स्वा: पूरब में – प्लॉट नं. 5/5 न सोसायटी सेक्टर–5 वसुन्धरा ग ही : पूरब में – प्लॉट नं. 5/5 न सोसायटी सेक्टर–5 वसुन्धरा ग ही : पूरब में – प्लॉट नं. 5/5 जीर 447) से मिलकर, मो. सि व अग्रवाल के नाम पर है, चौह ग. दक्षिण में – खेमचंद की सं	डब्ल्यू .ई.ए, आर्य समाज स रे, कृते जना स्मॉल फाइने रे कृते इं-नीलामी विक्र 'जहाँ है, जैसा है और ज विक्र इं. जैसा है और ज विक्र वान तुराव नगर ते प्रभात गुप्ता और पूनम कान, उत्तर में – नेहरू की तरफ, प्लॉट नं. 192, बब्र लाल के नाम पर है। स गुलाटी का मकान व 43.47 वर्ग मी. (52 वर्ग दे रोड, उत्तर में – सुरेश इंल खान, बिना छत के अग्रवाल के नाम पर है। (गुलाटी का मकान गाजियाबाद-201010 में 537, पश्चिम में – प्लॉट नं. वरा गाजियाबाद उ.प्र. में 0, पश्चिम में – प्लॉट नं. द. गाजियाबाद, यू.पी. मे पश्चिम में – प्लॉट नं. 2 सेब्बनपुरा ग्राम–घूकना, हंग पूरब में – मूल चंद गिलता इमारत) प्लॉट नं. वर्वे क्षेत्रफल 42.00 वर्ग	स केए गए सभी रोड, करोल बाग, तेस बेक सिमिटेड का नि आज एवं न्ट आज एवं न्ट आज एवं न्ट का के के सिमिटेड सरस्पत्ति टा लि टा हेतु टिट्र् टिट्र् हेतु टिट्र् टि हेतु टिट्र् टि हेतु टिट्र् टि हेतु टिट्र् हेतु टिट्र् हेतु टिट्र् हेतु टिट्र् हेतु टिट्र् हेतु टिट्र् हेतु टिट्र् हेतु टिट्र् हेतु टिट्र् हे (A) जर रि त् (B) रु रे उ) जाख (B) रु रे उ) लाख (B) रु रे उ) लाख (B) रु रे उ) लाख (B) रु रे उ) लाख (C) रु रे 0,000/- (C) रु रे 10,000/- (C) रु रे रे रे लाख (C) रु रे रे रे लाख (C) रु रे रे रे लाख (C) रु रे रे रे लाख (C) रु रे रे रे रे रे लाख (C) रु रे रे रे लाख (C) रु रे रे रे रे लाख	दिनांक 18/10/20 वायालय की मुद्रा ति ही ईज द्यूटा जाा र वेचा जाएगा 1 वय नीलामी की तिथि एवं समय 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अर्पाइ 04.00 बजे 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अर्पाइ 04.00 बजे	से जारी किया गया। आयुक्त बेलासपुर संमाग लासपुर (छ.ग.)
अ स स् ति	मति पर उपस्थित किसी चल आरितगें, यदि कोई हो, की किसी तन : गाजियाबाद थि : 30.10.2023 पतिभूति तनता को और विशेष रूप से कर्जदार और पारंटर्स को यह ततना को और विशेष रूप से कर्जदार और पारंटर्स को यह तिमता को और विशेष रूप से कर्जदार और पारंटर्स को यह तिमता को और विशेष रूप से कर्जदार और पारंटर्स को यह तिमता को और विशेष रूप से कर्जदार और पारंटर्स राशि को त्याते गा गरंटर्(रो). आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि को त्याते का नाम: श्री. तिर्मला पुत्री स्व. बाबू लाल (ज्यारकती) खाते का नाम: श्री. तिर्मला पुत्री श्री बाबू लाल (ज्यारकती) खाते का नाम: श्री. तिर्मला पुत्री श्री बाबू लाल (ज्यारकती) खाते का नाम: श्री. तिर्मला पुत्री श्री बाबू लाल (ज्यारकती) 182 तुराब नगर गाजियाबाद उ.प्र लोहा मं- खाते का नाम: श्री. सुनील कुमार पुत्र दीवान चंद (ज्यार यूपी–201001 श्रीमती अलका रानी पत्नी श्री सुनील कुमार (ज्यारकती) 182 तुराब नगर गाजियाबाद र्यु.ी. <u>लोहा मं-</u> खाते का नाम: श्री सुनील कुमार पुत्र दीवान चंद (ज्यार यूपी–201001 श्रीमती अलका रानी पत्नी श्री सुनील कुमार (जयारकती) 182 तुराब कुमार पुत्र श्री सदाशिव चौरसिया, मकान-प्ल <u>कौर</u> (गारंटर) अनिल कुमार तिवारी पुत्र स्व. राम मूरत वि तिहा मं- श्री अवदेश कुमार पुत्र शि स्वी कुमार जैन एवं श्रेम से गाजियाबाद <u>क</u> र्मा संवायी द युसी. संह, निवासी मकान न. गाजियाबाद <u>क्रि</u> सी संवाशिव चुप्रा पुत्र स्व. शिव श्रेमरा ततीय तल. राज अपार्टमंट, गाजियाबाद–201001 श्री तरूप कुमार पुत्र श्रे कर रामि क्रायता न. ततीय तल. राज अपार्टमंट, गाजियाबाद–201001 श्री तरूप कुमार मोयल पुत्र स्व. इरदीर सिंह, निवासी मकान न. गाजियाबाद <u>क</u> ्र.भी कॉली प्रसाद अग्रयाल, निवासी: (गारंटर) श्री मुकुल कुमार सुपुत्र सतीरा यंद गुपता, निवासी रतीय राख्ये एंटरप्राइजेज (प्रोप.) श्रीमती राखी पत्नी श्र 3न्यू पंचवटी गाजियावा यू यू.ी. सारं राखी एंटरप्राइजेज (प्रोप.) श्रीमती राखी पत्नी श्र ताजिया वर <u>थ्र.</u> सिंस साखी एंटरप्राइजेज (प्रोप.) श्रीमती राखी पत्नी श्र ताजियावा द <u>यू.भी.</u> नारंटर श्री अनिल कुमार पुत्र श्री बकील चंद शर्मा, निव नाजियाबाद यू.भी.	ते का कोई अधिकार नहीं है। आईडीएफसी (पूर्व का केंप्रि (पूर्व का केंप्रि कि (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुव ह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्र । विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार का नाम का नाम खाते का नाम एवं पता की 613300 पुराना 155. खसरा नं. 976 पुरवा इस्माइल खान तुरव नगर की(613300)) निवासी मकान नं. 193–थी तुराव नगर गाजियाबाद निवासी–एफ 277 नंद ग्राम गाजियाबाद यूपी–201001) निवासी मकान नं. 193–थी तुराव नगर गाजियाबाद वि(613300) ह एफ 2 तृतीय तल. प्लॉट नं. 192 तुराव नगर पाजियाबाद निवासी–। बी / 181 नेष्ठरू नगर गाजियाबाद, उ.प्र. की(613300) ह एफ 2 तृतीय तल. प्लॉट नं. 192 तुराव नगर पाजियाबाद विवासी, निवासी मकान नं. 193–थी तुराव नगर पाजियाबाद निवासी–एस 277, तीसरी मजिल सोसायता की(613300) ह एफ 2 तृतीय तल. प्लॉट नं. 192 तुराव नगर पूर्वा इस्माइल जातिया गाजियाबाद यूपी. की(613300) कॉट नं. 5/538, प्रथम तल सेक्टर–5 वसुधरा गाजियाबाद । तिवासी, निवासी–आर–4/41 थी व्लॉक आर 4 मोहन गार्जन की(613300) कॉट नं. 5/538, प्रथम तल सेक्टर–5 वसुधरा गाजियाबाद । तिवासी, निवासी–जार–4/41 थी व्लॉक आर 4 नोहन गार्क की(613300) कर्तना जैन पली स्व. रवि कुमार जैन निवासी प्रतटन न 302. रा) निवासी 21/7 तेवर कॉलोनी. लाल व्यार्टर गाजियाबाद की (613300) वी–128 असोक नगर गाजियाबाद यूपी. की (613300) वीननि कुमार, निवासी–105 बात्सीकि कुंज पटेल नगर वसी. प्लॉट नं. वी–144 तृतीय तल, पलैट नं. 7 न्यू पंचयरी	प्राधिकृत अधिकारी फर्स्ट बैंक लिमिटेड उटल फर्स्ट लिमिटेड) D national b national c national (E) सरफासी अधिनियम 2003 (G) मांग सूचन (I) (G) फ 49,99,595 (I) (G) फ 49,99,595 (I) (I) (G) फ 20,49,86 (I) (I) (G) फ 20,49,86 (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I	 लागतॉ, शुल्कों और खर्चों के स पत्राचार का पताः श्री राकेश श दिल्ली–110005, विनांक डो1.10.2023, स्थानः गाां दिल्ली क डो1.10.2023, स्थानः गाां दिल्ली क डो1.10.2023, स्थानः गाां तिथि क दिलि क प्रत्याभूत परि द आसितयों का प्रतिभूतिक क / प्रभारित है, का सांकेतिक / प्रत्याभूत परि वियम 2002 की धारा 13(2) क मांग सूचना की तिथि 2 की धारा 13(4) के अंतर्गत कजा वा के अनुसार बकाया राशि व सांकेतिक / भौतिक / रचना (म) सांकेतिक ह) 13.01.2017 (म) सांकेतिक 	थ उपरोक्त बकाया राशि जमा करके ऊपर त, मो. नं.7230070463, ईमेल: rakesh.sha जयादाद मिण्ड केजे—13, मो. : 99717 ण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति दि वास्तविक कब्जा(नीवे वर्णित अनुसार), प्र सम्पत्तियों की बिक्री की अनुस् के तिथि मक सम्पत्ति का वह समस्त भाग विला—कैला, परगना—लोनी पुराना प्लॉट नं.—155 पर नि गुप्ता के नाम पर है। चौहरी कॉरपोरेट सांसाइटी लि. गां सम्पत्ति का वह समस्त भाग पूर्वा इस्माईल खान, तुराब न चौहदी: पूरब में – 12' चौड़ी सम्पत्ति का वह समस्त भाग पाज) यह सम्पत्ति सुनील कुम का मकान, दक्षिण में – मन्दि सम्पत्ति का वह समस्त भाग अधिकार के, गाजियाबाद, यू चौहदी: पूरब में – 12' चौड़ी सम्पत्ति का वह समस्त भाग सम्पत्ति का वह समस्त भाग सम्पत्ति का वह समस्त भाग स्विकार के, गाजियाबाद, यू चौहदी: पूरब में – 12' चौड़ी सम्पत्ति का वह समस्त भाग स्विकार के, गाजियाबाद, यू चौहदी: पूरव में – 12 चौडी सम्पत्ति का वह समस्त भाग स्वित, क्षेत्रफल 41.54 वर्ग 5/ 128, उत्तर में – 6 मी. च सम्पत्ति का वह समस्त भाग स्वित, क्षेत्रफल 67.22 वर्ग र्भ ची / 860, उत्तर में – 6 मी. च सम्पत्ति का वह समस्त भाग स्वित, योत्रम से – व सार ची, यह सम्पत्ति श्रीमले राखे सम्पत्ति का वह समस्त भाग सिप्त, परि का वह समस्त भाग सिप्त, परि का वह समस्त भाग स्वि, परि का वह समस्त भाग वी–144, ख्तेक् वी, खता ग यो / 860, उत्तर में – 6 मी. च	र उल्लिखित प्रतिभूति संपतियों क rma02@janabank.com, जना र कविनगर, गाजिय 720088, ई—मेलः दित का प्रवर्तन अधिनियम, : प्रतिभूत लेनदार पंजाव नेशनल दूवी अचल सम् बंधक / स्वामी के : त का प्रवर्तन अधिनियम, : प्रतिभूत लेनदार पंजाव नेशनल दूवी मा एवं अशं जोकि फ्लैट नं. 167 श्रेत्र नया प्लॉट नं. 167 क्षेत्रफल प्रत अशं जोकि फ्लैट नं. 167 यावाद, दक्षिण में – कुडे मल एवं अशं जोकि फ्लैट नं. एफ–1 गर, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित गली, पश्चिम में – 40' बौडी रो एवं अशं जोकि फ्लैट नं. एफ 2 यू.पी. में स्थित, क्षेत्रफल 41.80 य गली, पश्चिम में – 40' बौडी रो एवं अशं जोकि फ्लैट नं. 9,55 र मी, यह सम्पत्ति आक्वि ग् ने प् र एवं अशं जोकि फ्लैट नं. 9,79 मी, यह सम्पत्ति आरुषि जैन के न वोडी सड़क, दक्षिण में – प्लॉट एवं अशं जोकि फ्लैट नं. 9,71 मी, यह सम्पत्ति आरुषि जैन के न ते शे राज, दक्षिण में – ७तांट एवं अशं जोकि फ्लैट नं. 302, ते. यह सम्पत्ति आरुषि जैन के नी ते राज, दक्षिण में – ७तॉट नं. एवं अशं जोकि फ्लैट नं. 302, ते. यह सम्पत्ति आरुषि जैन के नी ते राज, दक्षिण में – ७तॉट नं. एवं अशं जोकि फ्लैट नं. 302, ते. यह सम्पत्ति आर्क्त क्र.61 वर्ग मी. ता 19 फीट चौडी सडक, उत्तर प एवं अंश जोकि फ्लैट नं. 7 (बिन् ते सड़क, दक्षिण में – प्लॉट नं. एवं अंश जोकि फ्लैट नं. 7 (बिन् ते सड़क, दक्षिण में – प्लॉट नं.	को भुनाया जाता है। स्पॉल फाइनेंस बैंक लिमि म्पॉल फाइनेंस बैंक लिमि टS8228@pnk 2002 के अधीन अप वैंक के प्राधिकृत अधिय के के प्राधिकृत अधिय म्पत्तियों का विवरण नाम (सम्पत्तियों द त, कवर्ड क्षेत्रफल 32.50 क 99.50 वर्ग गज अर्था उस और नाली खरंजा, का मकान 1, वृतीय तल, बिना छव त, क्षेत्रफल 41.80 वर्ग य रोड, उत्तर में – 30' धौर बी, तुराब नगर, गाजिय रव में न अन्य की सम्पत्ति स्वर्म मी., यह सम्पत्ति स ड, उत्तर में – 30' धौर बी, तुराब नगर, गाजिय रव में – अन्य की सम्पत्ति स्वर्ग मी. यह सम्पत्ति स ड, उत्तर में – 30 चौडी 538, प्रथम तल प्लॉट नं वर्ग मी. यह सम्पत्ति स ड, उत्तर में – 30 चौडी 538, प्रथम तल प्लॉट नं ता के नाम पर है। चौहदी योडी रोड के नाम पर है। चौहदी पूर के नाम पर के अधिकार के	मेटेड, 16/12, दूसरी मंजिल, ज उस्ता/— प्राधिकृत अधिकार ,001, b.co.in चल सम्पत्तियों के विक्रय कारी द्वारा लिया गया है, को ' ण — के बंधककराी) 6, खसरा नं. 976, पूर्वा इस्म 0 वर्ग मी., ति 83.20 वर्ग मी., यह सम्पत्ति पश्चिम में – राम चंदर का म त के अधिकार के) सीधे हाथ व मी., यह सम्पत्ति निर्मला पुत्र ब ही रोड, दक्षिण में – ठाकुर दास ग. यह सम्पत्ति निर्मला पुत्र ब ही रोड, दक्षिण में – ठाकुर दास ग. पश्चिम में – २०फीट चौड़ी 1. 192, तुराव नगर, पूर्वा इस्माः सरवती अग्रवाल और सहुल अ रोड, दक्षिण में – ठाकुर दास तं.–538, सेक्टर–5 वसुन्धरा ग ही : पूरव में – प्लॉट नं. 5/5 न सोसायटी सेक्टर–5, वसुन्ध ! पूरव में – प्लॉट नं. 5/ 130 विकार सहित, राज अपार्टमेंट (व में – प्लॉट नं. 2वी/862, प और 447) से मिलकर, मी. सि व अग्रवाल के नाम पर है, चौह ग, दक्षिण में – खेमचंद की सं !) शामिल है, जूतीय त्तल (4 मी ाजिया वाद, यू.पी. में सिलकर, मी. सि व अंग्रवाल के नाम पर है, चौह ग, दक्षिण में – खेमचंद की सं	डल्यू .ई.ए, आर्य समाज र रे, कृते जना स्मॉल फाइन दे कुते इं—नीलामी विक्र ''जहाँ है, जैसा है और ज ''जहाँ है, जैसा है और ज माइल खान तुराव नगर त प्रभात गुप्ता और पूनम कान, उत्तर में — नेहरू की तरफ, प्लॉट नं. 192, मबू लाल के नाम पर है स गुलाटी का मकान व 43.47 वर्ग मी. (52 वर्ग ते रोड, उत्तर में — सुरेश इंल खान, बिना छत के अग्रवाल के नाम पर है गुलाटी का मकान पाजियाबाद—201010 में 537, पश्चिम में — प्लॉट नं. 2 वरा गाजियाबाद उ.प्र. में 0, पश्चिम में — प्लॉट नं. 2 सब्बनपुरा ग्राम—घूकना, ह्री : पूरब में — मूल चंद प्रेजिला इमारत) प्लॉट नं. बी जिला इमारत) प्लॉट नं. वी	रा किए गए सभी रोड, करोल बाग, रेड, करोल बाग, के देक को को के डेतु दिट्री डेतु दिट्री डे तु दिट्री डे तु दिट्री डे तु दिट्री डे तु दिट्री डे तु दिट्री डे तु दिट्री डे तु दिट्री ड (A) ज. 13.07 लाख (B) रु. 1.31 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 12.92 लाख (B) रु. 1.30 लाख (B) रु. 1.30 लाख (C) रु. 10,000/- (C) रु. 10,000/- (C) रु. 10,000/- (A) रु. 22.15 लाख (B) रु. 2.22 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 21.46 लाख (B) रु. 2.15 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 21.51 लाख (B) रु. 2.15 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 23.43 लाख (C) रु. 10,000/- (C) रु. 10,000/- (C) रु. 10,000/- (C) रु. 10,000/- (C) रु. 10,000/- (C) रु. 10,000/-	दिनांक 18/10/20 पालय की मुद्रा ति ही ई-र्ज र वेद्या जाएगा 1 वर्य तीलामी की तिथि एवं समय 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अर्पाइ 04.00 बजे 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अर्पाइ 04.00 बजे	से जारी किया गया। आयुक्त विवराग तारा परि की वस्ती प्रतिभूति लेनदार के संज्ञान में ऋण भारों का विवरण ज्ञात नहीं
अ स स् ति	मति पर उपस्थित किसी चल आरितयों, यदि कोई हो, की विक्री मन : माजियाबाद थि : 30.10.2023 प्रतिभूति ननता को और विशेष रूप से कर्जवार और मारंटर्स को यह ात(रों) और मारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और घरोइर राशि का प्रािद्धा राष्ट्रांदा प्रािद्धा राष्ट्रांदा रारंटर्स र शो प्रमाद गुप्ता और पूनम गुप्ता, पलैट नं. 167, भूतल. प्र लोहा मं श्री प्रमाद गुप्ता और पूनम गुप्ता, पलैट नं. 167, भूतल. प्र लोहा मं श्री प्रमाद गुप्ता और पूनम गुप्ता, पलैट नं. 167, भूतल. प्र लोहा मंक खाते का नामः श्री. निर्मला पुत्री श्री बबू लाल (उधारकर्ता) खाते का नामः श्री. निर्मला पुत्री श्री बबू लाल (उधारकर्ता) खाते का नामः श्री. निर्मला पुत्री श्री बबू लाल (उधारकर्ता) खाते का नामः श्री. निर्मला पुत्री श्री बबू लाल (उधारकर्ता) खाते का नामः श्री. निर्मला पुत्री श्री बबू लाल (उधारकर्ता) खाते का नामः श्री. निर्मला पुत्री श्री बबू लाल (उधारकर्ता) खाते का नामः श्री. निर्मला पुत्री श्री बबू लाल (उधारकर्ता) खाते का नामः श्री. निर्मला पुत्री श्री बबू लाल (उधारकर्ता) खाते का नामः श्री. निर्मला पुत्री श्री बाबू लाल (उधारकर्ता) खाते का नामः श्री. निर्मला पुत्री श्री बाबू लाल (उधारकर्ता) खाते का नामः श्री. निर्मला पुत्री श्री बाबू लाल (उधारकर्ता) खाते का नामः श्री. निर्मला पुत्र स्व. राक् त्यांत्ति गर्वा ग्रे खाने का नामः श्री. निर्मला पुत्र स्व. राक् त्यांत्ति राहा मं श्री नवा का स्त्री. पारंटर) अनिल कुमार राहा बाहा मं श्री अवदेश कुमार पुत्र श्री सदाधिव चीरसिया. मकान-त. गाजियावाद लोहा मं श्री नतल. राज अपार्टमंट, गाजियावाद-201001 श्री तरूण कुमार पायल पुत्र स्व. राक् कुमार जुन एव श्रीमती. त्तीवा तल. राज अपार्टमंट, गाजियावाद-201001 श्री तरूण कुमार पायल पुत्र स्व. राक् यं कर गाजियावाद लोहा मं श्री मत्त आरलि देन पुत्री स्व. राम कुमार जेन एव श्रीमती. त्तींय तल. राज अपार्टर्ग युत्र स्व. राक् यं व गुप्त. निवाती शित्वा मंद श्री मानव अग्रवाल पुत्र श्री क्र यता प्र यता प्र तात्ता ने त्तोहा मंद श्री मानव पायी एटरप्राइजेज (प्रेप). श्रीमती राखी पत्नी श्री गाठियायाद यू पी. गारंटर श्री मोनल कुमार पुत्र श्री बकील चंद शर्मा, निव गाजियायाद यू पी. तारंटर श्री मोनल कुमार पुत्र श्री बकील चंद शर्मा, निव गाजियायाद यू पी. तारंट मं श्री जोते	ते का कोई अधिकार नहीं है। आईडीएफसी (पूर्व का केते के नोटेस किया जाता है कि नीथे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्र त किय निय जाता है कि नीथे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्र त कि नाम का नाम का नाम का नाम खाते का नाम एवं पता खि(613300) (त्रेक्त) निवासी मकान नं. 193–बी तुराब नगर गाजियाबाद विं(613300) (रफट 2 सुतीय तल, प्लॉट नं. 1922 तुराब नगर गाजियाबाद तिवासी – 11 बी / 161 नेहरू नगर गाजियाबाद युपी–201001) निवासी नएफ-277 नंद ग्राम गाजियाबाद युपी–201001 हे एफ 2 सुतीय तल, प्लॉट नं. 1922 तुराब नगर गाजियाबाद त्वरी, निवासी मकान नं. 193–बी तुराब नगर गाजियाबाद त्वरी, निवासी नकान नं. 193–बी तुराब नगर गाजियाबाद त्वरी, निवासी नकान नं. 193–बी तुराब नगर पूर्वा इश्माइल जारिया गाजियाबाद युपी. की(613300) इ/ 129. मृतत, मोहन मीकिन सोसायटी सेक्टर–5 वसुंवस प्रासा (गारेवर) निवासी–6/637, जी ३ सेक्टर–6 वैशाली की(613300) बर्ग-128 असोक नगर गाजियाबाद यूपी. की (613300) बी–128 असोक नगर गाजियाबाद यूपी. की (613300) बीनत कुमार, निवासी–105 बाल्मीकि कुंज पटेल नगर वासी: प्लॉट नं. वी–144 तृतीय तल, पलेट नं. 7 न्यू पंवतटी की(613300) दीपक गप्ता पुत्र श्री योगन्द कुमार पप्ता, निवासी: प्लंट नं श्री अनिल कुमार, निवासी–105 बाल्मीकि कुंज पटेल नगर वासी: प्लंट नं. यी–144 तृतीय तल, पलेट नं. 7 न्यू पंवतटी की(613300)	प्राधिकृत अधिकारी फर्स्ट बैंक लिमिटेड D natio a के साथ पठित वितीय रतिमृत लेनदार के पास बंधव (E) सरफासी अधिनियम 2003 (G) मांग सूचन (H) कब्जा की स्थिति (G) ए. 20,49,863 (G) ए. 20,63810 (G) ए. 20,63810 (G) ए. 20,711 (G) ए. 20,711 (G) ए. 21,38,100 (G) ए. 15,38,100	लागतॉ, शुल्कों और खर्बों के स पत्राचार का पताः श्री राकेश श दिल्ली–110005, दिलांक: 31.10.2023, स्थानः गांग दिलांक: 31.10.2023, स्थानः गांग CACLONAL U can BANK upol य आस्तियों का प्रतिभूतिक, क / प्रशारित है, का सांकेतिक / प्रत्याभूत पाँग तियम 2002 की धारा 13(2) क मांग सूचना की तिथि 2 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा क ना के अनुसार बकाया राशि 1 सांकेतिक / भौतिक / रचना E) 13.01.2017 (F) 01.05.2017 9/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 13.01.2017 (F) 22.09.2017 3/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 13.01.2017 (F) 24.04.2023 .41 + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 13.02016 (F) 09.03.2017 0/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 13.10.2016 (F) 09.03.2017 0/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 13.10.2016 (F) 09.03.2017 1/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 13.10.2016 (F) 09.03.2017 1/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 13.10.2016 (F) 09.03.2017 1/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 13.0.2016 (F) 06.09.2021 20 + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक	थ उपरोक्त बकाया राशि जमा करके ऊपर त, मो. नं.7230070463, ईमेल: rakesh.sha 5यादाद मिण्ड केजेन–13, मो. : 99717 ण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हि वास्ताविक कब्जा(नीवे वर्णित अनुसार), प्र रसम्पत्तियों की बिक्री की अनुस् हे ते तिथि सम्पत्ति का वह समस्त भाग दिला–कैला, परगना–लोनी पुराना प्लॉट नं.–156 पर नि पुरान के नाम पर है। चौहदी कॉरपोरेट सोसाइटी लि. गार् सम्पत्ति का वह समस्त भाग पूर्वा इं नाम पर है। चौहदी कॉरपोरेट सोसाइटी लि. गार् सम्पत्ति का वह समस्त भाग पुरान के नाम पर है। चौहदी कॉरपोरेट सांसाइटी लि. गार् सम्पत्ति का वह समस्त भाग गज) यह सम्पत्ति सुनील कुम का मकान, दक्षिण में – मन्दि सम्पत्ति का वह समस्त भाग अधिकार के, गाजियाबाद, यू चौहदी: पूरव में – 12 चौडी सम्पत्ति का वह समस्त भाग अधिकार के, गाजियाबाद, यू चौहदी: पूरव में – 12 चौडी सम्पत्ति का वह समस्त भाग स्थित, कवर्ड क्षेत्रफल 41.54 वर्ग 5/128, उत्तर में – 6 मी. च सम्पत्ति का वह समस्त भाग स्थित, क्षेत्रफल 67.22 वर्ग में यी / 860, उत्तर में – 6 मी. च सम्पत्ति का वह समस्त भाग सिथत, ब्रेत्रफल 67.22 वर्ग में यी / 860, उत्तर में – 6 मी. च सम्पत्ति का वह समस्त भाग सिथत, संत्रफल 67.22 वर्ग में यी / 860, उत्तर में – 6 मी. च सम्पत्ति का वह समस्त भाग सिथति, पश्चिम में – रास्त स्पत्ति का वह समस्त भाग सिथत, योत्र परिया में – रास्त स्वित्त का वह समस्त भाग सिथति, पश्चिम में – रास्त स्वित्त की वह समस्त भाग सिथति, पश्चिम में – रास्त स्वित्त की वह समस्त भाग स्वित्त संत्रिक वी, खसरा न स्वत्त संत्रिक वी, खसरा न स्वित्त संत्रिक वी, खसरा न स्वत्त संत्र संत्र में – 24 कीट चौ	र उल्लिखित प्रतिभूति संपतियों क rma02@janabank.com, जना र उल्ल शार-ज्ञा, गाजिय कविनगर, गाजिय कविनगर, गाजिय कविनगर, गाजिय कविनगर, गाजिय कविनगर, गाजिय कविनगर, गाजिय कविनगर, गाजिय कविनगर, गाजिय कविन्दार पंजाब नेशनल पूर्व अशं जोकि फलैट नं. 16 गत, पश्चिम में – कुडे मल एवं अशं जोकि फलैट नं. एफ–1 गर, गाजियाबाद, दक्षिण में – कुडे मल एवं अशं जोकि फलैट नं. एफ–1 गर, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित गली, पश्चिम में – 40' चौडी रो र एवं अशं जोकि मकान नं. 193 के गर के नाम पर है। चौहदी : पूरव र एवं अशं जोकि फलैट नं. एफ 2 रूपी. में स्थित, क्षेत्रफल 41.80 व गली, पश्चिम में – 40' चौडी रो र एवं अशं जोकि फलैट नं. 5/5 र मी, यह सम्पत्ति ओकोइ कुमार न् 5/106, दक्षिण में – एलॉत एवं अशं जोकि मकान नं. 5/12 मी, यह सम्पत्ति ओरुवि जैन के न ते ही रोड, दक्षिण में – 6 मी. एवं अशं जोकि मतान नं. 5/12 मी, यह सम्पत्ति आरुपि जैन के न ते ही रोड, दक्षिण में – एलॉत एवं अशं जोकि मतान नं. 5/12 मी, यह सम्पत्ति आरुपि जैन के न ते ही रोड, दक्षिण में – दलॉत नं. र एवं अशं जोकि मतान नं. 5/12 मी, यह सम्पत्ति आरुपि जैन के न ते ही रोड, दक्षिण में – दलॉत नं. र एवं अश जोकि मतान नं. 5/12 में स्थित, क्षेत्रफल 83.81 वर्ग मी. ता 19 फीट चौडी सडक, उत्तर प एवं अंश जोकि फलैट नं. 7 (बिन ते अंश जोकि फलैट नं. 7 (बिन ते अंश जोकि मकान / फ्लैट नं. एवं अंश जोकि मकान / फ्लैट नं. र	को भुनाया जाता है। स्मॉल फाइनेंस बेंक लिमि जिन या खा द, विन या खा द, विन या खा द, विन या खा द, विन या खा क क के प्राधिकृत अधिन म्यत्तियों का विवरप नाम (सम्पत्तियों व क के प्राधिकृत अधिन क का का विवरप नाम (सम्पत्तियों व क का प्रतान का खिन क भु का का खरजा, का मकान 1, तृतीय तल, खिना छव का का मकान 1, तृतीय तल, दिना छव के जाम का ना खरजा, का मकान 1, तृतीय तल, प्लॉट नं वर्ग मी., यह सम्पत्ति स दे, उत्तर में – 30' धौर बी, तुराब नगर, गाजिय ख में – अन्य की सम्पत्ति 538, प्रथम तल प्लॉट नं वार के नाम पर है। चौह दि नं. 5 / 541 129, मूतल, मोहन मीकि दे जीडी रोड के नाम पर है। चौहदी: पूर के नाम पर है। चौहदी र पूर के नाम पर है। चौह के जीव का र के जीव का स्पा र के सम्पत्ति का राम	मेटेड, 16/12, दूसरी मंजिल, ब डस्ता/— प्राधिकृत अधिकार , 001, b.co.in चल सम्पत्तियों के विक्रय कारी द्वारा लिया गया है, को ' प — के बंधककराी) 5, खसरा नं. 976, पूर्वा इस्म 0 वर्ग मी., ति 83.20 वर्ग मी., यह सम्पत्ति पश्चिम में – राम चंदर का म त के अधिकार के) सीधे हाथ व मी., यह सम्पत्ति निर्मला पुत्र ब ही रोड, दक्षिण में – वाकुर दान प्रावाद, यू.पी. में स्थित, क्षेत्रफल ते, पश्चिम में – 20फीट चीड़ी 192, तुराव नगर, पूर्वा इस्मा स्रवती अग्रवाल और राहुल अ रोड, दक्षिण में – वाकुर दास तं.–538, सेक्टर–5 वसुन्धरा ग ही : पूरव में – प्लॉट नं. 5/ 5 न सोसायटी सेक्टर–5, वसुन्ध : पूरव में – प्लॉट नं. 5/ 130 स्विकार सहित, राज अपार्टमेंट (व में – प्लॉट नं. 2वी / 862, प् और 447) से मिलकर, मो. सि व अग्रवाल के नाम पर है, चौह ग, दक्षिण में – खेमचंद की सं) शामिल है, तृतीय त्तल (4 मी ाजिया ब प, यू.पी. में सिलकर, मो. सि व अग्रवाल के नाम पर है, चौह ग, दक्षिण में – खेमचंद की सं	डल्यू .ई.ए, आर्य समाज र दे, कृते जना स्मॉल फाइन दे कुते इं — नीलामी विव्र ''जहाँ है, जैसा है और ज तिहल खान तुराव नगर ते प्रभात गुप्ता और पूनम कान, उत्तर में — नेहल की तरफ, प्लॉट नं. 192, ग्रबु लाल के नाम पर है। स गुलाटी का मकान व 43.47 वर्ग मी. (52 वर्ग ते रोड, उत्तर में — सुरेश दिल खान, बिना छत के अग्रवाल के नाम पर है। ! युलाटी का मकान पाजियाबाद—201010 में 537, पश्चिम में — प्लॉट नं. थरा गाजियाबाद उ.प्र. में . पश्चिम में — प्लॉट नं. 2 सेब्बनपुरा ग्राम—घूकना. ही : पूरव में — मूल चंद पति. पति का इमारत) प्लॉट नं. क्वर्ड क्षेत्रफल 42.00 वर्ग ।रिचम में — प्लॉट नं. वी प्रिक्रा इमारत) प्लॉट नं. वी	रा किए गए सभी रोड, करोल बाग, से बेक सिमिटेड का ि आज एवं न्थ राउपतिरा गूल्य हेटुु हिट्न्री हेटु हिट्न्री हेटु हिट्न्री हेटु हिट्न्री हेट् ह हिएमडी (C) बोली वृद्धि राशि (C) बोली वृद्धि राशि (C) क. 13.07 लाख (B) रु. 1.31 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 12.92 लाख (B) रु. 1.31 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 12.92 लाख (B) रु. 1.30 लाख (B) रु. 1.30 लाख (B) रु. 1.30 लाख (B) रु. 1.30 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 22.15 लाख (B) रु. 2.22 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 21.46 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 21.51 लाख (B) रु. 2.15 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 21.51 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 23.43 लाख (C) रु. 10,000/-	देनांक 18/10/20 वात्य की मुद्रा ति ती	से जारी किया गया। आयुक्त विवराग तारा परि की वस्ती प्रतिभूति लेनदार के संज्ञान में ऋण भारों का विवरण ज्ञात नहीं
अ स्	मति पर उपस्थित किसी चल आरितयें, यदि कोई हो, की विक्री मान : माजियाबाद थि : 30.10.2023	ते का कोई अधिकार नहीं है। आईडीएफसी (पूर्व का केते के नोटेस किया जाता है कि नीथे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्र त किय निय जाता है कि नीथे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्र त कि नाम का नाम का नाम का नाम खाते का नाम एवं पता खि(613300) (त्रेक्त) निवासी मकान नं. 193–बी तुराब नगर गाजियाबाद विं(613300) (रफट 2 सुतीय तल, प्लॉट नं. 1922 तुराब नगर गाजियाबाद तिवासी – 11 बी / 161 नेहरू नगर गाजियाबाद युपी–201001) निवासी नएफ-277 नंद ग्राम गाजियाबाद युपी–201001 हे एफ 2 सुतीय तल, प्लॉट नं. 1922 तुराब नगर गाजियाबाद त्वरी, निवासी मकान नं. 193–बी तुराब नगर गाजियाबाद त्वरी, निवासी नकान नं. 193–बी तुराब नगर गाजियाबाद त्वरी, निवासी नकान नं. 193–बी तुराब नगर पूर्वा इश्माइल जारिया गाजियाबाद युपी. की(613300) इ/ 129. मृतत, मोहन मीकिन सोसायटी सेक्टर–5 वसुंवस प्रासा (गारेवर) निवासी–6/637, जी ३ सेक्टर–6 वैशाली की(613300) बर्ग-128 असोक नगर गाजियाबाद यूपी. की (613300) बी–128 असोक नगर गाजियाबाद यूपी. की (613300) बीनत कुमार, निवासी–105 बाल्मीकि कुंज पटेल नगर वासी: प्लॉट नं. वी–144 तृतीय तल, पलेट नं. 7 न्यू पंवतटी की(613300) दीपक गप्ता पुत्र श्री योगन्द कुमार पप्ता, निवासी: प्लंट नं श्री अनिल कुमार, निवासी–105 बाल्मीकि कुंज पटेल नगर वासी: प्लंट नं. यी–144 तृतीय तल, पलेट नं. 7 न्यू पंवतटी की(613300)	प्राधिकृत अधिकारी फर्स्ट बैंक लिमिटेड Izcer फर्स्ट लिमिटेड) Denatio the name you क के साथ पठित वितीय वतिमूत लेनदार के पास बंधव (E) सरफासी अधिनियम 2002 (G) मांग सूचन (H) कब्जा की स्थिति (((G) रू. 20,49,863 (((G) रू. 20,49,863 (((G) रू. 2063810 (((G) रू. 2063810 (((G) रू. 25,93,82 (((G) रू. 25,93,82 (((G) रू. 32,67,11)	 लागतॉ, शुल्कों और खर्चों के स पत्राचार का पताः श्री राकेश श दिल्ली–110005, विस्तांक डा1.10.2023, स्थानः गाां तिविद्य डारितयों का प्रतिभूतिकर क / प्रभारित है, का सांकेतिक / प्रत्याभूत परि तियम 2002 की घारा 13(2) के मांग सूचना की तिथि 2 की घारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा के ना के अनुसार बकाया राशि व सांकेतिक / भौतिक / रचना (E) 13.01.2017 (F) 01.05.2017 (F) 13.01.2017 (F) 22.09.2017 (H) सांकेतिक (E) 13.01.2017 (F) 22.09.2017 (H) सांकेतिक (E) 13.01.2017 (F) 22.09.2017 (H) सांकेतिक (E) 13.01.2017 (F) 24.04.2023 (A1 + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 13.00.2016 (F) 09.03.2017 (- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 13.10.2016 (F) 09.03.2017 (- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 13.10.2016 (F) 09.03.2017 (- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 13.10.2016 (F) 15.12.2018 (I/ + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 13.10.2016 (F) 09.03.2017 (.21 + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 13.10.2016 (F) 09.03.2017 (.21 + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 13.10.2016 (F) 09.03.2017 (.21 + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 13.10.2016 (F) 09.03.2017 (.4 + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 13.10.2016 (F) 06.09.2021 (.20 + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (H) सांकेतिक (E) 18.03.2019 (F) 18.07.2019 (A6 + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (H) सांकेतिक (H) सांकेतिक (H) सांकेतिक (H) सांकेतिक (E) 03.10.2020 	थ उपरोक्त बकाया राशि जमा करके ऊपर त, मो. नं.7230070463, ईमेल: rakesh.sha 5यादाद मिण्ड केजेन–13, मो. : 99717 ण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हि वास्ताविक कब्जा(नीवे वर्णित अनुसार), प्र रसम्पत्तियों की बिक्री की अनुस् हे ते तिथि सम्पत्ति का वह समस्त भाग दिला–कैला, परगना–लोनी पुराना प्लॉट नं.–156 पर नि पुरान के नाम पर है। चौहदी कॉरपोरेट सोसाइटी लि. गार् सम्पत्ति का वह समस्त भाग पूर्वा इं नाम पर है। चौहदी कॉरपोरेट सोसाइटी लि. गार् सम्पत्ति का वह समस्त भाग पुरान के नाम पर है। चौहदी कॉरपोरेट सांसाइटी लि. गार् सम्पत्ति का वह समस्त भाग गज) यह सम्पत्ति सुनील कुम का मकान, दक्षिण में – मन्दि सम्पत्ति का वह समस्त भाग अधिकार के, गाजियाबाद, यू चौहदी: पूरव में – 12 चौडी सम्पत्ति का वह समस्त भाग अधिकार के, गाजियाबाद, यू चौहदी: पूरव में – 12 चौडी सम्पत्ति का वह समस्त भाग स्थित, कवर्ड क्षेत्रफल 41.54 वर्ग 5/128, उत्तर में – 6 मी. च सम्पत्ति का वह समस्त भाग स्थित, क्षेत्रफल 67.22 वर्ग में यी / 860, उत्तर में – 6 मी. च सम्पत्ति का वह समस्त भाग सिथत, को वह समस्त भाग सिथति, पश्चिम में – सस्त सम्पत्ति का वह समस्त भाग सम्पत्ति का वह समस्त भाग सियत, सेत्रफल 67.22 वर्ग में यी / 860, उत्तर में – 6 मी. च सम्पत्ति का वह समस्त भाग सियति, पश्चिम में – सस्त स्ति का वह समस्त भाग स्थति, योत्व या वित्र में – 24 कीट चौ	र उल्लिखित प्रतिभूति संपतियों क rma02@janabank.com, जना र कविनगर, गाजिय कविनगर, गाजिय कविन, अधिनियम, इ प्रत का प्रवर्तन अधिनियम, इ प्रत का प्रति प्रति प्रते के स् एवं अशं जोकि प्रलैट नं. 167 के काम पर है। चीहदी : प्रत प्रत अशं जोकि मकान नं. 193 के रार के नाम पर है। चीहदी : प्रत र एवं अशं जोकि मकान नं. 5/12 मी, यह सम्पत्ति आकंद कुमार चौडी सडक, दक्षिण में – ५नॉट की, यह सम्पत्ति आरुषि जैन के मैंडी रोड, दक्षिण में – ६ मी. एवं अशं जोकि मकान नं. 5/12 मी, यह सम्पत्ति आरुषि जैन के मैंडी रोड, दक्षिण में – ६ मी. एवं अशं जोकि मकान नं. 5/12 मी, यह सम्पत्ति आरुषि जैन के नो हो राढ, क्षेत्रफल 83.81 वर्ग मी. ता 19 फीट चौडी सडक, उत्तर प् एवं अंश जोकि मकान नं. 5/ हे रिखत, क्षेत्रफल 83.81 वर्ग मी. ता 19 फीट चौडी सडक, उत्तर प् एवं अंश जोकि मकान नं. 5/ हे रिखत, बेत्रफल का की मकान नं. हि एवं अंश जोकि मकान नं. हि में सडक, दक्षिण में – ५नॉट नं प्र एवं अंश जोकि मकान / प्लैट	को भुनाया जाता है। स्मॉल फाइनेंस बेंक लिमि जिन या खा द, विन या खा द, विन या खा द, विन या खा द, विन या खा क क के प्राधिकृत अधिन म्यत्तियों का विवरप नाम (सम्पत्तियों व क के प्राधिकृत अधिन क का का विवरप नाम (सम्पत्तियों व क का प्रतान का खिन क भु का का खरजा, का मकान 1, तृतीय तल, खिना छव का का मकान 1, तृतीय तल, दिना छव के जाम का ना खरजा, का मकान 1, तृतीय तल, प्लॉट नं वर्ग मी., यह सम्पत्ति स दे, उत्तर में – 30' धौर बी, तुराब नगर, गाजिय ख में – अन्य की सम्पत्ति 538, प्रथम तल प्लॉट नं वार के नाम पर है। चौह दि नं. 5 / 541 129, मूतल, मोहन मीकि दे जीडी रोड के नाम पर है। चौहदी: पूर के नाम पर है। चौहदी र पूर के नाम पर है। चौह के जीव का र के जीव का स्पा र के सम्पत्ति का राम	मेटेड, 16/12, दूसरी मंजिल, ब डस्ता/— प्राधिकृत अधिकार , 001, b.co.in चल सम्पत्तियों के विक्रय कारी द्वारा लिया गया है, को ' प — के बंधककराी) 5, खसरा नं. 976, पूर्वा इस्म 0 वर्ग मी., ति 83.20 वर्ग मी., यह सम्पत्ति पश्चिम में – राम चंदर का म त के अधिकार के) सीधे हाथ व मी., यह सम्पत्ति निर्मला पुत्र ब ही रोड, दक्षिण में – वाकुर दान प्रावाद, यू.पी. में स्थित, क्षेत्रफल ते, पश्चिम में – 20फीट चीड़ी 192, तुराव नगर, पूर्वा इस्मा स्रवती अग्रवाल और राहुल अ रोड, दक्षिण में – वाकुर दास तं.–538, सेक्टर–5 वसुन्धरा ग ही : पूरव में – प्लॉट नं. 5/ 5 न सोसायटी सेक्टर–5, वसुन्ध : पूरव में – प्लॉट नं. 5/ 130 स्विकार सहित, राज अपार्टमेंट (व में – प्लॉट नं. 2वी / 862, प् और 447) से मिलकर, मो. सि व अग्रवाल के नाम पर है, चौह ग, दक्षिण में – खेमचंद की सं) शामिल है, तृतीय त्तल (4 मी ाजिया ब प, यू.पी. में सिलकर, मो. सि व अग्रवाल के नाम पर है, चौह ग, दक्षिण में – खेमचंद की सं	डल्यू .ई.ए, आर्य समाज र दे, कृते जना स्मॉल फाइन दे कुते इं — नीलामी विव्र ''जहाँ है, जैसा है और ज तिहल खान तुराव नगर ते प्रभात गुप्ता और पूनम कान, उत्तर में — नेहल की तरफ, प्लॉट नं. 192, ग्रबु लाल के नाम पर है। स गुलाटी का मकान व 43.47 वर्ग मी. (52 वर्ग ते रोड, उत्तर में — सुरेश दिल खान, बिना छत के अग्रवाल के नाम पर है। ! युलाटी का मकान पाजियाबाद—201010 में 537, पश्चिम में — प्लॉट नं. थरा गाजियाबाद उ.प्र. में . पश्चिम में — प्लॉट नं. 2 सेब्बनपुरा ग्राम—घूकना. ही : पूरव में — मूल चंद पति. पति का इमारत) प्लॉट नं. क्वर्ड क्षेत्रफल 42.00 वर्ग ।रिचम में — प्लॉट नं. वी प्रिक्रा इमारत) प्लॉट नं. वी	रा किए गए सभी रोड, करोल बाग, से बेक सिमिटेड का ि आज एवं न्थ राउपतिरा गूल्य हेटुु हिट्न्री हेटु हिट्न्री हेटु हिट्न्री हेटु हिट्न्री हेट् ह हिएमडी (C) बोली वृद्धि राशि (C) बोली वृद्धि राशि (C) क. 13.07 लाख (B) रु. 1.31 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 12.92 लाख (B) रु. 1.31 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 12.92 लाख (B) रु. 1.30 लाख (B) रु. 1.30 लाख (B) रु. 1.30 लाख (B) रु. 1.30 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 22.15 लाख (B) रु. 2.22 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 21.46 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 21.51 लाख (B) रु. 2.15 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 21.51 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 23.43 लाख (C) रु. 10,000/-	दिनांक 18/10/20 पालय की मुद्रा ति ही ई-र्ज र वेद्या जाएगा 1 वर्य तीलामी की तिथि एवं समय 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अर्पाइ 04.00 बजे 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अर्पाइ 04.00 बजे	से जारी किया गया। आयुक्त विवराग तारा परि की वस्ती प्रतिभूति लेनदार के संज्ञान में ऋण भारों का विवरण ज्ञात नहीं
अ स्	मति पर उपस्थित किसी चल आरितयों, यदि कोई हो, की विक्री ान : पाजियाबाद थि : 30.10.2023 प्रतिभूति तनता को और विशेष रूप से कर्जवार और पारंटर्श को यह परिएँ) और पारंटर(रों). आरक्षित मृत्य और घरेहर राशि का प्रािया रार्(रों) और पारंटर(रों). आरक्षित मृत्य और घरेहर राशि का एसार्या रार्(रों) और पारंटर(रों). आरक्षित मृत्य और घरेहर राशि का रार्(रों) और पारंटर(रों). आरक्षित मृत्य और घरेहर राशि का रार्(रों) और पारंटर(रों). आरक्षित मृत्य और घरेहर राशि का रार्(रों) और पारंटर(रों). आरक्षित मृत्य और घरेहर राशि का रार्वात का नामः श्री. निर्मला पुत्री रस. बाबू लाल (उधारकती) खाते का नामः श्री. निर्मला पुत्री रस. बाबू लाल (उधारकती) 122 तुराव नगर गाजियाबाद उ.प्र. लोहा मं खाते का नामः श्री. निर्मला पुत्री श्री बाबू लाल (उधारकती) 122 तुराव नगर गाजियाबाद उ.प्र. लोहा मं सरस्वती अग्रवाल सनी पत्नी श्री सुनील कुमार (ठधारक यूपी–201001 मनीच जैन पुत्र स्य. प्रेम चंद जैन (गारंटर). लोहा मं सरस्वती अग्रवाल और राहुल अग्रवाल. निवासी–पत्नेट नं खान, बिना छत के, गाजियाबाद यूपी, <u>और</u> 5 रेलवे रोड बर लोहा मं श्री अवदेश कुमार पुत्र श्री राहुल अग्रवाल. निवासी–पत्नेट नं खान, बिना छत के, गाजियाबाद यूपी, <u>जौर</u> 5 रेलवे रोड बर लोहा मं श्री अवदेश कुमार पुत्र स्व. रायि खावतीर पुत्र स्व. राम मूरत वि दिल्ली–59 लोहा मं श्री तराज कुमार पायेल पुत्र स्व. रायि खायतार नेयल (गारंट श्री तराज कुमार पुत्र स्व. रायि खावार् न्य राक म् श्री तती ताल, राज अपतेनंट, गाजियावाद–20001 श्री तराज कुमार पायेल पुत्र स्व. रायि क्यावार, निवासी त्तोडा मंद श्री मानव अग्रवाल पुत्र श्री काति प्रसाद अग्रवतार नेवल सि श्री तस्त राखी एंटरग्राइजेज (प्रोप.) श्रीमती राखी पत्नी श्र श तराय प्रत्या एंटरग्राइजेज (प्रोप.) श्रीमती राखी पत्नी श्र गाजियावाद यूपी. तारंट श श्री मोनेल कुमार सुप्र स्र ताविश चंद शर्मा, निवासी गाजियावाद यूपी. तोतेल कुमार गुरात पुत्र श्री योगेन्द कुमार गुरात एव श्री जीतेन्द्र कुमार गुरात पुत्र श्री योगेन्द्र कुमार गुरात पुरा शो जीतेन्द्र कुमार गुरात पुत्र श्री योगेन्द्र कुमार गुरात पुरा शो को जेतन्द्र कुमार गुरात पुत्त न न राजियावाद	ते का कोई अधिकार नहीं है। आईडीएफसी (पूर्व का केते के नोटिस किया जाता है कि नीथे वणिंत उचल सम्पतियां जो प्र त किय निया जाता है कि नीथे वणिंत उचल सम्पतियां जो प्र त किय निया जाता है कि नीथे वणिंत उचल सम्पतियां जो प्र त किय नाम का नाम का नाम खोते का नाम एवं पता खी 613300 पुराना 155. खसरा नं. 976 पुरवा इस्माइल खान तुरव नगर खी(613300) (नवासी-एफ-277 नंद ग्राम गाजियाबाद यूपी-20101)) निवासी-एफ-277 नंद ग्राम गाजियाबाद यूपी-20101) निवासी मकान नं. 193-बी तुराब नगर गाजियाबाद क्वी(613300) रफ ट तृतीय तल. प्लॉट नं. 192 तुराब नगर पाजियाबाद त्वरी, निवासी मकान नं. 193-बी तुराब नगर पाजियाबाद त्वरी, निवासी मकान नं. 193-बी तुराब नगर पाजियाबाद त्वरी, निवासी मकान नं. 193-बी तुराब नगर पार्जियाबाद त्वरी, निवासी मकान नं. 193 त्या क जार 4 गाइयाबाद त्वरी, निवासी-जार-व/41 वी ब्लॉक आर 4 मोहन गार्डन बी(613300) इं. एफ 2 तृतीय तल. प्लॉट नं. 192 तुराब नगर पूर्वा इस्माइल जारिया गाजियाबाद यूपी. डी.(613300) इं. 129, भूतल, मोहन मीकिन सोसायटी सेक्टर-5 वसुंघस प्रसाद (गारंटर) निवासी-6/637. जी 3 संक्टर-6 वैशाली बी.(613300) बज्वंना जैन पत्नी स्व. रवि कुमार जैन निवासी फलेट नं. 302. त) निवासी 21.77 लंवर कॉलोनी, लाल क्वार्टर गाजियाबाद की (613300) बनितक कुमार. निवासी-वार्ट वूसी. =-117 मालिवारा गाजियाबाद यूपी. डी.(613300) बनितक कुमार. निवासी-105 बाल्मीकि कुंज पटेल नगर वासी: प्लंट नं. वी-144 तृतीय तल. पलंट नं. 7 न्यू पंवतटी की (613300) बीयक गुप्ता पुत्र श्री योगेन्द कुमार गुप्ता, निवासी: पलेट नं. वार्ड प्लॉट नं. 222. तुराव नगर जाजियावाद	प्राधिकृत अधिकारी फर्स्ट बैंक लिमिटेड उटल फर्स्ट लिमिटेड) 5 के साथ पठित वित्तीय विभूत लेनदार के पास बंधय (E) सरफासी अधिनियम 2003 (G) मांग सूचन (H) कब्जा की स्थिति (((G) रू. 49,99,595 (() (G) रू. 20,49,865 (() (G) रू. 20,49,865 (() (G) रू. 20,49,865 (() (() (G) रू. 2063810 (() (() (G) रू. 25,93,82 (() (() (G) रू. 25,93,82 (() (() (G) रू. 25,93,82 (() (() (G) रू. 32,67,11) (() (G) रू. 32,67,11) (() (() (G) रू. 32,67,11) (() (() (G) रू. 32,67,11)	लागतॉ, शुल्कों और खर्बों के स पत्राचार का पताः श्री राकेश श दिल्ली–110005, दिलांक: 31.10.2023, स्थानः गांग दिलांक: 31.10.2023, स्थानः गांग प्रात्याभूत पांग प्रात्याभूत पांग संकेतिक / प्रातिक/ प्रात्याभूत पांग तियम 2002 की धारा 13(2) क मांग सूचना की तिथि 2 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा क ना के अनुसार बकाया राशि 1 सांकेतिक / भौतिक/ रचना E) 13.01.2017 F) 01.05.2017 9/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.01.2017 F) 22.09.2017 3/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.01.2017 F) 24.04.2023 .41 + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.10.2016 F) 09.03.2017 D/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.10.2016 F) 15.12.2018 1/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.10.2016 F) 29.07.2017 1.21 + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.10.2016 F) 09.03.2017 1/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.10.2016 F) 09.03.2017 1/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 13.10.2016 F) 10.12.2021 .20 + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 18.03.2019 F) 18.07.2019 D.46 + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक E) 03.10.2020 F) 10.12.2021 .40 + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक	थ उपरोक्त बकाया राशि जमा करके ऊपर त, मो. नं.7230070463, ईमेल: rakesh.sha SZILIC	र उल्लिखित प्रतिभूति संपतियों क ma02@janabank.com, जना र कविनगर, गाजिय 720088, ई—मेल: 720088, देशिण में – कुडे मल 720088, दक्षिण में – कुडे मल 720088, दक्षिण में – कुडे मल 720088, दक्षिण में – कुडे मल 720187 स्वयत में – 40° दाँडी रो 720187 स्वयत में – 40° दाँडी रो 730087 स्वयत क्षेत्रफल 41.80 730087 स्वयत के कि प्लैट नं. 5/82 1911, यह सम्पत्ति आरुषि उने हे 730087 स्वयत के कि प्लैट नं. 5/82 1911, यह सम्पत्ति आरुषि जैन के न 101387 सड़क, दक्षिण में – प्लॉट 730087 स्वयत क्षेत्रफल 83.81 वर्ग मी. 73187 सड़क, दक्षिण में – 6 मी. 73187 सड़क, दक्षिण में – 70087 में न 73187 सड़क, दक्षिण में – 70187 में न 73187 स्वर में – 10187 स्वर, क्षेत्रफल 8 73187 स्वर में – 70187 में न 73187 स्वर म	को भुनाया जाता है। स्मॉल फाइनेंस बॅंक लिमि ाजि या बा द , 201 cs8228@pnk 2002 के अधीन अप वंक के प्राधिकृत अधिक म्यत्तियों का विवरप नाम (सम्पत्तियों व कि7, भूतल, ओल्ड 166 कत, कवर्ड क्षेत्रफल 32.5 कल 99.50 वर्ग गज अर्था उस और नाली खरंजा, का मकान 1, तृतीय तल, बिना छव का अंत्रफल 41.80 वर्ग य रोड, उत्तर में – 30' धौर बी, तुराब नगर, गाजिय ख में – अन्य की सम्पत्ति हे उत्तर में – 30' धौर बी, तुराब नगर, गाजिय ख में – अन्य की सम्पत्ति हे उत्तर में – 30' धौर को नाम पर है। चौह दे नं. 5 / 541 129, भूतल, मोहन मीकि के नाम पर है। चौह दे नं. 5 / 541 129, भूतल, मोहन मीकि के नाम पर है। चौह दी योड़ी रोड के वत्तीय तल, छत के अ नाम पर है। चौहदी: पूर के वान फत के अधिकार के हमा सराय उर्फ कोट ग ाम पर है। चौहदी: पूर के वान फत के अधिकार के हमा सराय उर्फ कोट ग ाम पर है। चौहदी: पूर के वान फत के अधिकार के हमा सराय उर्फ कोट ग ाम पर है। चौहदी: पूर के त्ता म न संपत्ति का शेष भा	भेटेड, 16/12, दूसरी मंजिल, र डस्ता/- प्राधिकृत अधिकार , 001, b.co.in चल सम्पत्तियों के विक्रय कारी द्वारा लिया गया है, को ' ण के बंधककती) 6, खसरा नं. 976, पूर्वा इस्म 0 वर्ग मी., ति 83.20 वर्ग मी., यह सम्पत्ति पश्चिम में - राम चंदर का म त के अधिकार के) सीधे हाथ व मी., यह सम्पत्ति निर्मला पुत्र ब ही रोड, दक्षिण में - वाकुर दा गबाद, यू.पी. में स्थित, क्षेत्रफल ते, पश्चिम में - 20फीट चीडी 192, तुराव नगर, पूर्वा इस्माः रस्वती अग्रवाल और सहुल अ रोड, दक्षिण में - वाकुर दास त. 538, सेक्टर-5 वसुन्धरा ग ही : पूरव में - प्लॉट नं. 5/5 न सोसायटी सेक्टर-5, वसुन्ध : पूरव में - प्लॉट नं. 5/130 स्थिकार सहित, राज अपार्टमेंट रव में - प्लॉट नं. 2वी/862, प और 447) से मिलकर, मो. सिं व अग्रवाल के नाम पर है, वी सं ग, दक्षिण में - खेमचंद की सं) शामिल है, तृतीय त्तल (4 मी ाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, क व में - प्लॉट नं. वी 107सी, प , (बिना छत के अधिकार के) प मत्ती औ जीतेन्द्र कुमार गुप्ता तेड़ी रोड, उत्तर में - सरकारी	डल्यू .ई.ए, आर्य समाज र से, कृते जना स्मॉल फाइन डोट्टा डी डोट्टा डी हेतु ई—नीलामी विक्र "जहाँ है, जैसा है और ज त इस खान तुराव नगर त प्रभात गुप्ता और पूनम कान, उत्तर में — नेहरू की तरफ, प्लॉट न. 192, मबू लाल के नाम पर है । त युलाटी का मकान की तरफ, प्लॉट न. 192, मबू लाल के नाम पर है । त युलाटी का मकान ब 43.47 वर्ग मी. (52 वर्ग ते रोड, उत्तर में — सुरेश इंल खान, बिना छत के अग्रवाल के नाम पर है । युलाटी का मकान माजियाबाद—201010 में 537, पश्चिम में — प्लॉट नं. 2 धरा गाजियाबाद उ.प्र. में 0, पश्चिम में — प्लॉट नं. 2 सेब्बनपुरा ग्राम—घूकना, इंदा : पूरव में — मूल चंद याजि हमारत) प्लॉट नं. वी जिला इमारत) प्लॉट नं. वी एवआईजी टाईप, प्लॉट नं. वी एवआईजी टाईप, प्लॉट नं. वी	रा किए गए समी रोड, करोल बाग, रे बेक सिमिटेड का ि आज एवं न्हे दे करोल बाग, रे बेक सिमिटेड केय नोटिस, नो कुछ भी हैं' के आधार प (A) आरक्षित मूल्य (B) ईएमडी (C) बोली वृद्धि राशि (G) क. 13.07 लाख (B) रु. 13.07 लाख (B) रु. 13.07 लाख (B) रु. 13.0 लाख (B) रु. 1.31 लाख (C) रु. 10,000/- (C) रु. 10,000/-	दिनांक 18/10/20 पालय की मुद्रा ति वि	से जारी किया गया। आयुक्त बेलासपुर संभाग लासपुर (छ.ग.)
अ स ति अग कर्जव कर्जव <tr< td=""><td>मति पर उपस्थित किसी चल आरितयों, यदि कोई हो, की विक्री ान : पाजियाबाद श्वि : 30.10.2023</td><td>ते का कोई अधिकार नहीं है। आईडीएफसी (पूर्व का केंसि) बित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुव ह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्र 1 वियरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार का नाम वा नाम</td><td>प्राधिकृत अधिकारी फर्स्ट बैंक लिमिटेड उटल फर्स्ट लिमिटेड) 5 के साथ पठित वित्तीय वतिमूत लेनदार के पास बंधय (E) सरफासी अधिनियम 2002 (G) मांग सूचन (H) कब्जा की स्थिति (((G) रू. 49,99,595 (((G) रू. 20,49,862 (((G) रू. 5920268. (((G) रू. 5920268. (((G) रू. 2063810 (((G) रू. 25,93,82 (((G) रू. 22,28,021 (((G) रू. 22,28,021 (((G) रू. 32,67,11) (((G) रू. 32,67,11) (((G) रू. 32,67,11) (((G) रू. 32,67,11) (((G) रू. 32,67,11) (((G) रू. 32,67,11) (((G) रू. 32,67,11)</td><td>लागतॉ, शुल्कों और खर्बों के स पत्राचार का पता: श्री राकेश श दिल्ती–110005, विल्ती–110005, विल्ती–110005, विल्ती–110005, विल्ती–110005, विल्ती–110005, विल्ती–110005, विल्ती–110005, विल्ती–110005, विक्रिया का प्रतिभूतिकप् क / प्रभारित है, का सांकेतिक / प्रत्याभूत पाँग स्वांग सूचना की तिथि 2 की धारा 13(4) के अंतर्गत कजजा न ना के अनुसार बकाया राशि 1 सांकेतिक / भौतिक / रचनाा (E) 13.01.2017 (F) 04.05.2017 9/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 13.01.2017 (F) 22.09.2017 3/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 13.01.2017 (F) 24.04.2023 41 + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 13.10.2016 (F) 09.03.2017 /- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 13.10.2016 (F) 09.03.2017 /- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 13.10.2016 (F) 09.03.2017 /- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 13.10.2016 (F) 09.03.2017 /- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 18.03.2019 (F) 1</td><td>थ उपरोक्त बकाया राशि जमा करके ऊपर म. नं.7230070463, ईमेल: rakesh.sha जयायाद मण्ड के के ना. मण्ड के के ना. प और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हि वास्ताविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार). प्र सम्पत्ति का वह समस्त भाग पि ला-कैला, परगना-लोनी पुराना के नाम पर है। चौहवी कारपोरेट सोसाइटी लि. गां पि सम्पत्ति का वह समस्त भाग पूर्वा इस्माईल खान, तुराब न चौहवी: पूरब में – 12' चौड़ी सम्पत्ति का वह समस्त भाग पाज) यह सम्पत्ति खुनील कुम का मकान, दक्षिण में – मन्दि सम्पत्ति का वह समस्त भाग अधिकार के, गाजियाबाद, यू चौहदी: पूरव में – 12' चौड़ी सम्पत्ति का वह समस्त भाग पाज) यह सम्पत्ति खुनील कुम का मकान, दक्षिण में – मन्दि सम्पत्ति का वह समस्त भाग सम्पत्ति का वह समस्त भाग स्थत, क्षेत्रफल 41.54 वर्ग 5/ 128, उत्तर में – 6 मी. सम्पत्ति का वह समस्त भाग सम्पत्ति का वह समस्त भाग स्वित, धोत्रफल 41.54 वर्ग सम्पत्ति का वह समस्त भाग स्वित, धोत्रफल वी.54 वर्ग सम्पत्ति का वह समस्त भाग स्वित, योत्रे का वह समस्त भाग स्वित, योत्रफल वी.54 वर्ग स्वां के संपत्ति गी वह समस्त भाग स्वां के संपत्ति गी वह समस्त भाग स्वां के संपत्ति गी स्व सार्ग में – रास्य सम्पत्ति का वह समस्त भाग स्वां के संपत्ति गीव्र यहा मोत् की राखी स्वां के संपत्ति गीव्र समस्त भाग स्वां के संपत्ति गीव्र समस्त भाग संत्याती / श्रीसती मनीषा त्या</td><td>र उल्लिखित प्रतिभूति संपतियों क ma02@janabank.com, जना र कविनगर, गाजिय 720088, ई—मेल: 720088, देशिण में – कुडे मल 720088, दक्षिण में – कुडे मल 720088, दक्षिण में – कुडे मल 720088, दक्षिण में – कुडे मल 720187 स्वयत में – 40° दाँडी रो 720187 स्वयत में – 40° दाँडी रो 730087 स्वयत क्षेत्रफल 41.80 730087 स्वयत के कि प्लैट नं. 5/82 1911, यह सम्पत्ति आरुषि उने हे 730087 स्वयत के कि प्लैट नं. 5/82 1911, यह सम्पत्ति आरुषि जैन के न 101387 सड़क, दक्षिण में – प्लॉट 730087 स्वयत क्षेत्रफल 83.81 वर्ग मी. 73187 सड़क, दक्षिण में – 6 मी. 73187 सड़क, दक्षिण में – 70087 में न 73187 सड़क, दक्षिण में – 70187 में न 73187 स्वर में – 10187 स्वर, क्षेत्रफल 8 73187 स्वर में – 70187 में न 73187 स्वर म</td><td>को भुनाया जाता है। स्मॉल फाइनेंस बॅंक लिमि ाजि या बा द , 201 cs8228@pnk 2002 के अधीन अप वंक के प्राधिकृत अधिक म्यत्तियों का विवरप नाम (सम्पत्तियों व कि7, भूतल, ओल्ड 166 कत, कवर्ड क्षेत्रफल 32.5 कल 99.50 वर्ग गज अर्था उस और नाली खरंजा, का मकान 1, तृतीय तल, बिना छव का अंत्रफल 41.80 वर्ग य रोड, उत्तर में – 30' धौर बी, तुराब नगर, गाजिय ख में – अन्य की सम्पत्ति हे उत्तर में – 30' धौर बी, तुराब नगर, गाजिय ख में – अन्य की सम्पत्ति हे उत्तर में – 30' धौर को नाम पर है। चौह दे नं. 5 / 541 129, भूतल, मोहन मीकि के नाम पर है। चौह दे नं. 5 / 541 129, भूतल, मोहन मीकि के नाम पर है। चौह दी योड़ी रोड के वत्तीय तल, छत के अ नाम पर है। चौहदी: पूर के वान फत के अधिकार के हमा सराय उर्फ कोट ग ाम पर है। चौहदी: पूर के वान फत के अधिकार के हमा सराय उर्फ कोट ग ाम पर है। चौहदी: पूर के वान फत के अधिकार के हमा सराय उर्फ कोट ग ाम पर है। चौहदी: पूर के त्ता म न संपत्ति का शेष भा</td><td>भेटेड, 16/12, दूसरी मंजिल, र डस्ता/- प्राधिकृत अधिकार , 001, b.co.in चल सम्पत्तियों के विक्रय कारी द्वारा लिया गया है, को ' ण के बंधककती) 6, खसरा नं. 976, पूर्वा इस्म 0 वर्ग मी., ति 83.20 वर्ग मी., यह सम्पत्ति पश्चिम में - राम चंदर का म त के अधिकार के) सीधे हाथ व मी., यह सम्पत्ति निर्मला पुत्र ब ही रोड, दक्षिण में - वाकुर दा गबाद, यू.पी. में स्थित, क्षेत्रफल ते, पश्चिम में - 20फीट चीडी 192, तुराव नगर, पूर्वा इस्माः रस्वती अग्रवाल और सहुल अ रोड, दक्षिण में - वाकुर दास त. 538, सेक्टर-5 वसुन्धरा ग ही : पूरव में - प्लॉट नं. 5/5 न सोसायटी सेक्टर-5, वसुन्ध : पूरव में - प्लॉट नं. 5/130 स्थिकार सहित, राज अपार्टमेंट रव में - प्लॉट नं. 2वी/862, प और 447) से मिलकर, मो. सिं व अग्रवाल के नाम पर है, वी सं ग, दक्षिण में - खेमचंद की सं) शामिल है, तृतीय त्तल (4 मी ाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, क व में - प्लॉट नं. वी 107सी, प , (बिना छत के अधिकार के) प म्यत्ति श्री जीतेन्द्र कुमार गुप्ता तेड़ी रोड, उत्तर में - सरकारी</td><td>डल्यू .ई.ए, आर्य समाज र से, कृते जना स्मॉल फाइन डोट्टा डी डोट्टा डी हेतु ई—नीलामी विक्र "जहाँ है, जैसा है और ज त इस खान तुराव नगर त प्रभात गुप्ता और पूनम कान, उत्तर में — नेहरू की तरफ, प्लॉट न. 192, मबू लाल के नाम पर है । त युलाटी का मकान की तरफ, प्लॉट न. 192, मबू लाल के नाम पर है । त युलाटी का मकान ब 43.47 वर्ग मी. (52 वर्ग ते रोड, उत्तर में — सुरेश इंल खान, बिना छत के अग्रवाल के नाम पर है । युलाटी का मकान माजियाबाद—201010 में 537, पश्चिम में — प्लॉट नं. 2 धरा गाजियाबाद उ.प्र. में 0, पश्चिम में — प्लॉट नं. 2 सेब्बनपुरा ग्राम—घूकना, इंदा : पूरव में — मूल चंद याजि हमारत) प्लॉट नं. वी जिला इमारत) प्लॉट नं. वी एवआईजी टाईप, प्लॉट नं. वी एवआईजी टाईप, प्लॉट नं. वी</td><td>रा किए गए समा रोड, करोल बाग, रेस बेक सिंगटेड का वि आज एवं न्ह राक्य नीटिस, नो कुछ भी हैं'' के आधार प ता कि इंएमडी (A) आरक्षित मूल्य (B) ईएमडी (C) बोली वृद्धि राशि (B) रु. 1.30 लाख (B) रु. 1.31 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 12.92 लाख (B) रु. 1.30 लाख (B) रु. 1.30 लाख (B) रु. 1.30 लाख (B) रु. 1.53 लाख (B) रु. 1.53 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 22.15 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 21.46 लाख (B) रु. 2.15 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 21.51 लाख (B) रु. 2.15 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 21.51 लाख (B) रु. 2.15 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 23.43 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 23.43 लाख (B) रु. 2.15 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 23.43 लाख (B) रु. 2.15 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 23.43 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 23.5 लाख (C) रु. 10,000/- (C) रु. 10,000/-</td><td>देनक 18/10/20 वालय की मुद्रा वि की ईज द्राट्यजा। की ईज द्राट्यजा। की ही ईज द्राट्यजा। की ही ही जी ही तिथि एवं माता की तिथि एवं प्रवांड 11.00 बजे से अपांड 04.00 वजे 17-11-2023 पूर्वांड 11.00 बजे से अपांड 04.00 वजे 17-11-2023</td><td>से जारी किया गया। आयुक्त बेलासपुर संभाग लासपुर (छ.ग.)</td></tr<>	मति पर उपस्थित किसी चल आरितयों, यदि कोई हो, की विक्री ान : पाजियाबाद श्वि : 30.10.2023	ते का कोई अधिकार नहीं है। आईडीएफसी (पूर्व का केंसि) बित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुव ह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्र 1 वियरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार का नाम वा नाम	प्राधिकृत अधिकारी फर्स्ट बैंक लिमिटेड उटल फर्स्ट लिमिटेड) 5 के साथ पठित वित्तीय वतिमूत लेनदार के पास बंधय (E) सरफासी अधिनियम 2002 (G) मांग सूचन (H) कब्जा की स्थिति (((G) रू. 49,99,595 (((G) रू. 20,49,862 (((G) रू. 5920268. (((G) रू. 5920268. (((G) रू. 2063810 (((G) रू. 25,93,82 (((G) रू. 22,28,021 (((G) रू. 22,28,021 (((G) रू. 32,67,11) (((G) रू. 32,67,11) (((G) रू. 32,67,11) (((G) रू. 32,67,11) (((G) रू. 32,67,11) (((G) रू. 32,67,11) (((G) रू. 32,67,11)	लागतॉ, शुल्कों और खर्बों के स पत्राचार का पता: श्री राकेश श दिल्ती–110005, विल्ती–110005, विल्ती–110005, विल्ती–110005, विल्ती–110005, विल्ती–110005, विल्ती–110005, विल्ती–110005, विल्ती–110005, विक्रिया का प्रतिभूतिकप् क / प्रभारित है, का सांकेतिक / प्रत्याभूत पाँग स्वांग सूचना की तिथि 2 की धारा 13(4) के अंतर्गत कजजा न ना के अनुसार बकाया राशि 1 सांकेतिक / भौतिक / रचनाा (E) 13.01.2017 (F) 04.05.2017 9/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 13.01.2017 (F) 22.09.2017 3/- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 13.01.2017 (F) 24.04.2023 41 + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 13.10.2016 (F) 09.03.2017 /- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 13.10.2016 (F) 09.03.2017 /- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 13.10.2016 (F) 09.03.2017 /- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 13.10.2016 (F) 09.03.2017 /- + व्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक (E) 18.03.2019 (F) 1	थ उपरोक्त बकाया राशि जमा करके ऊपर म. नं.7230070463, ईमेल: rakesh.sha जयायाद मण्ड के के ना. मण्ड के के ना. प और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हि वास्ताविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार). प्र सम्पत्ति का वह समस्त भाग पि ला-कैला, परगना-लोनी पुराना के नाम पर है। चौहवी कारपोरेट सोसाइटी लि. गां पि सम्पत्ति का वह समस्त भाग पूर्वा इस्माईल खान, तुराब न चौहवी: पूरब में – 12' चौड़ी सम्पत्ति का वह समस्त भाग पाज) यह सम्पत्ति खुनील कुम का मकान, दक्षिण में – मन्दि सम्पत्ति का वह समस्त भाग अधिकार के, गाजियाबाद, यू चौहदी: पूरव में – 12' चौड़ी सम्पत्ति का वह समस्त भाग पाज) यह सम्पत्ति खुनील कुम का मकान, दक्षिण में – मन्दि सम्पत्ति का वह समस्त भाग सम्पत्ति का वह समस्त भाग स्थत, क्षेत्रफल 41.54 वर्ग 5/ 128, उत्तर में – 6 मी. सम्पत्ति का वह समस्त भाग सम्पत्ति का वह समस्त भाग स्वित, धोत्रफल 41.54 वर्ग सम्पत्ति का वह समस्त भाग स्वित, धोत्रफल वी.54 वर्ग सम्पत्ति का वह समस्त भाग स्वित, योत्रे का वह समस्त भाग स्वित, योत्रफल वी.54 वर्ग स्वां के संपत्ति गी वह समस्त भाग स्वां के संपत्ति गी वह समस्त भाग स्वां के संपत्ति गी स्व सार्ग में – रास्य सम्पत्ति का वह समस्त भाग स्वां के संपत्ति गीव्र यहा मोत् की राखी स्वां के संपत्ति गीव्र समस्त भाग स्वां के संपत्ति गीव्र समस्त भाग संत्याती / श्रीसती मनीषा त्या	र उल्लिखित प्रतिभूति संपतियों क ma02@janabank.com, जना र कविनगर, गाजिय 720088, ई—मेल: 720088, देशिण में – कुडे मल 720088, दक्षिण में – कुडे मल 720088, दक्षिण में – कुडे मल 720088, दक्षिण में – कुडे मल 720187 स्वयत में – 40° दाँडी रो 720187 स्वयत में – 40° दाँडी रो 730087 स्वयत क्षेत्रफल 41.80 730087 स्वयत के कि प्लैट नं. 5/82 1911, यह सम्पत्ति आरुषि उने हे 730087 स्वयत के कि प्लैट नं. 5/82 1911, यह सम्पत्ति आरुषि जैन के न 101387 सड़क, दक्षिण में – प्लॉट 730087 स्वयत क्षेत्रफल 83.81 वर्ग मी. 73187 सड़क, दक्षिण में – 6 मी. 73187 सड़क, दक्षिण में – 70087 में न 73187 सड़क, दक्षिण में – 70187 में न 73187 स्वर में – 10187 स्वर, क्षेत्रफल 8 73187 स्वर में – 70187 में न 73187 स्वर म	को भुनाया जाता है। स्मॉल फाइनेंस बॅंक लिमि ाजि या बा द , 201 cs8228@pnk 2002 के अधीन अप वंक के प्राधिकृत अधिक म्यत्तियों का विवरप नाम (सम्पत्तियों व कि7, भूतल, ओल्ड 166 कत, कवर्ड क्षेत्रफल 32.5 कल 99.50 वर्ग गज अर्था उस और नाली खरंजा, का मकान 1, तृतीय तल, बिना छव का अंत्रफल 41.80 वर्ग य रोड, उत्तर में – 30' धौर बी, तुराब नगर, गाजिय ख में – अन्य की सम्पत्ति हे उत्तर में – 30' धौर बी, तुराब नगर, गाजिय ख में – अन्य की सम्पत्ति हे उत्तर में – 30' धौर को नाम पर है। चौह दे नं. 5 / 541 129, भूतल, मोहन मीकि के नाम पर है। चौह दे नं. 5 / 541 129, भूतल, मोहन मीकि के नाम पर है। चौह दी योड़ी रोड के वत्तीय तल, छत के अ नाम पर है। चौहदी: पूर के वान फत के अधिकार के हमा सराय उर्फ कोट ग ाम पर है। चौहदी: पूर के वान फत के अधिकार के हमा सराय उर्फ कोट ग ाम पर है। चौहदी: पूर के वान फत के अधिकार के हमा सराय उर्फ कोट ग ाम पर है। चौहदी: पूर के त्ता म न संपत्ति का शेष भा	भेटेड, 16/12, दूसरी मंजिल, र डस्ता/- प्राधिकृत अधिकार , 001, b.co.in चल सम्पत्तियों के विक्रय कारी द्वारा लिया गया है, को ' ण के बंधककती) 6, खसरा नं. 976, पूर्वा इस्म 0 वर्ग मी., ति 83.20 वर्ग मी., यह सम्पत्ति पश्चिम में - राम चंदर का म त के अधिकार के) सीधे हाथ व मी., यह सम्पत्ति निर्मला पुत्र ब ही रोड, दक्षिण में - वाकुर दा गबाद, यू.पी. में स्थित, क्षेत्रफल ते, पश्चिम में - 20फीट चीडी 192, तुराव नगर, पूर्वा इस्माः रस्वती अग्रवाल और सहुल अ रोड, दक्षिण में - वाकुर दास त. 538, सेक्टर-5 वसुन्धरा ग ही : पूरव में - प्लॉट नं. 5/5 न सोसायटी सेक्टर-5, वसुन्ध : पूरव में - प्लॉट नं. 5/130 स्थिकार सहित, राज अपार्टमेंट रव में - प्लॉट नं. 2वी/862, प और 447) से मिलकर, मो. सिं व अग्रवाल के नाम पर है, वी सं ग, दक्षिण में - खेमचंद की सं) शामिल है, तृतीय त्तल (4 मी ाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, क व में - प्लॉट नं. वी 107सी, प , (बिना छत के अधिकार के) प म्यत्ति श्री जीतेन्द्र कुमार गुप्ता तेड़ी रोड, उत्तर में - सरकारी	डल्यू .ई.ए, आर्य समाज र से, कृते जना स्मॉल फाइन डोट्टा डी डोट्टा डी हेतु ई—नीलामी विक्र "जहाँ है, जैसा है और ज त इस खान तुराव नगर त प्रभात गुप्ता और पूनम कान, उत्तर में — नेहरू की तरफ, प्लॉट न. 192, मबू लाल के नाम पर है । त युलाटी का मकान की तरफ, प्लॉट न. 192, मबू लाल के नाम पर है । त युलाटी का मकान ब 43.47 वर्ग मी. (52 वर्ग ते रोड, उत्तर में — सुरेश इंल खान, बिना छत के अग्रवाल के नाम पर है । युलाटी का मकान माजियाबाद—201010 में 537, पश्चिम में — प्लॉट नं. 2 धरा गाजियाबाद उ.प्र. में 0, पश्चिम में — प्लॉट नं. 2 सेब्बनपुरा ग्राम—घूकना, इंदा : पूरव में — मूल चंद याजि हमारत) प्लॉट नं. वी जिला इमारत) प्लॉट नं. वी एवआईजी टाईप, प्लॉट नं. वी एवआईजी टाईप, प्लॉट नं. वी	रा किए गए समा रोड, करोल बाग, रेस बेक सिंगटेड का वि आज एवं न्ह राक्य नीटिस, नो कुछ भी हैं'' के आधार प ता कि इंएमडी (A) आरक्षित मूल्य (B) ईएमडी (C) बोली वृद्धि राशि (B) रु. 1.30 लाख (B) रु. 1.31 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 12.92 लाख (B) रु. 1.30 लाख (B) रु. 1.30 लाख (B) रु. 1.30 लाख (B) रु. 1.53 लाख (B) रु. 1.53 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 22.15 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 21.46 लाख (B) रु. 2.15 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 21.51 लाख (B) रु. 2.15 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 21.51 लाख (B) रु. 2.15 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 23.43 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 23.43 लाख (B) रु. 2.15 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 23.43 लाख (B) रु. 2.15 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 23.43 लाख (C) रु. 10,000/- (A) रु. 23.5 लाख (C) रु. 10,000/- (C) रु. 10,000/-	देनक 18/10/20 वालय की मुद्रा वि की ईज द्राट्यजा। की ईज द्राट्यजा। की ही ईज द्राट्यजा। की ही ही जी ही तिथि एवं माता की तिथि एवं प्रवांड 11.00 बजे से अपांड 04.00 वजे 17-11-2023 पूर्वांड 11.00 बजे से अपांड 04.00 वजे 17-11-2023	से जारी किया गया। आयुक्त बेलासपुर संभाग लासपुर (छ.ग.)
अ स त अ कर्जव	मति पर उपस्थित किसी चल आसितों, यदि कोई हो, की विक्री मान : गाजियाबाद थि : 30.10.2023	ते का कोई अधिकार नहीं है। आईडीएफसी (पूर्व का केंसि) बित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुव ह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्र 1 वियरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार का नाम वा नाम	प्राधिकृत अधिकारी फर्स्ट बैंक लिमिटेड गटल फर्स्ट लिमिटेड) 5 b n c t i c c i c c i c c i c c i c c i c c i c c c c c c c c c c	 लागतॉ, शुल्कों और खर्बों के स प्रवाचार का पताः श्री राकेश श दिल्ली–10005, दिनांक: 31.10.2023, स्थानः गां (कि. का प्रतिभूतिकप् क / प्रभारित हे, का साकंतिक / प्रत्याभूत परि नियम 2002 की धारा 13(2) क मंग सूचना की तिथि 2 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा क ना के अनुसार बकाया राशि 1 सांकेतिक / भौतिक / रचना E) 13.01.2017 (म) सांकेतिक 	थ उपरोक्त बकाया राशि जमा करके ऊपर म. नं.7230070463, ईमेल: rakesh.sha जयावाद जयावाद मण्ड केंग्रेजे13, मो. : 99717 ण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हि वास्ताविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार). प्र सम्पत्ति का बह समस्त भाग विलाकैला, परगनालोनी पुराना प्लॉट नं155 पर नि गुप्ता के नाम पर है। वोहदी कॉरपोरेट सोसाइटी लि. गा सम्पत्ति का वह समस्त भाग पूर्वा इसाईल खान, तुराब न चौहदी: पूरब में – 12' चौडी सम्पत्ति का वह समस्त भाग गज) यह सम्पत्ति सुनील कु- का मकान, दक्षिण में – मन्दि सम्पत्ति का वह समस्त भाग अधिकार के, गाजियाबाद, यू नौहदी: पूरब में – 12' चौडी सम्पत्ति का वह समस्त भाग अधिकार के, गाजियाबाद, यू नौहदी: पूरब में – 12 चौडी सम्पत्ति का वह समस्त भाग अधिकार के, गाजियाबाद, यू नौहदी: पूरब में – 12 चौडी सम्पत्ति का वह समस्त भाग स्थित, क्षेत्रफल 41.54 वर्ग 5./128, उत्तर में – 6 मी. सम्पत्ति का वह समस्त भाग स्थित, क्षेत्रफल 67.22 वर्ग में यी / 860, उत्तर में – 6 मी. च सम्पत्ति का वह समस्त भाग सम्पत्ति का वह समस्त भाग स्वत, स्वेत्रफल 67.22 वर्ग में यी / 860, उत्तर में – 6 मी. च सम्पत्ति का वह समस्त भाग स्वित, योत्रेज वी, खसरा न स्वित, योत्र यात्रि की वह समस्त भाग स्वत्त स्वेत्रफल वी. 24 वर्ग स्वत्त से का वह समस्त भाग स्वत्त से स्वर्फ के वी, खसरा न स्वत्त से स्वर्फ वी स्वर्फ वी रख स्वत्त से स्वर्फ के वी, खसरा न स्वत्त से स्वर्फ के वी, खसरा न स्वत्त से का वह समस्त भाग स्वत्त से स्वर्फ वी स्वर्फ वी स्वर्फ स्वत्त से स्वर्फ के वी, खसरा न स्वत्त से त्र के वह समस्त भाग स्वत्त से त्र यो स्वर्फ वी, खसरा न स्वत्त से स्वर्फ वी स्वर्फ वी स्वर्फ स्वत्त से स्वर्फ वी स्वर्फ वी स्वर्फ स्वत्त से स्वर्फ के वी, खतरा से – व सर्त स्वर्फ के वा वह स्वर्फ वी स्वर्फ वी स्वर्फ स्वर्फ के वा वह स्वर्फ वी स्वर्फ वी स्वर्फ स्वर्फ वे न व स्वर्फ वी स्वर्फ वी स्वर्फ स्वर्फ वे न व सरक्त वी स्वर्फ स्वर्फ वे न व स्वर्फ वा त्या स्वर्फ वा स्वर्फ स्	र उल्लिखित प्रतिभूति संपतियों क ma02@janabank.com, जना र कविनगर, गाजिय 720088, ई—मेल: दिव का प्रवर्तन अधिनियम, 3 ति नया प्लॉट नं. 167 क्षेत्रफल पूरव अंश जोकि फलैट नं. एफ–1 गर, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित गती, पश्चिम में – 40' बीडी रो एवं अशं जोकि मकान नं. 193 ब गर के नाम पर है। चीहदी : पूरव र एवं अशं जोकि पलैट नं. एफ 2 रूपी. में स्थित, क्षेत्रफल 41.80 व गती, पश्चिम में – 40' बीडी रो एवं अशं जोकि पलैट नं. 5/52 रिये र, बेझ जोकि मकान नं. 5/12 मी., यह सम्पत्ति ओकवि पलैट नं. 5/26 रिये, बेश जोकि मकान नं. 5/12 मी., यह सम्पत्ति ओकवि पलैट नं. 5/26 रिये, क्षेत्र जोकि मकान नं. 5/12 मी., यह सम्पत्ति ओकवि यत्ते रं ते, यह सम्पत्ति ओकवि वत्ते रं ते, यह सम्पत्ति ओकवि वत्ते रं ते, यह सम्पत्ति आकवि पलैट नं. 5/26 रिये, क्षेत्र जोकि मकान नं. 5/12 मी., यह सम्पत्ति आकवि पलैट नं. 17 एवं अशं जोकि मकान नं. 5/12 मी., यह सम्पत्ति आकवि वत्तर ग एवं अशं जोकि मकान नं. 5/12 मी. यत्ते से जिक ब 83.81 वर्ग मी. ता 19 फीट चौडी सडक, उत्तर ग एवं अंश जोकि मकान नं. दन र एवं अंश जोकि मकान नं. 7 एवं अंश जोकि मकान नं. 19 र वं कंश जोकि मकान नं. 19 र वं कंश जोकि मकान नं. 10 र वं कंश जोकि मकान रं र 10 र वं कंश जोकि मकान रं र 10 र कंश जोकि मकान रं र 10 र वं कंश जोकि मकान रं र 10 र कंश जोकि	को भुनाया जाता है। स्मॉल फाइनेंस बॅंक लिमि जिन या बा द , विंक ये प्रावि का दि 2002 के अधीन अप वेंक के प्रावि कूत अधिक म्यत्तियों का विवरप नाम (सम्पत्तियों व क्त कवर्ड क्षेत्रफल 32.54 रत, कवर्ज क्षेत्रफल 41.80 वर्ग व रो, तृतीय तल, (बिना छव वो, तुराब नगर, गाजिय रव में – अन्य की सम्पत्ति वी, तुराब नगर, गाजिय रव में – अन्य की सम्पत्ति के नाम पर है। वी ह द नं. 5 / 541 129, भूतल, मोहन मीकि के नाम पर है। वी हदी द नं. 5 / 541 129, भूतल, मोहन मीकि के नाम पर है। वी हदी द वो दी रोड त्तुतीय तल, छत के अ नाम पर है। वी हदी प्र के नाम पर है। वी हदी द वो / 860 23 (पुराना नंबर 469 ज नाम पर है। वी हदी : पूरव की 143	भेटेड, 16 / 12, दूसरी मंजिल, र उस्ता / – प्राधिकृत अधिकार / 001, b.co.in चल सम्पत्तियों के विक्रय कारी द्वारा लिया गया है, को ' ज – के बंधककर्ता) 5, खसरा नं. 976, पूर्वा इस्म 0 वर्ग मी., 16 83.20 वर्ग मी., यह सम्पत्ति पश्चिम में – राम चंदर का म त के अधिकार के) सीधे हाथ व मी., यह सम्पत्ति निर्मला पुत्र ब ही रोड, दक्षिण में – वाकुर दा गबाद, यू.पी. में स्थित, क्षेत्रफल तें, पश्चिम में – 20फीट चीड़ी 192, तुराव नगर, पूर्वा इस्मा रस्वती अग्रवाल और राहुल अ रोड, दक्षिण में – वाकुर दास 192, तुराव नगर, पूर्वा इस्मा रस्वती अग्रवाल और राहुल अ रोड, दक्षिण में – वाकुर दास तें. – 538, सेक्टर– 5 वसुन्धरा ग ही : पूरव में – प्लॉट नं. 5 / 5 न सोसायटी सेक्टर– 5, वसुन्ध पूरव में – प्लॉट नं. 5 / 130 क्षिकार सहित, राज अपार्टमेंट रव में – प्लॉट नं. 2वी / 862, प और 447) से मिलकर, मी. सिं व अग्रवाल के नाम पर है, वी सं) शामिल है, तृतीय तल (4 मी ाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, क व में – प्लॉट नं. 2वी / 862, प और 447) से मिलकर, मी. सिं व अग्रवाल के नाम पर है, वी सं) शामिल है, तृतीय तल (4 मी ाजियाबाद, जुरार में – सरकारी क्रि 111.52 वर्ग मी., यह सम्प	डब्ल्यू .ई.ए. आर्य समाज र रे. कृते जना स्मॉल फाइने डिट्र ई—नीलामी विक्र "जहाँ है, जैसा है और ज "जहाँ है, जैसा है और ज माइल खान तुराव नगर माइल खान तुराव नगर माकान, उत्तर में — नेहरू की तरफ, प्लॉट नं. 192, मबू लाल के नाम पर है। स गुलाटी का मकान की तरफ, प्लॉट नं. 192, मबू लाल के नाम पर है। स गुलाटी का मकान क 43.47 वर्ग मी. (52 वर्ग ते रे. उत्तर में — सुरेश इंल खान, बिना छत के अग्रवाल के नाम पर है। युलाटी का मकान माजियाबाद—201010 में 537, पश्चिम में — प्लॉट नं. वरा गाजियाबाद उ.प्र. में 0, पश्चिम में — प्लॉट नं. 2 सेब्बनपुरा ग्राम—घूकना, इंदी: पूरव में — प्लॉट नं. 2 सेब्बनपुरा ग्राम—घूकना, इंदी: पूरव में — प्लॉट नं. वी जिला इमारली प्लॉट नं. वी जिला इमारली प्लॉट नं. वी प्रिया में — प्लॉट नं. वी प्रिया में — प्लॉट नं. वी यिस में — प्लॉट नं. वी प्रा आईजी टाईप, प्लॉट में चौक, दक्षिण में — 20 म्याकी सी सोगेन्द्र प्रकाश	रा किए गए समी रा के करोल बाग, के करोल बाग, के क किंगेटेड का विं आज एवं के के करोल बाग, के क करोल केटेड रसम्पत्तियों ल हेतु दिड़्डी हेतु दिड़्डी हेतु दिड़्डी हेतु दिड़्डी हेतु दिड़्डी हे का क आवार प (A) आरक्षित मूल्य (B) ईएमडी (C) बोली वृद्धि राशि (C) के 13.07 लाख (B) के 1.30 लाख (C) के 10,000/- (A) के 12.92 लाख (B) के 1.30 लाख (C) के 10,000/- (A) के 15.30 लाख (B) के 1.53 लाख (B) के 1.53 लाख (C) के 10,000/- (C) के 10,000/- (A) के 21.51 लाख (C) के 10,000/- (C) के 10,000/- (A) के 23.43 लाख (B) के 2.35 लाख (C) के 10,000/- (C) के 10,000/-	देनांक 18/10/20 वालय की मुद्रा वी की दिन की सुद्रा की की सुद्रा द येया जाएगा 1 वर्य की तिथि एवं समय 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अपांक 04.00 बजे 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अपांक 04.00 बजे 17-11-2023 पूर्वाइ 11.00 बजे से अपांक 04.00 बजे 17-11-2023 पूर्वाक 11.00 बजे से अपांक 04.00 बजे बजे से अपांक	से जारी किया गया। आयुक्त बेलासपुर संभाग बेलासपुर (छ.ग.) गेटाानी प्रतिभूति लेनवार के संज्ञान में क्रात नहीं ज्ञात नहीं

ई—नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्ते : (1) बिक्री, प्रतिमूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। (2) सम्पत्तियां को "जो है जहाँ है", "जैसी है जो कुछ भी है" एवं "दायित्व रहित आधार पर" बेचा जा रहा है। (3) ऊपर वर्णित अनुस्त्र से विनिर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण, प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार दर्शाई गई है, किंतु प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। (4) नीलामी इं—नीलामी प्लेटफार्म वेबसाइंट https://www.mstcecommerce.com के माध्यम से ऊपर वर्णित दिनांकों को आयोजित की जाएगी। (5) अधिक विवरण तथा सम्पूर्ण नियमों व शर्तों के लिए कृपया निम्नलिखित वेबसाइट्स : www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app. देखें । (6) सभी सांविधिक बकाया / अटेंडेंट शुल्क / पंजीकरण शुल्क, रुटांप शुल्क, कर इत्यादि अन्य बकाया, खरीददारों को वहन करना होगा। प्राधिकृत अधिकारी या बैंक किसी भी शुल्क के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ऋणभार में ग्रहणाधिकार सांविधिक बकाया या किसी अन्य के लिए संपत्ति (ई—नीलामी) के संबंध में जो बैंक को ज्ञात नहीं है, इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर की बकाया राशि, बिजली बकाया इत्यादि संपत्ति पर भार के संबंध में स्वतंत्र पूछताछ करें।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना

दिनांकः 30-10-2023, स्थान : गाजियाबाद

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव, 9971720088, (प्राधिकृत अधिकारी), पंजाब नैशनल बैंक



ಪ್ರದೇಶ <mark>ಭಾರತಿ</mark>

ಬೆಂಗಳೂರು | ಮಂಗಳವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2023

🙊 varthabharati.in 🗳 epaper.varthabharati.in

ಮಹಿಳೆ ಆತಹತ್ತೆ

ಕನಕಪುರ, ಅ.30: ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದಿಂದಾಗಿ ಕೆರೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 🖡 ನಡೆದಿರುವುದು ಸೋಮವಾರ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಮೃತರನ್ನು ನಗರದ ಪಾಂಡುರಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ 📑 ಗರಡಿ ಮನೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿನ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹರಿಟ(61) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿ ಸವರಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್

ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಓರ್ವ ಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಓರ್ವ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಗನ ಮತ್ತು ಮಗಳ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೊಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಆಗಮಿಸಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮರೋಣತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ: ಆರೋಪಿಗೆ ಗುಂಡೇಟು

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅ.30: ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಯೊಬ್ಬನ ಕಾಲಿಗೆ ಗುಂಡು ಹೊಡೆದು ಹೊಸೂರಿನ ಅಡ್ತೋ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಆಂಧ್ರ ಮೂಲದ ಶೇಕ್ ನಾಮ್ದಾರ್ ಹುಸೇನ್(34)ಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆತನನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ

ಈತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 8 ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 6 ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

ಹೊಸೂರಿನ ಅಡ್ಕೋ ಪೊಲೀಸರು ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಮಹಜರ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಯತ್ತಿಸಿದ್ದ. ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಬ್ಇನ್ ಸ್ಟೆಕ್ಷರ್ ವಿನೋದ್ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ ಸ್ಷೇಕ್ಷರ್ ವಿನೋದ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ವಿಲಿಯರಸುಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಹೊಸೂರಿನ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪ ದೈಹಿಕ ಶಿಕಕನ ಬಂಧನ

ತುಮಕೂರು/ಹುಳಿಯಾರು, ಅ.30: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿಯ ಬೆಳ್ಳಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬೆಳ್ಳಾರದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕ ದುರ್ಗಪ್ಪ ತುಮರಿಕೊಪ್ಪ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈತ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕಿಯಯನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಾಲಕಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಮೈಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅಲ್ಲದೆ ಬಾಲಕಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಗೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಮೆಸೇಜ್ ಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಕಳುಹಿಸಿ ಲೈಂಗಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹೇಳದಂತೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಹುಳಿಯಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಳಿಯಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪಿಎಸ್ಐ ಧರ್ಮಾಂಜಿ ಅವರು ಪ್ರಕರಣ

ದಾಖಲಿಸಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಗದು ಕಳವು: ಆರೋಪಿಯ ಬಂಧನ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಅ.30: ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ನಗದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಉಪನಗರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ

ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನಗರದ ಗಿರಣಿಚಾಳದ ನಿಖಲ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಂದಿತನಿಂದ

7.97 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳಲಾಗಿದೆ. ಸುನೀಲ್ ಜಾಡ್ ಎಂಬಾತ ಅ.26ರಂದು ಹಳೆಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಆರೋಪ: ವಿವಿಧೆಡೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ

ತುಮಕೂರು: ಆರ್.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ಎಇ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ



ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಏಕಕಾಲಕೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.

1,300ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ , 2,400ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು ,ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 3 ಅಂತಸ್ಥಿನ ಮನೆಯಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ತುಮಕೂರಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ.ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಎರಡು ಬೈಕ್ ,ಎರಡು ಕಾರು ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳು

ತುವುಕೂರು, ಅ.30: ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೊರೆತಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇವರ ಆಸ್ತಿಯು ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಶೇ.220ರಷ್ಟು ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ದೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಶೋಧನೆಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ನೈರ್ವುಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಹತ್ವದ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಕಡೆ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ತುಮಕೂರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ದಾಳಿ ತಪಾಸಣೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಸ್ಷಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ

ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ತುವುಕೂರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿರಾ ಕಚೇರಿ, ತುಮಕೂರಿನ ಎಸ್ಸಿ ವಲಿಬಾಷಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಟವಾಡಿ ಸಮೀಪದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಗರದ 3ನೇ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈಎಸ್ರಿಗಳಾದ ಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ, ಮದ್ದೇನಹಳ್ಳಿಯ ಮನೆ, ಮಂಜುನಾಥ್, ಹರೀಶ್, ಇನ್ ಸ್ಷೆಕ್ಟರ್ ರಾಗಲಹಳ್ಳಿ ಮನೆ, ಫಾರಂಹೌಸ್ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಗಳಾದ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಮೇಟಿ, ಸಲೀಂ, ರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು

ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 8 ನಿವೇಶನಗಳು, 18 ಎಕರೆ ಜಮೀನು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಹಾವೇರಿ: ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿವಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ

ಹಾವೇರಿ, ಅ.30: ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಆರ್ಎಫ್ಒ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪೇಲನವರ ಹಾಗೂ ಆರ್ಎಫ್ ಒ ಮಹಾಂತೇಶ ನ್ಯಾಮತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮನೆ ಸಹಿತ 9 ಕಡೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾವೇರಿ, ಕುರಬಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಲ್ಲಿರುವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪೇಲನವರ ಮೂವರು ಪತ್ತಿಯರ ಮನೆ ಸೇರಿದಂತೆ 6 ಕಡೆ ಹಾಗೂ ಮಹಾಂತೇಶ ನ್ಯಾಮತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ಕಡೆ

ಕಲಬುರಗಿ: ಎರಡು ಕಡೆ ಲೋಕಾಯುಕ ದಾಳಿ

ಕಲಬುರಗಿ, ಅ.30: ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಎರಡು ಕಡೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.


ಬೀದರ್ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಬಸವರಾಜ್ ಡಾಂಗೆ ಹಾಗೂ ದೇವದುರ್ಗದ



ಹಾವೇರಿಯ ಶಿವಾಜಿನಗರ, ವರದಾನೇಶ್ವರಿ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಮನೆ, ಕುರುಬಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಹೆಡಿಗೊಂಡದ ಬಳಿ ಇರುವ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಅನ್ನದಾನಿ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಎಸ್ಪಿ ಕರ್ನೂಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.





ಹಾಸನ, ಅ.30: ಸಾರ್ವ ಜನಿಕರಿಂದ ದೂರು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ನಗದು ಮತ್ತು

ಮಹತ್ತದ ದಾಖಲೆಗಳು ಪತ್ತೆ ನಾರಾಯಣ ಯಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಹೊರವಲಯ ಬೊಮನಾ ಯಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಜೂನಿಯರ್

ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಚ್. ಇ. ನಾರಾಯಣ ಅವರ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ

ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಯಾರನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೇ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಶೋಧ ಕಾರ್ಯದ ವೇಳೆ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು

ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಮಂಡ್ಯ: ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿವಾಸಕ್ತೆ ದಾಳಿ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ: ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಮನೆ, ಫಾರಂ ಹೌಸ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ, ಅ.30: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೆ ಸೇರಿದ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಳೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ ಮತ್ತು ಫಾರಂ ಹೌಸ್ ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ತೇಗಾಲದ ಬಳಿ ಇರುವ 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಹಾಗೂ ಫಾರಂ

ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರ ಸಂಬಂಧಿ ಮಾಜಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ನಟರಾಜು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಮೂಲಗಳು



ಮಂಡ್ಯ/ ಮಳವಳ್ಳಿ, ಅ.30: ಆದಾಯ ಮೀರಿ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆ ಆರೋಪದ ಹಿನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಸೋಮವಾರ

ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ನಂಜೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಮೇಲೆ



ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರುವ ಬಾಲರಾಜು ಅವರ ಮದ್ದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತೈಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆಯೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಶಕ್ತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕವನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವೇ ಹಾಸ್ತಾಸದ

ಬಿಜೆಪಿ ತಿರುಗೇಟು

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅ. 30: 'ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಜನರ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯುವ ಸರ್ಕಸ್ ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಗಮನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯಲು ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 9ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಕಾಶೆಯನೇ ಬದಲಿಸಿ, ಅಂತರ್ ರಾಷ್ಟೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವೇ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಟದ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ, ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳುಗಳೇ ತುಂಬಿವೆ ಹೊರತು ಗುಲಗಂಜಿಯಷ್ಟೂ ಸತ್ಯಾಂಶವಿಲ್ಲ. 15ನೆ

ಕೇಂದ, ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ತಿರಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿರುವುದೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳು, ಅಸಲಿಗೆ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಅಂಶಗಳೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದೆ. ತವ್ಮು ಆಸ್ಥಾನ ಕಲಾವಿದರಿಂದ, ವಂಧಿಮಾಗದರಿಂದ, ಹೊಗಳು ಭಟ್ಟರಿಂದ ತಾವೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ, 13 ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದೇನೆಂದು ತವ್ನು ಬೆನ್ನನ್ನು ತಾವೇ ತಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರವರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಟ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತ ಹಿಡಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಿನ ಅರ್ಥಿಕತೆ ಅಧೋಗತಿಗಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳೇ

ಸತ್ಯ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವ ಯಾರಿಗೇ ಆದರೂ ತಿಳಿಯುವ ಈ ಸತ್ಯ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯರವರ ಕಣ್ಣಿಗೇ ಬೀಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ಬೃಹನ್ನಾಟಕ. ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದ ಹಣಕಾಸು ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತವರು ಈ ರೀತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ

5,495 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಸುಳ್ಳು ನುಡಿಯುವುದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.

'ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಸುಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿಯತ್ತೇ ಬೇರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಸುಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಪೊಳು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಷೇನೋ ಬಂದರು, ಆದರೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದಂಥ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿದೆ. ಈ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಯನು ವುರೆಮಾಚಲು ಅವರು ಹೂಡಿರುವ ಹಲವು ತಂತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೂ ಒಂದು. ಕೈಲಾಗದವರು ಹುಲಿ ಉಗುರಿನಿಂದ ಮೈ ಪರಿಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ವಾಗ್ಗಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.

'ಬರ ಅಧ್ಯಯನ' ಬಿಜೆಪಿಯ 17 ತಂಡಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ: ರವಿಕುಮಾರ್

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅ.30: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿವೆ. ನವೆಂಬರ್ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯ 17 ತಂಡಗಳು ಎಲ್ಲ 10ರಂದು ಬರ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಬಂಧ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಅದನು ಸರಕಾರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೇವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಬರದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಮಯ ನಿಗದಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬಿಎಸ್ವೈ, ಕಟೀಲ್, ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ, ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ್, ಶ್ರೀರಾಮುಲು, ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಅರವಿಂದ ಲಿಂಬಾವಳಿ, ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಯತ್ಶಾಳ, ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ, ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ, ಆರ್. ಅಶೋಕ್, ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ, ಕಾರಜೋಳ, ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ನೇತೃತ್ರದಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರು, ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ 33 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ 17 ತಂಡಗಳು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

10 10

ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ

ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡ 2 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಲಿದೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರ ತಂಡ ತುಮಕೂರು, ಮಧುಗಿರಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲಿದೆ. ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ತಂಡವು ವಿಜಯಪುರ,

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಲಿದೆ. ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ತಂಡವು ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕಬಳ್ಳಾಪುರಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ಈಶರಪ-ಬಳಾರಿ, ಕೊಪಳ, ಸದಾನಂದಗೌಡರ ತಂಡ-ಮಂಡ್ಯ, ಹಾಸನ, ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಅವರು ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ, ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಯತಾಳರು ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ- ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಬಳಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ 8 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು ಕಳೃತನವಾ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣದ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಿವೇಶನ ವಿವಾದ: ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊಲೆ

ಬೆಂಗಳೂರು/ಆನೇಕಲ್, ಅ.30: ನಿವೇಶನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಲೆಗೈದಿರುವ ಘಟನೆ ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿಯ ರಮೇಶ್ ಕೊಲೆಯಾದವರು,

ಜಗದೀಶ್, ಮೋಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೋಸೆಫ್ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ರಮೇಶನ ಪತ್ನಿ ಕಾವ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅ.29ರ ರಾತ್ರಿ 11:30ರ ವೇಳೆಗೆ ಹಳೆ ದ್ವೇಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರು ಮನೆಯ ಜಗದೀಶ್, ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕೊಲೆಗೈದು ಪರಾರಿಯಾಗಿ ದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ ರಮೇಶ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಗಳ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಸರಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರು ಆಗಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಮನೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಈ ಜಾಗ ತನಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಎಂದು ಎದುರು ಮನೆಯ ಜಗದೀಶ್ ಎಂಬವರು ಆಗಾಗ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.. ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಈ ಜಾಗ ರಮೇಶ್ ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ದಾಖಲೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಜಗದೀಶ್, ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮಾರಕಾಸ್ಯಗಳ ಜೊತೆ ಬಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೊಲೆಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ತೆ ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಜಿಂಕೆ ಮಾಂಸ ಹೊಂದಿದ ಆರೋಪ: ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ

ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಅ.30: ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಿಪಡಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆಯ ಹಸಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂಧಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಬಿಆರ್ಟಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಪುಣಜನೂರು ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೂದಿಪಡಗದಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆ ಮಾಂಸ ಇರುವುದಾಗಿ ದೊರೆತ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಜೆ.ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎಸಿಎಫ್ ಸುರೇಶ್ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನಿಸಾರ್ ಅಹ್ಲದ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನಿಂಗರಾಜು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವೇಳೆ ಜಿಂಕೆ ಮಾಂಸ ಹೊಂದಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಂಧಿತರಿಂದ ಜಿಂಕೆಯ ಹಸಿ ಮಾಂಸ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಸಂಬಂಧ ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಬಂಧಿತರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖಾ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿಗಾಗಿ ಬಲೆ ಬೀಸಲಾಗಿದೆ.



ಅಕ್ರಮ ಮಳಿಗೆ ತೆರವು ಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ನೋಟಿಸ್

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅ.30: ಜಯನಗರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸಮುಚ್ಚಯದ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಆದೇಶ ಪಾಲಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಕೀಲ ಆರ್.ಆರ್.ಹಿರೇಮಠ್ ಸಲ್ಪಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ನಡೆಸಿತು. ಶಾಪಿಂಗ್ ಸಮುಚ್ಚಯದ ಬ್ಲಾಕ್-1 ಮರು ನಿರ್ಮಾಣದ ವೇಳೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಗೆ ಮೀಸಲಿದ್ದ ಮೇಲಿನ ನೆಲಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆಗಳ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅನುಮತಿಸಿತ್ತು.

ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹಿಂದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಸಮುಚ್ಚಯದ ಬ್ಲಾಕ್- 1 ಮರು ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪರವಾನಿಗೆದಾರರ ಮಳಿಗೆಗಳ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ತಾತಾಲಿಕ ಅನುಮತಿ ಕಲಿಸಲಾಗಿ ದೆ. ಒಮ್ಲೆ ಬ್ಲಾಕ್-2, 3 ಮತ್ತು 4 ಅನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನಂತರ ಪುನಾ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿ ಜಾಗವನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತ್ತು ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಫಿಡವಿಟ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಶಾಪಿಂಗ್ ಸಮುಚ್ಚಯ ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣದ ನಂತರ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮಳಿಗೆಗಳನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು 2020ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು ಆ ಆದೇಶ ಹೊರಬಿದ್ದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಇತರ ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಎಸಗಿದ್ದು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಅಡಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲ ಜಿ.ಆರ್. ಮೋಹನ್ ವಾದಿಸಿದರು.

ರಾಕ್ ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸಹೋದರನ

ಮನೆಯಲಿ ಕಳತನ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅ.30: ನಗರದ ಮಹಾಲಕ್ಷೀ ಲೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಕ್ ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸಹೋದರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 5 f. 2 2 2 2 2 2 5 5 f. 2 2 5 6 2 5 ನಗದು ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಭ್ರಮರೇಶ್ ಎಂಬವರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕಳ್ಳರ ಪತ್ತೆಗೆ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಭ್ರಮರೇಶ್ ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಯುರೋಪ್ ಪ್ರವಾಸಕೆಂದು ತೆರಳಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕಳ್ಳರು ತಮ್ಮ ಕೈಚೆಳಕ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅ.29ರ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

NATURAL CAPSULES LIMITED Registered Office: Trident Tower, 3rd Floor, No. 23, 100 Ft Road, Jaynagar II Block, Bangalore, NCL Karnataka 560011 Tel: 080-2667 1571; E-mail: company.sec@naturalcapsules.com; Website: www.naturalcapsules.com Contact Person: Mrs. Shilpa Burman, Company Secretary and Compliance Officer Corporate Identification Number: L85110KA1993PLC014742

CALL MONEY REMINDER CUM FORFEITURE NOTICES

Notice is hereby given that the Company has dispatched Final Reminder Cum Forfeiture Notice - First Call and Final Reminder Cum Forfeiture Notice - Second and Final Call (together referred to as the "Forfeiture Notices") dated October 25, 2023 to the holders of partly paid-up Equity shares of Natural Capsules Limited ("Company") who had not paid the Call mony(ies), advising them to remit outstanding call money(ies) along with interest thereon on or before November 15, 2023, in respect of Equity Shares issued on Rights Basis at Issue Price Rs. 100/- each (including Premium of Rs. 90/- per share) in pursuance of Letter of Offer dated October 30, 2021. As per the said Notice dated October 25, 2023, Company has given a period of 15 days to the Shareholders for making payment of outstanding call money alongwith interest thereon on or before November 15, 2023. In accordance with the Articles of Association of the Company, payment of the First and/or Second and Final Call money along with interest on respective calls is to be sent through Demand Draft only in the name "NCL - COLLECTION ACCOUNT - SECOND & FINAL CALL" payable at Par.

The Right equity shares in respect of whom outstanding Call Money along with interest thereon is received on or before November 15, 2023 will be credited to the fully paid-up ISIN INE936B01015 of the Equity Shares of the Company and appropriate process seeking listing and trading thereof will be initiated by the Company. The Company and/or its Registrar will not be liable for any delayed receipt and reserves the right to reject such delayed receipts.

The Right Equity Shares in respect of whom outstanding Call Money along with interest thereon is not received on or before November 15, 2023, will be liable for forfeiture (including the amount already paid thereon) without any further notice as per applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Articles of Association of the Company and terms of Issue as stated in the Letter of Offer dated October 30, 2021.

> For Natural Capsules Limited Sd/ Sunil L Mundra **Managing Directo**

ಕಾಲುವೆಯಲಿ ಮುಳುಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾವು

ಮೈಸೂರು, ಅ.30: ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಈಜಲು ಇಳಿದಿದ್ದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ನಡೆದಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಎಂಬವರ ಪುತ್ರ ಕಿಶನ್ (21) ಮೃತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಂಬೇಡ್ತರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ಈತ ಸರಗೂರಿನ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ಥಾರಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಐವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜಲು ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಈಜಲು ಬಾರದ ಕಿಶನ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಿಶನ್ ಅನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮೇಲೆತ್ತಲು ಪ್ರಯತ್ತಿಸಿದರಾದರೂ ಮೇಲುತ್ತುವ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಕಿಶನ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮೃತದೇ ಹವನ್ನು ಸರಗೂರಿನ ಆಸತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವಕ್ತಾರ ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಣಣ್ಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ: ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು

ಮೈಸೂರು, ಅ.30: ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವಕ್ತಾರ ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅ.28ರಂದು

ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಎಂ.ಲಕ್ಷ ಣ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ ನೀಡಿದ್ದರು. ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ನಗರದ ದೇವರಾಜ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್

ಕಾರ್ಯಕರ್ತನೋರ್ವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡದಂತೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಕೋರಿ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಸೈಬರ್ ತನಿಖೆ

ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳ

ಪತ್ತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿ ದ್ದಾರೆ.

ನಗರಸಭಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಉಡುಪಿ ಸಂಖ್ಯೆ:ಉನಸ:ಬಿ2:ಸಿಆರ್:ಟೆ.ಪ್ರ;2023-24 ಟೆಂಡರು ಪ್ರಕಟಣೆ

ದಿನಾಂಕ: 27.10.2023

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ನಗರಸಭಾ ನಿಧಿಯಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ Standard Bid Document K.W -2 ರ ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆಗೊಳಪಟ್ಟು (ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತೆ) e-procurement ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಚೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಂದ ಮತ್ತು https:.kppp.karnataka.gov.in ನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

1) ತುಂಬಿದ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 09.11.2023 ಸಂಜೆ 5:00 ಗಂಟೆಗೆ

2) ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ: 10.11.2023 ಸಂಜೆ 5:01 ಗಂಟೆಗೆ

છે. જ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಗೆಳಲ್ಲ)	ଞ୍ଚ.ಎ୦.ಡಿ.	ಟಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಫೀ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಸುವ ಅವಧಿ
1	ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಜ್ಜರಕಾಡು ಭುಜಂಗ ಪಾರ್ಕ್ ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ DMA/2023-24/OW/WORK_INDENT5973	30,40,000/-	60,800/-	ಇ– ಪೋರ್ಟಲ್ ನಂತೆ	1 ವರ್ಷ
ಮಾರಿ ಪಡೆದ	ನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇ–ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ https:/kppp.k ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ೲಜಉಜಾಹಿ:386:2023-24			ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ	~